



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2008 (कार्तिक 10, 1930)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2008 (KARTIKA 10, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[(रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

एकोक्त रक्षा मुख्यालय (थल सेना)

सैन्य अभियंता सेवा

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर, 2008

संख्या 516—तिथि 6-10-2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाए गए पदों पर सामने लिखी गई तिथियों से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम०ई०एस० सं०	नाम (श्री/श्रीमती)	पद	तिथि
411088	जय प्रकाश सिंह	ए०सी०ई०	01 अप्रैल 2008 (पूर्वाह्न)
181329	पी०सी०एच० सूर्य नारायण	ई०ई०	10 अप्रैल 2008
419515	कृष्ण गोपाल	ई०ई०ई०/एम	29 फरवरी, 2008 (अपरह्न)
439068	प्रदीप कुमार	ई०ई०ई०/एम	15 अप्रैल 2008 (पूर्वाह्न)
एन०वाई०ए०	फखरुद्दीन अली अहमद	ए०ई०ई०बी०/आर	21 अप्रैल 2008 (पूर्वाह्न)
486820	अमित आनदन अग्रहरि	ए०ई०ई०बी०/आर	24 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न)
439181	मनीष कुमार	ए०ई०ई०बी०/आर	14 मार्च 2008
486826	अम्बरीश कुमार बाजपेई	ए०ई०ई०ई०/एम	19 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
एन०वाई०ए०	अनुज कुमार सिन्हा	ए०ई०ई०बी०/आर	04 मार्च 2008 (पूर्वाह्न)

186244	राजेश कुमार शर्मा	ए-ई-ई-ई-एम	20 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
186245	महेश चन्द्र मीना	ए-ई-ई-बी-आर	25 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
186246	तीर सिंह यादव	ए-ई-ई-बी-आर	01 मार्च 2008 (पूर्वाह्न)
186247	आनन्द मित्र चौहान	ए-ई-ई-बी-आर	08 मार्च 2008 (पूर्वाह्न)
186248	हृमरी अचंभा मन्ना	ए-ई-ई-बी-आर	09 मार्च 2008 (पूर्वाह्न)
एन-वाई-ए	नरेन्द्र कुमार	ए-ई-ई-ई-एम	09 मार्च 2008 (पूर्वाह्न)
486827	सुधीर कुमार ओलायन्त	ए-ई-ई-ई-एम	07 मार्च 2008 (पूर्वाह्न)
486828	छोटे नारायण द्विवेदी	ए-ई-ई-बी-आर	26 जून 2008 (पूर्वाह्न)
506469	मनू पाल	ए-ई-बी-आर	11 मार्च 2008 (पूर्वाह्न)
181396	वी. चन्द्रशंकरन	ए-ई-ई-एम	18 4 एप्रिल 2008 (पूर्वाह्न)
114060	कै- श्रीकृष्णन तोंडा	ए-ई-ई-एम	05 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
313111	अजिन्द्र सिंह	ए-ई-ई-एम	14 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
461576	सतीश चन्द्र गुप्ता	ए-ई-ई-एम	25 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
312867	भुरेश कुमार शर्मा	ए-ई-ई-एम	25 फरवरी 2008
154215	जोएलएम शोस्त्रो	ए-ई-ई-एम	11 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
502846	कमल जीत सिंह नाथी	ए-ई-ई-एम	28 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न)
312792	भारतन सिंह	ए-ई-ई-एम	21 फरवरी 2008 (अपराह्न)
203065	खमन कुमार नकुलन	ए-ई-ई-एम	23 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
505301	रमन कृष्ण शर्मा	ए-ई-ई-एम	21 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न)
एक्स जे-सी	सुदीप सिंह	ए-ई-ई-एम	28 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न)
197239			
124004	चदशुमल जेनेफ वल्लो	ए-ई-ई-एम	20 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न)
एक्स जे-सी	डी. के. नरेन्द्र शर्मा	ए-ई-ई-एम	25 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
65798ए			
147031	ए. शर्मा	ए-ई-ई-एम	18 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
601078	जी वेंकटराव	ए-ई-ई-एम	18 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
454976	सुरेश चन्द्र तिवारी	ए-ई-ई-एम	24 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
146965	भुजराज सायना शिवा (ए)	एस-ए-ओ	21 फरवरी 2007 (पूर्वाह्न)
502599	योगेन्द्र कुमार शर्मा	एस-ए-ओ	30 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न)
169310	दामोदर प्रसाद	टी-ओ	12 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न)
168601	अभय कुमार शर्मा	टी-ओ	17 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न)
190653	शोभा बालाचन्द्रन	टी-ओ	28 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न)
192325	अशोक कुमार शर्मा	टी-ओ	12 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न)
186104	गोविन्द प्रसाद शर्मा	टी-ओ	12 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न)
167696	राम कुमार शर्मा	टी-ओ	12 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न)
167482	लक्ष्मण सिंह	टी-ओ	12 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न)
192326	अमिल कुमार शर्मा	टी-ओ	27 जनवरी 2007
186103	सुरेश चन्द्र गुप्ता	टी-ओ	28 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न)
167978	कैलाश चन्द्र गुप्ता	टी-ओ	28 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न)

419701	सुरेश दत्तात्रय देशपांडे	टी०ओ०	22 नवम्बर 2007 (पूर्वाह्न)
188801	प्रदीप वसप्पा सावगावे	टी०ओ०	09 सितम्बर 2003
191996	प्रेम सिंह तंवर	टी०ओ०	28 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न)
169092	चिमन कुमार चंचलानी	टी०ओ०	28 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न)
183322	कूरैल्ल वषा	टी०ओ०	21 नवम्बर 2007 (पूर्वाह्न)
314458	कमलेश देव	टी०ओ०	29 अप्रैल 2005 (पूर्वाह्न)
192755	सी० एस० खांट	ए०ओ० II	25 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न)
311071	चरन जौत कौर	ए०ओ० II	26 जून 2008 (पूर्वाह्न)
439524	शोशम्मा जोसफ	ए०ओ० II	05 जुलाई 2007 (पूर्वाह्न)
315467	जतिन्द्र कुमार	ए०ई० (सिविल)	25 नवम्बर 2006 (पूर्वाह्न)

अलका जोशी  
अवर सचिव

#### सेना शाखा

##### मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

संख्या 517 दिनांक 6-10-2008—राष्ट्रपति महोदय से मु आशुलिपिक सेवा नियम 2004 के अंतर्गत से मु आशुलिपिक सेवा के एन के वशिष्ठ, प्रधान निजी सचिव (जन्मतिथि: 01 मई 1959) की नियुक्ति को अवधि 01 जुलाई 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक अथवा नियमित पदधारी मिलने के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं।

नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाऊ आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी मिलने पर बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

यह नियुक्ति के अनुसार पदोन्नति/नियुक्ति के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा और न ही स्थगनापन्न प्रधान निजी सचिव रूप में की गई सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशा० अधिकारी

#### थल सेना शाखा

सं० 518 नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 08—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं।—

कर्नल से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर डी एस पतानिया—  
19 मार्च 2008

ले० कर्नल से कर्नल (चयन) (व समकक्ष) के पद पर

आर एम गुप्ता (एम आर 04899-एक्स) 30.05.2008 वेतन व पेंशन पद बिना प्रभाव डाले काल्पनिक करीयता 31.02.2007 से दी जाती है।

जी रविन्द्रनाथ  
मेजर जनरल

अतिरिक्त म नि स से वि सेवा (कार्मिक)

#### सेना शाखा

संख्या 519 दिनांक 7 अक्टूबर 08—को राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं।—

#### नियमित सेना

##### स्थायी आयोग

ले० कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय भान द्वारा)

आई० सी० संख्या	नाम	आर०	सम्बन्धित तिथि
37629 एच	एन एस सुजलाना	ए ओ सी	30 अप्रैल 2008
37873 एच	ए आर राणे	इंजीनियर्स	27 अप्रैल 2008
37881 एफ	हरदीप शर्मा	मैक इंफेन्ट्री	27 अप्रैल 2008
37887 एच	पी डी कुमार	ए ए डी	27 अप्रैल 2008
37899एक्स	के राजा विक्रामन	सिग्नल्स	27 अप्रैल 2008
37900एफ	मुनाम्मा रवि	इन्ट	27 अप्रैल 2008
37901के	आर एस दत्ता	आर्टी	27 अप्रैल 2008
37905ए	अशोक कुमार	ए ओ सी	27 अप्रैल 2008

37910एल	एस एन कुशवाहा	इन्फैंट्री	27 अगस्त 2008
37920पी	एम एन विजया	इन्फैंट्री	27 अगस्त 2008
37994के	सनजीत सिंह	पी.सी.	27 अगस्त 2008
38254एक	रोखर नेहरा	इंजीनियर्स	16 दिसम्बर 2004
39265ए	ए. आन चार	आर्टी	15 दिसम्बर 2006
39529डब्ल्यू	पी. यो. यदव	इन्फैंट्री	13 जून 2007
39923एफ	अश्विन कान्त	इन्फैंट्री	19 दिसम्बर 2007
40026एक्स	राजेश शर्मा	इन्फैंट्री	19 दिसम्बर 2007
40209एन	अरुण कथला	इन्फैंट्री	19 दिसम्बर 2007
40256एल	सुनील रिचर्ड	ए. ए. डी.	19 दिसम्बर 2007

अध्यक्ष

उप-निदेशक

ए. एस. 8ए

सेना शाखा

संख्या 520 में दिल्ली दिनांक 8-10-08 को राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

अज्ञान से मेजर

आई सी नं.	नाम	आय
62017	नवीन कुमार	इन्फैंट्री
62234	विजेश शर्मा	प. सी. सी.
62311	लक्ष्मण एन सी	इन्फैंट्री
62357	विक्रम सुदगल	इन्फैंट्री
		1-10 जून 2008
64280	प. अ. खालुन खोशमार्ड	इंजीनियर्स
64300	रामजीत सिंह	आर्टी
64386	धरुदे भुपेन्द्र चन्द्रकशरि	इन्फैंट्री

1-10 जून 2008

अध्यक्ष

संयुक्त निदेशक

एस एल 8 सी

सेना शाखा

संख्या 521 में दिल्ली दिनांक 8 अक्टूबर 08 को राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके आयु के आधार पर पदोन्नति करने हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

सर्जन रीफरनेन्स कमान्डर के पद पर

को आर्जुन किर्ति (एस एम-14393-एम) (एम आर-08616-एच) (नेवी-75796-एन) एस सी-15-08-2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11-11-2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का अन्वय्य जहाँ तक हम अधिकारी से है। दृष्ट क्रिया जाता है।)

अज्ञान के पद पर

रोमेश दूवे (एम आर-085517-एक्स), एएमसी-06 फरवरी 2008

अंकित कुमार (एस आर-08552-एच), एएमसी-06 फरवरी 2008

विपिन राणा (एम आर-08562-एक्स), एएमसी-14 फरवरी 2008

अमित कुमार (एस आर-08544-के), ए. एस. सी-06 फरवरी 2008

गौरव पाण्डेय (एस आर-08576-एम), ए. एस. सी-06 फरवरी 2008

पतोज अग्रवाल (एस आर-08578-एक्स), ए. एस. सी-06 फरवरी 2008

गुरप्रित सिंह (एस आर-08579-ए), ए. एस. सी-06 फरवरी 2008

नयन कुमार शर्मा (एस आर-08581-एक्स), ए. एस. सी-06 फरवरी 2008

अज्ञान रीफरनेन्स के पद पर

अनुप शर्मा (एस आर-08559-बर्ड), नेवी-75949-के-ए. एस. सी-06 फरवरी 2008

परनिका चण्डोला (एस आर-08339-एन) नेवी-75918-डब्ल्यू ए एस सी-20 फरवरी 2008

जी खोन्स नाथ

ब्रिगे.

उप-महानिदेशक स. से. चि. से. (कार्मिक)

अज्ञान सेना विभाग

संख्या 522 जारी 10 अक्टूबर 08 को राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके आयु के आधार पर पदोन्नति करने हैं:-

नियमित सेना

सेना पुलिस बोर

मुख्य मेजर के रैंक में

सूखेदार हरपाल सिंह (जे. सी. 818561 बाई), 1 फरवरी 2008

सूखेदार पी. एच. चमण शिंया (जे. सी. 818617 ए.), 1 फरवरी 2008

सूखेदार धरमपाल सिंह (जे. सी. 818619 ए.), 1 फरवरी 2008

सूबेदार जगत राम (जे०सी० 818511 एन), 1 मई 2007  
 सूबेदार शिशुपाल सिंह (जे०सी० 818513 वाई), 1 जुलाई 2007  
 सूबेदार के गोपाल (जे०सी० 818517 पी), 1 अगस्त 2007  
 सूबेदार किसान राम रामावत (जे०सी० 818522 ए), 6 सितम्बर 2007\*  
 सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे०सी० 818671 एन), 1 सितम्बर 2007  
 सूबेदार पाटिल भानिक राव भीमा राव (जे०सी० 818622 एल), 1 नवम्बर 2007

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में भेदन और भर्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार चन्द्रन टी वी (जे०सी० 818219 वाई), 1 अगस्त 2007  
 सूबेदार जोशी बसंत कुमार राम शंकर (जे०सी० 818397 एफ), 1 सितम्बर 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कमलेश यादव (जे०सी० 818935 के), 1 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार ओमपाल (जे०सी० 818936 एम), 1 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार राधे श्याम (जे०सी० 8188937 पी), 1 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार शिवा प्रसाद राय (जे०सी० 818941 एक्स), 1 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार उमेश चन्द्र (जे०सी० 818942 ए), 1 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार जगपाल सिंह (जे०सी० 818943 एच), 1 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार एम मुरकेशन (जे०सी० 818944 एल), 1 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार बदरी नारायण झा (जे०सी० 818945 एन), 1 जनवरी 2008

नायब सूबेदार राजिन्द्र सिंह (जे०सी० 818946 डब्ल्यू), 1 जनवरी 2008  
 नायब सूबेदार सन्त राम सिंह कुशवाहा (जे०सी० 818947 वाई), 1 जनवरी 2008

नायब सूबेदार ब्रह्मपाल शर्मा (जे०सी० 818948 एफ), 1 फरवरी 2008  
 नायब सूबेदार अनु राम दास (जे०सी० 818949 के), 1 फरवरी 2008  
 नायब सूबेदार बहाला सिद्धा (जे०सी० 818950 वाई), 1 फरवरी 2008  
 नायब सूबेदार किरन कुमार राही (जे०सी० 818951 एफ), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार धूरा राम (जे०सी० 818960 एच), 1 फरवरी 2008  
 नायब सूबेदार अर्जुन सिंह के (जे०सी० 818962 एन), 26 फरवरी 2008\*

नायब सूबेदार जगदीश चन्दर (जे०सी० 818963 डब्ल्यू), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार कृष्णा मूर्ति पी (जे०सी० 818965 एफ), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार एकादासी प्रसाद (जे०सी० 818966 के), 1 फरवरी 2008  
 नायब सूबेदार मोहम्मद सौकत खान (जे०सी० 818967 एच), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार अशिम मजुमदार (जे०सी० 818968 पी), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार बीरी रत्ना राजू (जे०सी० 818969 एक्स), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार खितिश चन्द्र दास (जे०सी० 818971 पी), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार भारतेन्दु मिश्रा (जे०सी० 818972 एक्स), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार अमरेन्द्र मिश्रा (जे०सी० 818973 ए), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार नर सिंह पाल (जे०सी० 818974 एफ), 1 फरवरी 2008

नायब सूबेदार राजू जी (जे०सी० 818975 एल), 1 मई 2008\*

नायब सूबेदार विजय कुमार दुबे (जे०सी० 818978 वाई), 5 फरवरी 2008\*

नायब सूबेदार लाखेश्वर दत्ता (जे०सी० 818979 एफ), 17 फरवरी 2008\*

नायब सूबेदार शंकरिया एम के (जे०सी० 818981 वाई), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार गोधन सिंह बिष्ट (जे०सी० 818982 एफ), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार बरून कुमार (जे०सी० 818983 के), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार नन्दा बल्लभ (जे०सी० 818984 एम), 3 मार्च 2008@

नायब सूबेदार गंगा राम (जे०सी० 818985 पी), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार टी बसन्तो सिंह (जे०सी० 818986 एक्स), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार मुरारी सिंह तनवर (जे०सी० 818987 ए), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार रामपीत सिंह (जे०सी० 818988 एच), 3 मार्च 2008@

नायब सूबेदार पून मल सैनी (जे०सी० 818989 एल), 1 मार्च 2008@

नायब सूबेदार सामला दासु (जे०सी० 818990 ए), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार राम सिंह (जे०सी० 818991 एच), 11 मार्च 2008@

नायब सूबेदार अशोक सिंह (जे०सी० 818992 एल), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार अशोक सिंह (जे०सी० 818992 एल), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार तोरस कुमार (जे०सी० 818993 एन), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार मल्लेशम्पा (जे०सी० 818994 डब्ल्यू), 1 मार्च 2008

नायब सूबेदार जसमेल सिंह (जे०सी० 818995 वाई), 10 मार्च 2008@

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार ठाकुर (जे०सी० 818997 के), 1 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार यशवंत सिंह (जे०सी० 818998 एम), 19 जून 2008#

नायब सूबेदार विनित कुमार (जे०सी० 818999 पी), 1 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार सुनील कुमार चौबे (जे०सी० 819000 डब्ल्यू), 1 अप्रैल 2008

नाथब सूवेदार ओमप्रकाश (जे.सी. 819000 वाई), 1 अप्रैल 2008  
 नाथब सूवेदार राम अष्टर सिंह (जे.सी. 819002 एफ), 1 अप्रैल 2008  
 नाथब सूवेदार मांग सिंह भाई (जे.सी. 819003 के), 1 अप्रैल 2008  
 नाथब सूवेदार श्री कुमार पी डी (जे.सी. 819004 एम), 1 अप्रैल 2008  
 नाथब सूवेदार मोहन बाबू (जे.सी. 819005 पी), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार जन्मन सिंह (जे.सी. 819007 ए), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार बट्टी नाथ (जे.सी. 819009 एल), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार विजेंद्र सिंह (जे.सी. 819010 ए), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार निर्गम सिंह (जे.सी. 819011 एन), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार लक्ष्मण आनंद (जे.सी. 819012 के), 15 मई 2008  
 नाथब सूवेदार इन्तजानि सैयदराख खान (जे.सी. 819013 एच), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार पी. राजा कुमार (जे.सी. 819014 डब्ल्यू), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार रघुपति सी (जे.सी. 819015 वाई), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार राम धरोर मोर (जे.सी. 819019 पी), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार पाणव कुमार, ब्रम्पन (जे.सी. 819021 एच), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार सत्य राम (जे.सी. 819024 ए), 1 मई 2008  
 नाथब सूवेदार राजेश चन्द (जे.सी. 819025 एच), 5 जुलाई 2008<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार रमेश्वर प्रधान (जे.सी. 819026 एल), 15 जून 2008<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार जलन कुमार पाल (जे.सी. 819029 वाई), 9 जून 2008<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार भाव गोपाल विजयस (जे.सी. 819030 एम), 4 जून 2008<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार जविम अली (जे.सी. 819032 वाई), 23 जून 2008<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार दासराज खान (जे.सी. 819033 एफ), 26 जून 2008<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार अजयप्र ए.ए. (जे.सी. 819034 के), 23 जून 2008<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार श्याम सिंह (जे.सी. 819035 एम), 1 जुलाई 2008<sup>96</sup>  
 सूवेदार (क्लर्क) को पैक में  
 नाथब सूवेदार वैद प्रकाश बढव (जे.सी. 818743 एम), 1 मार्च 2008  
 नाथब सूवेदार राम प्रताप (जे.सी. 818744 पी), 1 मार्च 2008  
 नाथब सूवेदार रामचन्दन के पी (जे.सी. 818780 ए), 1 मार्च 2008  
 नाथब सूवेदार एणंद चन्द बरी (जे.सी. 818800 एच), 1 मई 2008

नाथब सूवेदार केशव शर्मा (जे.सी. 818895एन), 4 अप्रैल 2007<sup>\*</sup>  
 नाथब सूवेदार मी शिव राज (जे.सी. 818896डब्ल्यू), 1 अप्रैल 2007  
 नाथब सूवेदार सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय (जे.सी. 818898एफ), 1 अप्रैल 2007  
 नाथब सूवेदार इरेन शर्मा मिश्रा (जे.सी. 818899के), 1 अप्रैल 2007<sup>\*</sup>  
 नाथब सूवेदार राजशंकर मिश्रा (जे.सी. 818900एन), 1 अप्रैल 2007  
 नाथब सूवेदार राजेन्द्र कुमार (जे.सी. 818901डब्ल्यू), 2 अप्रैल 2007<sup>\*</sup>  
 नाथब सूवेदार बाबू लाल (जे.सी. 818902 वाई), 4 अप्रैल 2007<sup>\*</sup>  
 नाथब सूवेदार उदय शर्मा मनुमदार (जे.सी. 818903एफ), 1 मई 2007  
 नाथब सूवेदार गोपाल चन्द शर्मा (जे.सी. 818904के), 1 मई 2007  
 नाथब सूवेदार बलचन्द्र सिंह (जे.सी. 819046वाई), 1 जुलाई 2007<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार पद्मनाभन के (जे.सी. 819017के), 1 जुलाई 2007  
 नाथब सूवेदार राज राम शर्मा (जे.सी. 818905एम), 1 अगस्त 2007  
 नाथब सूवेदार शिव लाल पाण्डेय (जे.सी. 818906पी), 1 अगस्त 2007<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार सूरदास सिंह (जे.सी. 818907एफ), 1 अगस्त 2007  
 नाथब सूवेदार बबन प्रसाद (जे.सी. 818908ए), 1 अगस्त 2007  
 नाथब सूवेदार तुमार कानि कुण्डु (जे.सी. 818909एच), 1 सितम्बर 2007<sup>S</sup>  
 नाथब सूवेदार शिव शंकर कुशवहा (जे.सी. 818910एफ), 1 सितम्बर 2007  
 नाथब सूवेदार एम जेम्स रमो ज्यूज (जे.सी. 818911ए), 1 सितम्बर 2007  
 नाथब सूवेदार अर्जुन देवरी (जे.सी. 818912एच), 8 सितम्बर 2007<sup>96</sup>  
 नाथब सूवेदार राम गान सिंह (जे.सी. 818913एल), 1 सितम्बर 2007  
 नाथब सूवेदार कैलाश चन्द्र पांग (जे.सी. 818914एन), 1 अक्टूबर 2007  
 नाथब सूवेदार महा सिंह (जे.सी. 818915डब्ल्यू), 1 अक्टूबर 2007  
 नाथब सूवेदार अरु रामचरण (जे.सी. 818916वाई), 1 अक्टूबर 2007  
 नाथब सूवेदार बल राम पाल (जे.सी. 818918के), 1 नवम्बर 2007  
 नाथब सूवेदार सुरेन्द्र शर्मा (जे.सी. 818919एम), 1 नवम्बर 2007  
 नाथब सूवेदार बिजु चिहणी प्रसाद (जे.सी. 818920एफ), 1 नवम्बर 2007  
 नाथब सूवेदार भुवनेश्वर मिश्रा (जे.सी. 818921के), 1 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार तेज बली सिंह (जेसी 818922एम), 1 नवम्बर 2007  
 नायब सूबेदार मनोज कुमार नंदा (जेसी 818925ए), 1 नवम्बर 2007  
 नायब सूबेदार एस तिरुन्वाक्कारसु (जेसी 818926एच), 1 नवम्बर 2007  
 नायब सूबेदार पत्रेन सेल्वम एम (जेसी 818927एल), 1 दिसम्बर 2007  
 नायब सूबेदार गुणाधर माहता (जेसी 818928एन), 1 दिसम्बर 2007  
 नायब सूबेदार हरी दासन एम (जेसी 818929डब्ल्यू), 1 दिसम्बर 2007  
 नायब सूबेदार पीजोस गोस्वामी (जेसी 818930एल), 1 दिसम्बर 2007  
 नायब सूबेदार हरिन्दर कुमार (जेसी 818931वाई), 1 दिसम्बर 2007  
 नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी 818938एल), 1 दिसम्बर 2007  
 नायब सूबेदार राजा शेखरन नायर पी (जेसी 818933वाई), 1 दिसम्बर 2007  
 नायब सूबेदार श्याम बिहारी सिंह (जेसी 818934एफ), 1 दिसम्बर 2007

#### सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार हरी चन्द्र (जेसी 818702एच), 1 अप्रैल 2007  
 नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी 818703एल), 1 अगस्त 2007  
 नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी 818707एफ), 1 सितम्बर 2007  
 नायब सूबेदार पन्ना लाल नायक (जेसी 818726एम), 1 सितम्बर 2007  
 नायक सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार धीरी सिंह (सं. 7774256 एल अब जेसी 819209एफ), 17 अप्रैल 2007\*  
 हवलदार राम अवधेश सिंह (सं. 7774277एफ अब जेसी 819210डब्ल्यू), 1 अप्रैल 2007  
 हवलदार रंगा पंडित (सं. 7774281 के अब जेसी 819211वाई), 4 अप्रैल 2007\*  
 हवलदार गाइकवाड बालू कंशो राव (सं. 7774262 वाई अब जेसी 819212एफ), 2 अप्रैल 2007\*  
 हवलदार राज मोहन पाण्डेय (सं. 7774271 ए अब जेसी 819213के), 1 अप्रैल 2007

हवलदार भूपेन्द्र सिंह चौहान (सं. 7774372 एन अब जेसी 819214एम), 19 अप्रैल 2007\*  
 हवलदार सिया राम पाण्डेय (सं. 7774307 एन अब जेसी 819215पी), 1 अप्रैल 2007  
 हवलदार भीका राम चौधरी (सं. 7774317 एक्स अब जेसी 819216एक्स), 3 अप्रैल 2007\*  
 हवलदार महताब सिंह वर्मा (सं. 7774324 एन अब जेसी 819217ए), 1 अप्रैल 2007  
 हवलदार नरेश (सं. 7774338 एन अब जेसी 819218एच), 21 अप्रैल 2007\*  
 हवलदार कदम सीताराम दादासो (सं. 7774343 वाई अब जेसी 819219एल), 1 मई 2007  
 हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 7774344 एफ अब जेसी 819220ए), 21 मई 2007(६)  
 हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 7774360 वाई अब जेसी 819221एच), 1 जून 2007  
 हवलदार चन्द्र किशोर कोंडारी (सं. 7774364 पी अब जेसी 819222एल), 2 जुलाई 2007&  
 हवलदार प्रफुल्ला गवान (सं. 7773791 वाई अब जेसी 819223एन), 6 जुलाई 2007&  
 हवलदार काकड़े रमेश शंकर राव (सं. 7774274 एन अब जेसी 819225वाई), 1 अगस्त 2007#  
 हवलदार सुरेश कुमार एम पी (सं. 7773989एक्स अब जेसी 819226एफ), 1 अगस्त 2007  
 हवलदार योगन्द सिंह (सं. 7774258डब्ल्यू अब जेसी 819227के), 1 अगस्त 2007  
 हवलदार जानी के के (सं. 7774367एच अब जेसी 819228एम), 1 अगस्त 2007  
 हवलदार नारायण भोगन (सं. 7774260एन अब जेसी 819230के), 1 सितम्बर 2007  
 हवलदार राफेल लांकडा (सं. 7774390डब्ल्यू अब जेसी 819231एम), 1 सितम्बर 2007  
 हवलदार अजय संकर सिंह (सं. 7774392एफ अब जेसी 819232पी), 1 सितम्बर 2007  
 हवलदार जोगेन बासूमत्री (सं. 7774397ए अब जेसी 819233एक्स), 18 सितम्बर 2007%

\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

(६) (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2006 से दी जायेगी)

# (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

\$ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

% (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार आनन्द राम नाथ (सं. 7773746एन अब जेसी 819235एच),  
15 अक्टूबर 2007\*

हवलदार बांकिर होरा भार्गे याबू भार्गे (सं. 7774297पी अब जेसी 819236एल), 6 अक्टूबर 2007†

हवलदार श्री नारायण (सं. 7774124एक्स अब जेसी 819237एन),  
11 अक्टूबर 2007\*

हवलदार संतोष कुमार (सं. 7774176एन अब जेसी 819238डब्ल्यू),  
15 अक्टूबर 2007

हवलदार प्रशान्ता हजारीका (सं. 7774394एल अब जेसी 819239वाई), 20 नवम्बर 2007‡

हवलदार बलिन कुमार बोर (सं. 7774401एक्स अब जेसी 819240एन), 1 नवम्बर 2007

हवलदार भावा नन्दा दाम (सं. 7774403एच अब जेसी 819241डब्ल्यू), 1 नवम्बर 2007

हवलदार प्रिथी चन्द (सं. 7774404एल अब जेसी 819242वाई),  
1 नवम्बर 2007

हवलदार मुशील कुमार (सं. 7774423डब्ल्यू अब जेसी 819243एफ),  
1 नवम्बर 2007

हवलदार होरा राम चौधरी (सं. 7774424वाई अब जेसी 819244के),  
1 नवम्बर 2007

हवलदार लोक दाल मिह (सं. 7774426के अब जेसी 819245एन),  
1 नवम्बर 2007

हवलदार घोमन मैथ्यू (सं. 7774036पी अब जेसी 819246पी),  
16 नवम्बर 2007

हवलदार किशोर कुमार (सं. 7774121एम अब जेसी 819248पी),  
1 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार (कलक) के रैंक में

हवलदार जशोवन्ता साहू (सं. 7774447ए अब जेसी 819249एच),  
1 दिसम्बर 2007

हवलदार रघुनाथ सिंह (सं. 7773968 एन अब जेसी 819250एफ),  
1 दिसम्बर 2007

हवलदार लोने प्रकाश नन्ददेव (सं. 7773997डब्ल्यू अब जेसी 819251ए), 1 दिसम्बर 2007

हवलदार मनोहर लाल यादव (सं. 7774232एफ अब जेसी 819252एच), 10 दिसम्बर 2007\*\*

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 7774270 एक्स अब जेसी 819253एल),  
1 दिसम्बर 2007

हवलदार अंजनी कुमार (सं. 7774279 एम अब जेसी 819254एन),  
1 दिसम्बर 2007

हवलदार जनक राय (सं. 7774298 एक्स अब जेसी 819255डब्ल्यू),  
10 दिसम्बर 2007\*\*

हवलदार महीपाल सिंह (सं. 7774339 डब्ल्यू अब जेसी 819256वाई),  
1 दिसम्बर 2007\*\*

नायब सूबेदार (कलक) के रैंक में

हवलदार फारूक इमाम चौधरी (सं. 7773492ए अब जेसी 819208वाई), 1 अप्रैल 2007

हवलदार सुर्वदेव प्रसाद (सं. 7773522एम अब जेसी 819224डब्ल्यू),  
3 अगस्त 2007\*

हवलदार तुलसी सिंह यादव (सं. 7774243एन अब जेसी 819229पी),  
1 सितम्बर 2007

हवलदार रामाधर सिंह यादव (सं. 7774396एक्स अब जेसी 819234ए),  
18 अक्टूबर 2007‡

हवलदार छोटेलाल प्रसाद (सं. 7774400पी अब जेसी 819247एक्स),  
1 दिसम्बर 2007

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2007 से दी जाती है।)

† (नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2007 से दी जाती है।)

‡ नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार पाय (सं. 7774350पी अब जेसी 819257एफ), 1 जनवरी 2008

हवलदार राजेन्द्रन ए (सं. 7774358एफ अब जेसी 819258के),  
1 जनवरी 2008\*

हवलदार होशियार सिंह (सं. 7774379एक्स अब जेसी 819259एम),  
18 जनवरी 2008\*

हवलदार शिव नाथ निह (सं. 7774412के अब जेसी 819260एफ),  
1 जनवरी 2008

हवलदार तोता राम भरण (सं. 7774421एल अब जेसी 819261के),  
1 जनवरी 2008

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 2007 से दी जाती है।)

† (नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2007 से दी जाती है।)

‡ (नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2008 से दी जाती है।)

§ (नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2008 से दी जाती है।)



हवलदार जनार्दन ठाकुर (सं. 77744090पी अब जेसी 819262एम),  
1 जनवरी 2008

हवलदार दारादे महादेव दादा राव (सं. 7774213डब्ल्यू अब जेसी 819263पी), 1 जनवरी 2008

हवलदार एस बडनन (सं. 7774109 एच अब जेसी 819264एक्स),  
1 जनवरी 2008

हवलदार सिंदारामागोड पोगड (सं. 7774116 वाई अब जेसी 819265ए), 1 जनवरी 2008 \*

हवलदार राम बिलास (सं. 7774133वाई अब जेसी 819266एच),  
1 जनवरी 2008

हवलदार कैलाश प्रसाद यादव (सं. 7774033एन अब जेसी 819267 एल), 1 जनवरी 2008

हवलदार बचन सिंह सोलंकी (सं. 7774335ए अब जेसी 819268 एन), 1 जनवरी 2008

हवलदार दिलीप कुमार मेहता (सं. 7774157एच अब जेसी 819269डब्ल्यू), 4 जनवरी 2008 \*

हवलदार चन्द्र पाल (सं. 7774181वाई अब जेसी 819270 एल),  
1 जनवरी 2008

हवलदार बाबू लाल ठाकुर (सं. 7774087पी अब जेसी 819271एन),  
1 जनवरी 2008

हवलदार रविन्द्र कुमारसिंह (सं. 7774168पी अब जेसी 819272 डब्ल्यू),  
1 जनवरी 2008

#### श्री नारायण जाधव

हवलदार धर्मपाल सिंह (सं. 7774180 डब्ल्यू अब जेसी 819273 वाई), 1 जनवरी 2008 \*

हवलदार अरुण कुमार सिंह (सं. 7774187ए अब जेसी 819274एफ),  
1 जनवरी 2008

हवलदार जगदीश सिंह राजपूत (सं. 7774220एम अब जेसी 819275के), 1 फरवरी 2008

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 7773846एक्स अब जेसी 819276एम), 1 फरवरी 2008

हवलदार दिनेश कुमार दुबे (सं. 7774409के अब जेसी 819277 पी),  
1 फरवरी 2008

हवलदार अतर सिंह (सं. 7774322एच अब जेसी 819278एक्स),  
1 फरवरी 2008

हवलदार ए कृष्ण (सं. 7774471डब्ल्यू अब जेसी 819279ए),  
1 फरवरी 2008

हवलदार आनन्दा पाल (सं. 7774503एन अब जेसी 819280पी),  
2 फरवरी 2008@

हवलदार लख कुमार दत्ता (सं. 7774508एम अब जेसी 819228 एक्स), 1 फरवरी 2008

हवलदार हरिहर कलिता (सं. 7774459पी अब जेसी 819282 ए),  
2 फरवरी 2008@

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 7774446ए अब जेसी 819283 एच),  
1 फरवरी 2008

हवलदार सत्यवीर (सं. 7774468डब्ल्यू अब जेसी 819284एल),  
1 फरवरी 2008

हवलदार दारोगा चौधरी (सं. 7774496एच अब जेसी 819285 एन),  
1 फरवरी 2008

हवलदार राम देव सिंह (सं. 7774521डब्ल्यू अब जेसी 819286डब्ल्यू),  
1 फरवरी 2008

हवलदार शंकर दयाल राम (सं. 7774474के अब जेसी 819287वाई),  
1 फरवरी 2008

हवलदार सी रविचंदन (सं. 7774478एम अब जेसी 819288एफ),  
1 फरवरी 2008

हवलदार सुखेंद्र शेखर बेरा (सं. 7774468वाई अब जेसी 819289के),  
1 फरवरी 2008

हवलदार पूरण चन्द पाण्डेय (सं. 7774113एल अब जेसी 819290वाई), 1 फरवरी 2008

हवलदार दिनेश चन्द्र दास (सं. 7774466एल अब जेसी 819291एफ),  
1 फरवरी 2008

हवलदार सत्यनारायण (सं. 7774493पी अब जेसी 819292के),  
1 फरवरी 2008

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 7774517एन अब जेसी 819293एम),  
1 फरवरी 2008

हवलदार थाकूर अली अन्सारी (सं. 7773786एन अब जेसी 819297एच), 1 मार्च 2008

हवलदार बेटा कंका राजु (सं. 7774522वाई अब जेसी 819298एल),  
1 मार्च 2008

हवलदार राजा राम (सं. 7774524के अब जेसी 819299एन),  
1 मार्च 2008

हवलदार महादेव सपदर (सं. 7774531ए अब जेसी 8192300 एक्स),  
12 मार्च 2008#

हवलदार जी सेलवन (सं. 7774534एन अब जेसी 819301ए),  
1 मार्च 2008

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 7774546एच अब जेसी 819302एच),  
1 मार्च 2008

हवलदार एम गोविन्दा राजन (सं. 7774572के अब जेसी 819303 एन), 1 मार्च 2008

@ (नायक सूच्येदार के रैंक में वृद्धि तथा भत्तों पर प्रभाव डालने बिना स्पेक्ट्र 1 मई 2007 से दी जाती है)

हवलदार रमेश यादव (सं. 7774574पी अब जेसी 819336डब्ल्यू),  
1 मार्च 2008

हवलदार विष्णुवर राय (सं. 7773594डब्ल्यू अब जेसी 819336डब्ल्यू),  
1 मार्च 2008

हवलदार विनय कुमार भट्ट (सं. 7773727एफ अब जेसी 819306वाई), 1 मार्च 2008

हवलदार शिंदे शिवाजी सोलोम (सं. 7773881एक्स अब जेसी 819307एफ) 1 मार्च 2008

हवलदार वैजनाथ महाती (सं. 7774128एन अब जेसी 819308के),  
1 मार्च 2008

हवलदार हरवीर सिंह (सं. 7774341एन अब जेसी 819309एफ),  
1 मार्च 2008

हवलदार कृजिलाल मेन (सं. 7774432एक्स अब जेसी 819310एफ),  
1 मार्च 2008

हवलदार कमलेश्वर सिंह (सं. 7774511एम अब जेसी 819311के),  
1 मार्च 2008

हवलदार रणजोद सिंह (सं. 7774836एन अब जेसी 819312एम),  
1 मार्च 2008

हवलदार मुनीम सिंह (सं. 7774563एच अब जेसी 819313पी),  
1 अप्रैल 2008\*

हवलदार अच्युत गर्गोन (सं. 7774532एच अब जेसी 819314एक्स),  
5 अप्रैल 2008S

हवलदार कृष्ण मुरारी प्रसाद (सं. 7774549डब्ल्यू अब जेसी 819315ए), 1 अप्रैल 2008

हवलदार हनीफा के के (सं. 7774575एक्स अब जेसी 819316एफ),  
1 अप्रैल 2008

हवलदार सर्वदास राय (सं. 7774163डब्ल्यू अब जेसी 819317एन),  
2 अप्रैल 2008S

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 7774327एक्स अब जेसी 819318एन),  
15 अप्रैल 2008S

हवलदार भुजवीर सिंह (सं. 7774519वाई अब जेसी 819319डब्ल्यू),  
1 अप्रैल 2008

हवलदार श्रीकांत पराशर (सं. 7774542एम अब जेसी 819320एन),  
1 अप्रैल 2008

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 7774376ए अब जेसी 819321वाई),  
1 मई 2008S

हवलदार विजयलाल सिंह (सं. 7774706एक्स अब जेसी 819324एन),  
1 मई 2008

हवलदार रमेश यादव (सं. 7774586के अब जेसी 819325के),  
1 मई 2008

हवलदार चधुक्टी शेकतादास (सं. 7774590एम अब जेसी 819326एम), 1 मई 2008

हवलदार जयनारायन सोनी (सं. 7774593ए अब जेसी 819327पी),  
1 मई 2008

हवलदार अशोक कुमार पेंड्रे (सं. 7774616डब्ल्यू अब जेसी 819328  
एक्स), 1 मई 2008

हवलदार रौते नरेश्वर राय (सं. 7774622के अब जेसी 819329ए),  
1 मई 2008

हवलदार विजय कुमार पांडेय (सं. 7774233एच अब जेसी 819330पी), 1 मई 2008

हवलदार जी दिलीप (सं. 7774479एच अब जेसी 819331एक्स),  
1 मई 2008

हवलदार श्याम प्रसाद सिंह (सं. 7774550एक्स अब जेसी 819332ए),  
1 मई 2008

हवलदार पी पुनू कर्मान (सं. 7774568एफ अब जेसी 819333एन),  
1 मई 2008

हवलदार दिनेश महाती (सं. 7774581एन अब जेसी 819334एन),  
1 मई 2008

हवलदार राकेश कुमार यादव (सं. 7774587एम अब जेसी 819335एन),  
1 मई 2008

हवलदार राज कुमार (सं. 7774610पी अब जेसी 819336डब्ल्यू),  
1 मई 2008

हवलदार गोपाल चक्र (सं. 7774402ए अब जेसी 819337वाई),  
28 मई 2008%

हवलदार अक्षय बिलाल सिंह (सं. 7774513एक्स अब जेसी 819338एफ),  
1 जून 2008

हवलदार अमर सिंह केरी (सं. 7774064एन अब जेसी 819339के),  
1 जून 2008

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 7774640एम अब जेसी 819340वाई),  
1 जून 2008

हवलदार राजेश कुमार पांडे (सं. 7774643ए अब जेसी 819341एफ),  
1 जून 2008

हवलदार हरी शंकर शर्मा (सं. 7774661एच अब जेसी 819342के),  
1 जून 2008

हवलदार ज्योतिमय गेल (सं. 7774663एन अब जेसी 819343एन),  
2 जून 2008\*\*

हवलदार जेठा राम (सं. 777465एन अब जेसी 819344पी), 1 जून 2008

हवलदार बाल मुकुंद (सं. 7774665वाई अब जेसी 819345एक्स),  
2 जून 2008\*\*

S (नायक सुबेदार के श्रेणी के क्लास तथा पदों का प्रभाव वाले नियम लागू)। (सं. 2008 में दी जाती है।)

ss (नायक सुबेदार के श्रेणी के क्लास तथा पदों का प्रभाव वाले नियम लागू)। (सं. 2008 में दी जाती है।)

हवलदार राम स्वरूप वर्मा (सं 7774648वाई अब जेसी 819346ए),  
2 जून 2008\*\*

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार रतन चन्द्र दायमरी (सं 7773421वाई अब जेसी 819294पी),  
1 मार्च 2008

हवलदार राज मल (सं 7773241डब्ल्यू अब जेसी 819295एक्स),  
1 मार्च 2008

हवलदार समर पाल सिंह (सं 7776613एफ अब जेसी 819296एक्स),  
1 मार्च 2008

हवलदार अशित कुमार सिंघा (सं 7773787डब्ल्यू अब जेसी 819321एन), 1 मार्च 2008

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं 7774415एल अब जेसी 819322डब्ल्यू), 1 मई 2008

### विशेष सूची

5 जी आर [एफ एफ]

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

धर्म शिक्षक पंडित मधुरा धीष त्रिपाठी (सं 617815 पी अब जेसी-617815 पी) 08 सितम्बर 2007

एस अशरफ

अवर सचिव

### थल सेना विभाग

संख्या 523 दिनांक 13.10.08 राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं।

### नियमित सेना

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार [जी डी] के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र कुमार त्यागो (सं 14266175एच अब जेसी-377415एन), 02 जुलाई 2007

हवलदार महताम (सं 13889727वाई अब जेसी-377497एफ),  
02 जुलाई 2007

हवलदार ही पी मिश्रा (सं 14253874पी अब जेसी-377621एक्स),  
01 अक्टूबर 2007

हवलदार बन्कू राम (सं 14266116डब्ल्यू अब जेसी-377650एम),

01 नवम्बर 2007

हवलदार वैज नाथ (सं 14253792एम अब जेसी-377652एक्स),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार लक्ष्मी नारायण (सं 14260613 के अब जेसी-377653ए),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार जगदीश नारायण (सं 14250120पी अब जेसी-377655एल),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार पी के नायक (सं 14251504डब्ल्यू अब जेसी-377656एन),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार पवन कुमार (सं 14251634वाई अब जेसी-377657डब्ल्यू),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार टी जी शंकर (सं 14254123ए अब जेसी-377658वाई),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार सुरेश कुमार (सं 14253933डब्ल्यू अब जेसी-377659एफ),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार हर भावान (सं 14253946एन अब जेसी-377660डब्ल्यू),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार मदन मोहन सहाना (सं 14254142 एल अब जेसी-377661वाई), 01 नवम्बर 2007

हवलदार ओम प्रकाश पांडेय (सं 14254047वाई अब जेसी-377662एफ), 01 नवम्बर 2007

हवलदार दया राम यादव (सं 14262287एल अब जेसी-377663के),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार अशोक कुमार (सं 14262362के अब जेसी-377664एम),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार वेद प्रकाश (सं 14262486वाई अब जेसी-377665ए),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार पाटिल सुनील पी एन (सं 14262798पी अब जेसी-377666एक्स), 01 नवम्बर 2007

हवलदार श्री एन मोहापात्रा (सं 14251501एच अब जेसी-377667ए),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार अर्जुन सिंह (सं 3382032एन अब जेसी-377668एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार कन सिंह शंखावत (सं 14258045एल अब जेसी-377669एल), 01 नवम्बर 2007

\* (नायक सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2008 से दी जाती है)

② (नायक सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2008 से दी जाती है)

③ (नायक सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2008 से दी जाती है)

④ (नायक सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

⑤ (नायक सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

⑥ (नायक सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 2008 से दी जाती है)

\*\* (नायक सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार तेज नारायण सिंह (सं 14250544एच अव जेसी-377610ए),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार यशरंग लाल मोना (सं 14250571पी अव जेसी-377671एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार राम निवास (सं 14251191एच अव जेसी-377692एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार परमिन्दर सिंह (सं 3382264एच अव जेसी-377614एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार जीवन सिंह (सं 14263597एच अव जेसी-377615वाई),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार नार्वे सुरेश यशवन्त (सं 14263631एच अव जेसी-377676एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार सी एस श्री पाल झन्डु (सं 14263527एच अव जेसी-377677एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार पवित्र कुमार दास (सं 14263611के अव जेसी-377678एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार चन्दर पाल (सं 14263686एच अव जेसी-377679एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार सायकुल इस्लाम (सं 14248187पी अव जेसी-377680के),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार विजय सिंह (सं 14251344एच अव जेसी-377681एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार राम प्रसन्न (सं 14251541के अव जेसी-377682पी),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार अतार सिंह (सं 14251457के अव जेसी-377683एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार एस पी एल मीन (सं 14251569के अव जेसी-377684एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार पीताम्बर बेहरा (सं 14251630एच के अव जेसी-377685एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार राम विलास राम (सं 14251700एच अव जेसी-377686एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार मिया राम (सं 14252071एच के अव जेसी-377687एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार ज्ञानेश्वर सिंह (सं 14252093पी अव जेसी-377688एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं 14252094एच अव जेसी-377689वाई), 01 नवम्बर 2007

हवलदार एम के पनिकन्दन (सं 14252182एच अव जेसी-377690एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार संजय सिंह (सं 14252221एच अव जेसी-3776101एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार अनिल कुमार (सं 14252509एच अव जेसी-377692एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार जितेन्द्र शुक्ल (सं 14252473एच अव जेसी-377693एच),  
01 नवम्बर 2007

हवलदार दीना नाथ सिंह (सं 14252818के अव जेसी-377732पी), 01  
दिसम्बर 2007

हवलदार सुभाष भन्दार (सं 14253224एच अव जेसी-377733एच),  
01 दिसम्बर 2007

हवलदार नरविन्दर सिंह (सं 3382490के अव जेसी-377734एच),  
01 दिसम्बर 2007

हवलदार श्याम सुन्दर जोग (सं 14258084के अव जेसी-377735एच),  
01 दिसम्बर 2007

हवलदार राम नाथ (सं 14258081एच के अव जेसी-377736एच),  
01 दिसम्बर 2007

नायब सुबेदार (आर सी)

सिपाही ओम प्रकाश गैंगवार (142638319एच अव जेसी-665380पी)  
20 मार्च 2008

नायब सुबेदार (एम टी)

हवलदार ललन सिंह (1389084)एच अव जेसी-665189एच),  
09 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वृद्धि और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार मूला राम (13887190एम अव जेसी-665268एच),  
31 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वृद्धि और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार गुजेश्वर चौहान (13887439एच अव जेसी-665261के),  
26 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वृद्धि और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार महीपाल (13891205पी अव जेसी-665183एम), 26 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वृद्धि और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 19 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेंद्र सिंह (13887494के अव जेसी-665265पी), 02 अप्रैल  
2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वृद्धि और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार महीपाल सिंह (138944026एम अव जेसी-665050एच),  
28 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वृद्धि और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 27 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार मौ, मनुदीन जोगी (13891383 के अव जेसी-6655261वाई),  
03 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वृद्धि और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राम विहारी ठाकुर (13894239ए अब जेसी-665267ए),  
03 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार दारा सिंह रावत (13897042पी अब जेसी-665117के),  
15 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 05 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार गणेश दत्त (13897448ए अब जेसी-665012ए), 03 फरवरी  
2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार विहंगम बिस्वजीत सिंह (13897451ए अब जेसी-665118  
एम), 07 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार भीम सिंह (13897595ए अब जेसी-665190ए),  
24 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जगदीश (13897520ए अब जेसी-665269ए), 31 मार्च  
2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार शशि भूषण प्रसाद (13897603वाई अब जेसी-665266एक्स),  
03 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार चोके लाल (13895381डब्ल्यू अब जेसी-665188ए),  
11 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार नरेश चंद्रा कटारे (13895400 डब्ल्यू अब जेसी-665184पी),  
20 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 05 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार के श्रिनिवासलु (13895303वाई अब जेसी 665182के),  
20 मार्च 2007\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार ब्रह्म प्रकाश (13895566एक्स अब जेसी-665185एक्स),  
08 अप्रैल 2008\*

4—304 GI/2008

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 19 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश चंद्र (13897805ए अब जेसी-665187एच), 19 मार्च  
2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 19 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जगदीश सिंह (13897833एम अब जेसी-665191एल),  
20 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार नेत्रपाल सिंह (13895821वाई अब जेसी-665122पी),  
06 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राम प्रसाद 13895855 एम अब जेसी-665193 डब्ल्यू),  
22 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जग राम सिंह (13895879डब्ल्यू अब जेसी-665073एक्स),  
28-मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार विनोद कुमार (13897985एन अब जेसी-665202एम),  
26 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार रामा कान्त सिंह (13897965ए अब जेसी-665125एच),  
17 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुखिंदर पाल सिंह (13895920एफ अब  
जेसी-665128डब्ल्यू), 03 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार भजन सिंह यादव (15351103एम अब जे.सी. 665195 एफ),  
20 मार्च 2008\*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार बुद्ध सेन (15351192डब्ल्यू अब जे.सी. 665197 एम ),  
18 मार्च 2008\*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश सिंह (15351357कं अय जे.सी. 665212 एल.), 09 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार लने कुमार (15358005एच अय जे.सी. 665214 एल.), 26 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार यलवत सिंह खेने (15351663 वाई अय जे.सी. 665214 इक्ल्यू.), 08 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार दामोदास सिंह (15355957 एच अय जे.सी. 665216 एफ.), 20 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार अयकान सिंह (15353991 एल अय जे.सी. 665217 कं.), 02 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार नंदा कुमार टी जी (15354194एम अय जे.सी. 665218 एम.), 09 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जीमथीन गदवा (15354167 एल अय जे.सी. 665207 एल.), 29 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार कर्पणेश्वर गण (15354223 इक्ल्यू अय जे.सी. 665209 इक्ल्यू.), 12 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार ओम प्रकाश (15354273 एफ अय जे.सी. 665215 एल.), 01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार प्रमोद कुमार शूण्य (15354248 एच अय जे.सी. 665218 एफ.), 01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार राम सिंह (15355048 वाई अय जे.सी. 665213 एल.), 07 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश प्रसाद धेंडन (15355044 एच अय जे.सी. 665214 एफ.), 29 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश कुमार सिंह (15355714 वाई अय जे.सी. 665215 एल.), 12 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार वर्गोश टी का (15355688 एच अय जे.सी. 665218 कं.), 12 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रेम चंद्रा (15355686 एम्स अय जे.सी. 665216एम.), 20 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार हरी सिंह (15355806 अय जे.सी. 665217 पी.), 26 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार चितरंजन धनिया (15356205 एल अय जे.सी. 665211 एम.), 01 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राजीव मोन के (15356255पी अय जे.सी. 665219 ए.), 12 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राजू मिहोन (15356811 एच अय जे.सी. 665220 पी.), 01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार जगत सिंह (15356863वाई अय जे.सी. 665221 एम्स.), 01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार देवन्द्र सिंह (15356884पी अय जे.सी. 665222 ए.), 01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार लखन राम खर्दियन (15356888 एल अय जे.सी. 665218 ए.), 03 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार मनि देव कुमार (15356894 वाई अय जे.सी. 665223 एच.), 01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार हरी भजन सिंह (15356968 एच अब जे.सी. 665224एल),  
01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार दर्शन सिंह रावत (15357006 एल अब जे.सी. 665226डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार भोले नाथ सिंह (15357103एच अब जे.सी. 665225 एन),  
01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार जया कुमार के (15357657 एफ अब जे.सी. 665298 ए),  
08 अप्रैल 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राम सरन सिंह (13890825 एल अब जे.सी. 665263 के),  
29 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश प्रसाद (13890566 एन अब जे.सी. 665260 डब्ल्यू),  
17 अप्रैल 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार दमर रमन (13890631 एच अब जे.सी. 665264 एम),  
17 अप्रैल 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार उमेश सिंह (13891226 एक्स अब जे.सी. 665262 एफ),  
01 फरवरी 2008 \*

हवलदार सुदीप कुमार राय (13891259 एच अब जे.सी. 665317  
ए), 06 मई 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार वी कोसावल (13887704 वाई अब जे.सी. 665227 वाई),  
01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार जगन्नाथ दाश (13894050 एच अब जे.सी. 665354 एन),  
12 मई 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार रवि शंकर दुबे (13894248 एच अब जे.सी. 665296 पी),  
15 अप्रैल 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जसवंत सिंह (13897629 एन अब जे.सी. 665339वाई),  
16 मई 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 08 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राजेंद्र सिंह (13895567 ए अब जे.सी. 665276 एफ),  
01 अप्रैल 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राम कुमार यादव (13897905 एल अब जे.सी.  
665279 एन), 12 अप्रैल 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 22 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार अन्नग पाल सिंह (13895864एन अब जे.सी. -665270ए),  
15 अप्रैल 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार बलवान सिंह (13897956 वाई अब जे.सी. 665145डब्ल्यू),  
28 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार ऐ बुचाहे गोड (13897994 पी अब जे.सी. 665194 वाई),  
21 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार शरनप्पा (15351235 ए अब जे.सी. 665195 एफ),  
17 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार बिपिन कुमार शर्मा (15351181 के अब जे.सी. 665271  
एच), 01 मई 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राम लक्ष्मण धाकर (13531888 एफ अब जे.सी. 665286  
एल), 12 अप्रैल 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार दुर्गा दत्त (15354218 एल अब जे.सी. 665208 एन),  
17 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार शंताज सिंह मोना (15354458 एन अव जे.सी. 665212 डब्ल्यू), 20 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार झक्यू मिह (15355049 एफ अव जे.सी. 665115 पी), 17 अप्रैल 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार विरेंद्र कुमार (15355354 एन अव जे.सी. 665279 पी), 01 मई 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जगदीश प्रसाद (15356722 के अव जे.सी. 665233 एफ), 31 मार्च 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार रमेश चंद्रा (13896126 डब्ल्यू अव जे.सी. 665348 ए), 14 मई 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार ओंकार चंद्र (13898080 एक्स अव जे.सी. 665350 एक्स), 15 मई 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार अशोक राम (13896171 एच अव जे.सी. 665351 ए), 10 मई 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सूवे सिंह शर्मा (13896458 ए अव जे.सी. 665346 पी), 12 मई 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार रमेश कुमार (13898239 एक्स अव जे.सी. 665353 ए), 5 मई 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी।)

नायब सुबेदार (एन टी)

हवलदार हरि मिह (13886292 डब्ल्यू अव जे.सी. 664967 एफ),

01 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार रवि ए. (13896346 एम अव जे.सी. 664942 पी), 08 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार त्रिज नंदन प्रसाद (13887023 डब्ल्यू अव जे.सी. 665048 वाई), 18 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार अभिजीत घोष (13887119 कई अव जे.सी. 665009 ए), 17 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 1 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार एस के प्रसाद (13887122 वाई अव जे.सी. 664998 एफ), 21 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार अर्जुनराज शर्मा (1388735) के अव जे.सी. 664978 एन), 01 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार दीपक कुमार (13897694 ए अव जे.सी. 664884 डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार परमेश्वर सिंह (13887728 एच अव जे.सी. 664945 एच), 17 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार चंदा शेखर (13887812 एच अव जे.सी. 664966 वाई), 14 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार अश्विन तापूजदार (13889667 पी अव जे.सी. 664936 एफ), 31 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार अभिनव (13889737 एच अव जे.सी. 664973 पी), 29 दिसम्बर 2007 \*



\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार हरि कुमार पी वी (13890063 एच अब जे.सी. 664959 एच), 14 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार चंद्रा प्रकाश सिंह (13890602 एन अब जे.सी. 664815ए), 08 दिसम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार वैज नाथ (13890887 एल अब जे.सी. 664929 एल), 01 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार एम एंथोनी डेनियल (13891160 एम अब जे.सी. 664969 एम), 07 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार कुलफ सिंह (13891313 एल अब जे.सी. 664816 एच), 10 दिसम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार कंजन सिंह (13891412 एन अब जे.सी. 664932 एल), 18 दिसम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फ़रवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राजेंद्र प्रसाद चौधरी (13891781 एल अब जे.सी. 664709 एफ), 20 अक्टूबर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार श्याम बिहारी सिंह (13894240 पी अब जे.सी. 664971 के), 05 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रमोद कुमार पात्रा (13894482 एक्स अब जे.सी. 664835 एन), 27 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार बियोय प्रकाश पांडेय (13894541 वाई अब जे.सी. 664994 एल), 18 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार राम पाल सिंह (13894787 एक्स अब जे.सी. 664880 ए), 27 नवम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार शिव बालक राम (13894944 वाई अब जे.सी. 664995 एन), 21 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार सुबोध मिश्रा (13894995 एम अब जे.सी. 665046 एन), 22 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार रामेश्वर यादव (13895030 एफ अब जे.सी. 664939 पी), 07 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार मनल कुमार पी (13895051 एक्स अब जे.सी. 664996 डब्ल्यू), 18 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार सत्येंद्र कुमार पांडेय (13895094 एम अब जे.सी. 665044एच), 21 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार बापु काशीनाथ यादव (13895449 एम अब जे.सी. 664879 एल), 01 दिसम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश सिंह पाल (13895614 एम अब जे.सी. 664947 एन), 24 दिसम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार सरनन डी (13895757 एम अब जे.सी. 665074 ए), 18 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार रूप किशोर (13895793 एक्स अब जे.सी. 665075एच), 24 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार मोहन कुमार यादव (13895799 वाई अब जे.सी. 665076 एल), 18 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार देवेंद्र कुमार सिंह (13897252 एम अर जे.सो. 664909 के), 18 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार सुन्दर पाल सिंह (13897366 ए अर जे.सो. 664886 एफ), 08 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार महामन्द मजुमदार हस्तम बाबुकर (13897422 एम अर जे.सो. 664821 एन), 06 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार गोविंद सिंह (13897630 डब्लू अर जे.सो. 664720 ए), 01 नवम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार शिव लाल (13897684 के अर जे.सो. 664941 एम), 20 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार अशोक कुमार बांदेय (13897710 ए अर जे.सो. 664873 के), 20 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार महिपाल सिंह (13897747 एक अर जे.सो. 665000 एफ), 17 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार महेन्द्र सिंह कुनवर (13897755 ए अर जे.सो. 664820 एम), 04 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार दीपक कुमार (13897804 एफ अर जे.सो. 664971 एम), 24 दिसम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार महेश कुमार (13897807 एक अर जे.सो. 664882 एन), 22 नवम्बर 2007 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार नवल किशोर शर्मा (13897902 एक अर जे.सो. 665072 पी), 18 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राम प्रताप सिंह (13897936 एक अर जे.सो. 665074 बाई), 18 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार गम्भीर सिंह (13887261 एच अर जे.सो. 665008 एक), 05 फरवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार राम अवतार शर्मा (13897789 एक अर जे.सो. 665131 डब्लू), 17 फरवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार गया नाथ (13897966 एच अर जे.सो. 665000 एन), 18 जनवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार दामोदर दत्त शर्मा (13897840 एम अर जे.सो. 665002 डब्लू), 06 फरवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार मंद किशोर शर्मा (13897204 के अर जे.सो. 665058 एच), 27 फरवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेंद्र सिंह (13897445 एच अर जे.सो. 665115 बाई), 16 फरवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार राम प्रवेश शर्मा (13897843 डब्लू अर जे.सो. 665006 एम), 02 फरवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार सत बद्रा माहान (13894351 एम अर जे.सो. 665049 एफ), 15 फरवरी 2008 \*

\* (नायब सुवेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 16 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार महेंद्र शर्मा (13897229 एक अर जे.सो. 665116 एफ), 15 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 07 जुलाई 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार अमरेश शर्मा लाडलीसै (13894611 एम अब जे.सी. 665189 ए),  
14 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 05 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राधा रंजन रौत (13894637 एफ अब जे.सी. 665112 एल),  
18 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार जय प्रकाश तिवारी (13894847 एफ अब जे.सी. 665065 वाई), 16 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार युसुफ अली (13897319 एच अब जे.सी. 665114 डब्ल्यू),  
15 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार बाबाजी चरण रौत (13897407 वाई अब जे.सी. 665055पी),  
03 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार मनोज कुमार (13897458 एम अब जे.सी. 664962 एच),  
18 दिसम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रताप चंद्र खण्डूल (13895201 एच अब जे.सी. 665181 एफ),  
17 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार विनोद सिंह (13897602 डब्ल्यू अब जे.सी. 665051 वाई),  
04 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 03 नवम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार घन श्याम यादव (13895326 ए अब जे.सी. 665045 एल),  
04 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार यशपाल सिंह (13897674 ए अब जे.सी. 664937 के),  
07 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार राज बहादुर शर्मा (13897682 वाई अब जे.सी. 665204 एक्स),  
19 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार लक्ष्मण सिंह (13897743 एल अब जे.सी. 665063 एन),  
21 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुभाष सिंह (13895536 ए अब जे.सी. 665113 एन),  
16 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार हशरत अली (13897801 के अब जे.सी. 665192 एन),  
20 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार कमल किशोर (13897858 वाई अब जे.सी. 665144 एन),  
29 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जयवंत टोपनो (13895690 वाई अब जे.सी. 665066 एफ),  
05 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जयवीर (13897895 एम अब जे.सी. 665071 एम), 11  
फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश बाबु पी (13895745 एक्स अब जे.सी. 665119 पी),  
16 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार दीना नाथ मिश्रा (13897915 पी अब जे.सी. 665120 के),  
03 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार खेमपाल सिंह (13895807 एम अब जे.सी. 665121 एम),  
29 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सहीराम मिश्रा (13897953 एल अथ जे.सी. 665089 एल),  
28 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार श्री निवास चंगार (13895881 एल अथ जे.सी. 665087 एल),  
29 जनवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार शीश राम (13897951 ए अथ जे.सी. 665093 एल),  
15 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुबोध कुमार (13897958 अथ जे.सी. 665146 एल),  
01 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जंगल भारी शर्मा (13897961 अथ जे.सी. 665123 अथ),  
01 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार रणेंद्र कुमार ओझा (13897982 ए अथ जे.सी. 665126 एल),  
28 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेंद्र सिंह (13897971 एल अथ जे.सी. 665124 एल),  
25 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जनार्दन सिंह यादव (13895898 एल अथ जे.सी. 665121 एल),  
16 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार जेटा राम (13895922 एम अथ जे.सी. 665129 अथ),  
08 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार कमलेश शर्मा (13895924 एल अथ जे.सी. 665130 एल),  
27 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार गुणेश्वर प्रसाद (13895947 अथ जे.सी. 665145 अथ),  
25 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार संतोष पटनायक (15352172 एम अथ जे.सी. 665208 एल),  
15 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रमिल प्रसाद पांडे (15352173 एल अथ जे.सी. 665205 एल),  
15 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार मुलायम सिंह (15353888 ए अथ जे.सी. 665206 एल),  
19 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश जी (15354219 एल अथ जे.सी. 665211 एल),  
15 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार हंस राज (15354282 एल अथ जे.सी. 665210 एल),  
14 मार्च 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार राम कुमार (15355962 ए अथ जे.सी. 665039 एल),  
06 फरवरी 2008 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

पी रामा शास्त्री  
अवर सचिव

भवन सेवा विभाग

संख्या 524 दिनांक 13 अक्टूबर 08 -- राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियों/पदोन्नतियों करते हैं।

निर्यामिन सेना

सेना आशुद्ध कोर

नायब सुबेदार के रैंक में

हवलदार एस के टी आम्बुनिशान नन्द राम (6921910 एल अथ जे.सी. 727701 एम), 08 दिसम्बर 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार एल के टी जेधन राम मगन (6921942 एल अथ जे.सी. 727702 एम), 12 जनवरी 2007 \*

\*(नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी।)

हवलदार क्लर्क जी डी राजेंद्रा सिंह भाटी (6920967एच अब जेसी 727709एक्स), 09 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी

हवलदार एस एच टी आनंद कुमार (6917696के अब जेसी 727704ए), 23 जनवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार अम्मुनिशन तकनिशियन नित्या नंद मिश्रा (6929848इबलू अब जेसी 727705एच), 20 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार अम्मुनिशन तकनिशियन गुरमेल सिंह (6929874 एक्स अब जेसी 727708एल), 16 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार अम्मुनिशन तकनिशियन कैलाश चंद्रा जोशी (6929881एन अब जेसी 727707एन), 01 फरवरी 2008

हवलदार अम्मुनिशन तकनिशियन छैप्ले रामा मंजाजी (6929907 एक्स अब जेसी 727706 इबलू), 01 फरवरी 2008

हवलदार अम्मुनिशन तकनिशियन अम्बारिश पांडे (6990779इबलू अब जेसी 727709वाई), 01 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार अम्मुनिशन तकनिशियन राम कृपाल सिंह (6932112पी अब जेसी 727710एन), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन दग विजय सिंह (6920385एल अब जेसी 727711इबलू), 01 जनवरी 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन प्रमोद कुमार श्रीवास्तवा (6920406इबलू अब जेसी 727712वाई), 01 फरवरी 2008 \*

हवलदार क्लर्क जी डी राम प्रकाश (6920412 के अब जेसी 727713एफ), 25 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार अम्मुनिशन तकनिशियन मंदू नाथ रोय (6928184एफ अब जेसी 727714 के), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क जी डी वीरेंद्रा कुमार (6920428के वाई अब जेसी 727715एम), 16 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार क्लर्क जी डी कृशना चंद्रा साहू (6920450ए अब जेसी 727716पी), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन अजीत कुमार दास (6920486वाई अब जेसी 727717एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन वबन चौबे (6920548 एन अब जेसी 727718एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क जी डी राधा क्रिशन पिल्ले (6920558एम अब जेसी 727719एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क जी डी शिवधनी मिश्रा (6920576ए अब जेसी 727720एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क जी डी सत्यपाल रमन (6920582एन अब जेसी 727721ए), 28 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार क्लर्क जी डी केदार सिंह (6920647इबलू अब जेसी 727722एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क जी डी वीरेंद्रा नारायण पाठक (6920774एल अब जेसी 727723एल), 01 मार्च 2008

हवलदार एस के टी वेपन वरिंदर सिंह (6921992इबलू अब जेसी 727724एन), 01 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एस के टी सिगनल धार्यवीर द्विवेदी (6921996एम अब जेसी 727725इबलू), 18 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एस के टी सिगनल सतेन्द्रा कुमार (6921999ए अब जेसी 727726वाई), 14 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एस के टी सिगनल अजेंद्रा सिंह चौहान (6922002एम अब जेसी 727727एफ), 01 फरवरी 2008

हवलदार एस के टी सिगनल उमा प्रताप सिंह तिवारी (6922008एन अब जेसी 727728के), 18 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एस के टी सिगनल किशना कुमार (6922009इबलू अब जेसी 727729एम), 1 फरवरी 2008

हवलदार एस के टी सिगनल ध्रुव नारायण तिवारी (6922014एफ अब जेसी 727730एफ), 14 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार कर्क जो डी नुभर चंद लम्प (692093एम्) अब जेसी 727731के), 01 मार्च 2008

हवलदार कर्क जो डी राजन सिंह (692093एम्) अब जेसी 727732एम्), 01 मार्च 2008

हवलदार कर्क जो डी भगवत प्रसाद सिंह (692093एम्) अब जेसी 727733पी), 01 मार्च 2008

हवलदार एम् के डी दिगम्बर श्रीम प्रकाश (692093एम्) अब जेसी 727734एम्), 25 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एम् के डी जी एम् एंड सी एमडी रोसाकुमर (692093एम्) अब जेसी 727735एम्), 01 फरवरी 2008

हवलदार एम् के डी जी एम् एंड सी नगेंद्र कुमार दुबे (692093एम्) अब जेसी 727736एम्), 01 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एम् के डी एम् एंड सी के दिवेंदी (692093एम्) अब जेसी 727737एम्), 01 फरवरी 2008

हवलदार एम् के डी जी एम् एंड सी चुन्ने लाल (692093एम्) अब जेसी 727738एम्), 16 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एम् के डी जी एम् एंड सी शक्ति खान (692093एम्) अब जेसी 727739एम्), 01 फरवरी 2008

हवलदार एम् के डी जी एम् एंड सी पालिंद प्रसाद (692093एम्) अब जेसी 727740एम्), 01 मार्च 2008

हवलदार इन्फ एम् के डी सी सिंह (692093एम्) अब जेसी 727741एम्), 25 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एम् एम् डी सुन्दर राज (692093एम्) अब जेसी 727742एम्), 12 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एम् एम् डी दिलीप सिंह (692093एम्) अब जेसी 727743एम्), 11 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एम् एम् डी शिव बदन सिंह (692093एम्) अब जेसी

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एम् एम् डी डी ठाकुर दाम (692093एम्) अब जेसी 727745के), 01 फरवरी 2008

हवलदार एम् एम् डी पी ज्येष्ठ प्रसाद सिंह (692093एम्) अब जेसी 727746एम्), 10 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एम् एम् डी डी प्रम दामल (692093एम्) अब जेसी 727747पी), 21 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार अधुनिक तकनीकन हकिम सिंह (692093एम्) अब जेसी 727748एम्), 01 मार्च 2008

हवलदार कर्क जो डी ज्येष्ठ सिंह जदर (692093एम्) अब जेसी 727749एम्), 04 मार्च 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार कर्क जो डी जगदीश सिंह (692093एम्) अब जेसी 727750पी), 20 फरवरी 2008\*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार कर्क जो डी ज्येष्ठ प्रकाश (692093एम्) अब जेसी 727751एम्), 01 फरवरी 2008

हवलदार कर्क जो डी ज्येष्ठ जोगिंदर सिंह (692093एम्) अब जेसी 727752एम्), 01 फरवरी 2008

हवलदार कर्क जो डी महेंद्र पाल सिंह (692093एम्) अब जेसी 727753एम्), 01 मार्च 2008

हवलदार कर्क जो डी भोज राज (692093एम्) अब जेसी 727754एम्), 01 मार्च 2008

हवलदार कर्क जो डी ज्येष्ठ अनिल कुमार (692093एम्) अब जेसी 727755एम्), 01 मार्च 2008

हवलदार कर्क जो डी ज्येष्ठ मुराद खान कियाम खान (692093एम्) अब जेसी 727756एम्), 01 मार्च 2008

हवलदार एम् के डी जी एम् एंड सी दुर्गाशम चम्पान (692093एम्) अब जेसी 727757एम्), 01 फरवरी 2008

हवलदार एम् के डी जी एम् एंड सी जीवन राम नयाड (692093एम्) अब जेसी 727758एम्), 01 फरवरी 2008

हवलदार एम् के डी जी एम् एंड सी मन्मू प्रसाद साहू (692093एम्)

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी दीन बंधू चौधरी (6922048पी अब जेसी 727760वाई), 01 फरवरी 2008

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी रघु आर (6922053ए अब जेसी 727761एफ), 27 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एस के टी एम टी द्वारिका नाथ बारिक (6922055एल अब जेसी 727762के), 01 फरवरी 2008

हवलदार एस के टी एम टी प्रदीप कुमार मंडल (6922074डब्ल्यू अब जेसी 727763एम), 01 मार्च 2008

हवलदार झड़वर एस टी मौगिलीपुरी लखैया साहू (6919919वाई अब जेसी 727764पी), 22 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एस एच टी प्रेम कुमार साहू (6919239वाई अब जेसी 727765एक्स), 01 मार्च 2008

हवलदार एस एच जी डी मंगला नंद (6921229एन अब जेसी 727766ए), 15 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार एस एच जी डी पुर्णोत्तम चंद (6921401के अब जेसी 727767एल), 01 फरवरी 2008

हवलदार एस एच जी डी गुर्मेत सिंह (6921408एन अब जेसी 727768एल), 01 मार्च 2008

हवलदार ए. पेंटर चतिश्वर थांदव (13955799एल अब जेसी 727769एन), 01 फरवरी 2008

हवलदार एस एच जो डी भुवेंद्रन टो जो (6921413वाई अब जेसी 727770एच), 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क जी डी हेमंत कुमार सामल (6921017एच अब जेसी 727771एल), 11 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाएगी

हवलदार क्लर्क जी डी रंका निधी जेना (6920461एम अब जेसी 727772एन), 01 फरवरी 2008

हवलदार अम्पुनिशन तकनिशियन जगदीश चंदर (6925881एम अब जेसी 727773डब्ल्यू), 01 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार अम्पुनिशन तकनिशियन गिरराज प्रसाद शर्मा (6928272एक्स अब जेसी 727774वाई), 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन किशोरी लाल (6920409एच अब जेसी 727775एफ) 12 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन सुरेश कुमार ए (6920469वाई अब जेसी 727776के) 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन शम्भू प्रसाद (6920521डब्ल्यू अब जेसी 727777एम) 12 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जीडी राजवीर सिंह (6920525 एम अब जेसी 727778पी) 08 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जीडी नरेंद्र कुमार (6920537एम अब जेसी 727779एक्स) 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क जीडी राम जस (6920612ए अब जेसी 727780एम) 01 फरवरी 2008

हवलदार एस के टी सिगनल हरभजन लाल (6922005ए अब जेसी 727781पी) 16 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी सिगनल बरेंद्र सिंह (6922013 वाई अब जेसी 727782एक्स) 01 फरवरी 2008

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी पंचवप्पा शिवासरन (6922018एक्स अब जेसी 727783ए) 01 फरवरी 2008

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी बेग राज (6922024एल अब जेसी 727784एच) 23 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी क्रिष्णा चंद्रा बेहराह (6922036ए अब जेसी 727785एल) 20 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी सुदर्शन साहू (6922039एन अब जेसी 727786एन) 04 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार झड़वर एमटी गिरोश चंद्रा दास (6920632एन अब जेसी 727787डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस एच टी विष्णु छात्रो (691674एन अव जेसो 727785एच) 13 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस एच जी डी नारायण लाल दास (6921271एम अव जेसो 727789एफ) 01 फरवरी 2008

हवलदार अम्बुनिशन तर्कनिशयन शिम्पया मोहो (693067एम अव जेसो 727790डब्ल्यू) 04 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जैप्रकाश सिंह (6920626के अव जेसो 727791वाई) 15 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जीडी सुखपाल सिंह (6920657ए अव जेसो 727792एफ) 03 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क एस प्रवीजन नेहरू सिंह (6920677ए अव जेसो 727793के) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राजदीप सिंह यादव (6920690एक्स अव जेसो 727794एम) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल हीरा लाल चौधे (6920783के अव जेसो 727795पी) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रवीजन अशोक कुमार सिंह (6920792एम अव जेसो 727796एक्स) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क जीडी एम डी जुम्नादीन (6920797एम अव जेसो 727797ए) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल वपन कुमार शीखा (6920813एम अव जेसो 727798पी) 01 मार्च 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मुकुल साह (6920837एच अव जेसो 727799एल) 09 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सिधनाथ सिंह (6920959एम अव जेसो 727800पी) 18 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मोहम्मद हलोम (6920989एम अव जेसो 727801एक्स) 01 मार्च 2008

हवलदार एस एच जी डी जैपान सिंह (6921316एच अव जेसो 727802ए) 01 मार्च 2008

हवलदार एस एच जी डी गम सूत (6921326एल अव जेसो 727803एच) 18 मार्च 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस एच जी टी सुखीचंदर सिंह (6921382के अव जेसो 727804एल) 01 मार्च 2008

हवलदार एस के टी अम्बुनीमान विजय कुमार (6921927एक्स अव जेसो 727805एल) 01 फरवरी 2008

हवलदार एस के टी विमलेश नाथो राम कपूर (6922004 एक्स अव जेसो 727806डब्ल्यू) 20 मार्च 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस केटी जी एन रंजिती भावेश ठाकुर (6922026 पी अव जेसो 727807वाई) 28 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस केटी जी एम रंजिती विश्वनाथ पाधी (6922041 एल अव जेसो 727808एफ) 07 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी एन टी मोहन लाल सरकार (6922058एम अव जेसो 727809के) 04 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी जी एम एंड भी नेत्रा निधि दास (6922062एफ अव जेसो 727810वाई) 04 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी एम टी अविनाश चन्द्रशेखर (6922068एच अव जेसो 727811एफ) 01 मार्च 2008

हवलदार एस के टी एम टी विकास चंद्रा पाल (6922069एल अव जेसो 727812के) 01 मार्च 2008

हवलदार एस के टी एम टी प्रदीप कुमार परियदा (6922073एल अव जेसो 727813एम) 21 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी एम टी रमकांत मर्तिका (6922073एल अव जेसो 727814पी) 01 मार्च 2008

हवलदार एस के टी अ एम रंजिती दिनेश शीखा (6922076एफ अव जेसो 727815एक्स) 01 मार्च 2008



\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी ए वी ए एन विस्वानाथ डे (6922079पी अब जेसी 727816पी) 20 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार झाइवर एम टी राम प्यारे राम (6920299ए अब जेसी 727817एच) 01 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस एच टी सी भकिशना मूरथी (6918883वाईअब जेसी 727818एल) 06 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस एच टी पाखर सिंह (6919085एक्स अब जेसी 727819एन) 02 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार अम्मुनिशन तकनिशियन प्रमोद कुमार सिंह (6928478पी अब जेसी 727820एच) 01 फरवरी 2008

हवलदार क्लर्क जी डी हिरदय नारायण सिंह (6920865पी अब जेसी 727821एल) 17 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जी डी सूरज भान सिंह (6920882पी अब जेसी 727822एन) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क जी डी लाल सिंह (6920932पी अब जेसी 727823डब्ल्यू) 29 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जी डी रविंद्रा पाल सिंह (6920933एक्स अब जेसी 727824वाई) 15 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जी डी हिम नारायण सिंह (6920946पी अब जेसी 727825एफ) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राज कुमार (6920958के अब जेसी 727826के) 07 अप्रैल 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जी डी राकेश कुमार शर्मा (6920980पी अब जेसी 727827एम) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क जी डी जगदीश चंद्रा पाठक (6920992के अब जेसी 727828पी) 18 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जी डी विस्वजीत राय (6921011एफ अब जेसी 727829एक्स) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क जी डी हरकृष्ण विस्वाल (6921012के अब जेसी 727830एम) 01 अप्रैल 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल रामायण सिंह चौहान (6921035 एल अब जेसी 727831पी) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मधुसूदनकुरुप (6921040 डब्ल्यू अब जेसी 727832एक्स) 01 मार्च 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल दधि किशन राम (6921062पी अब जेसी 727833ए) 09 अप्रैल 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जी डी देवेंद्रा सिंह (6921069वाई अब जेसी 727834एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार क्लर्क जी डी रमेश चंद्रा पाल (6921074के अब जेसी 727835एल) 07 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी

हवलदार क्लर्क जी डी सुख मन (6921113एक्स अब जेसी 727836एन) 01 अप्रैल 2008

हवलदार क्लर्क जी डी नंदा कुमार जी (6921156एम अब जेसी 727837डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल कुलदीप सिंह (6921205के अब जेसी 727838वाई) 01 अप्रैल 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल ए मयन (6921213एच अब जेसी 727839एफ) 01 अप्रैल 2008

हवलदार क्लर्क जी डी कबीर उद्दिन लस्कर (6921215एन अब जेसी 727840डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2008

हवलदार क्लर्क जी डी सुखमय सिंघा (6921216डब्ल्यू अब जेसी 727841वाई) 01 अप्रैल 2008

हवलदार क्लर्क जी डी नारायण दत्त (6921318एम अब जेसी 727842एफ) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस के टी सिग्नल अनिरुधा (6921200एफ अब जेसी 727843एम) 01 जनवरी 2008

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी प्रहलाद खासा (692143एक्स अव जेसी 727844एच) 16 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी एस टी दीना चंभू नायक (6922081एच अव जेसी 727845पी) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस के टी एस टी योगेंद्र चक्रवर्ती (692209एच अव जेसी 727846एक्स) 18 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी के एस सिंह जी मुफ्ता अहमद (692209एच अव जेसी 727847एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी विशास भोमिक (6922083एक्स अव जेसी 727848एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस के टी एन टी दिव्य कुमार मंडल (692208एच अव जेसी 727849एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस के टी एन टी धरपवीर कुमार (692209एच अव जेसी 727850एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस के टी एस टी ब्रिज भूपन शर्मा (692209एक्स अव जेसी 727851एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार इन्वर्टर एस टी काम देव (6920303एक्स अव जेसी 727852एच) 01 मार्च 2008

हवलदार इन्वर्टर एस टी चंद्रभा सिंह (6920303एच अव जेसी 727853एच) 08 अप्रैल 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी

हवलदार इन्वर्टर एस टी मेधा सिंह (6923401एच अव जेसी 727854 इक्स) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस एच टी हमीर सिंह (6919384इक्स अव जेसी 727855 वाई) 24 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस एच जी टी गंगा प्रकाश त्रिपाठी (6920746वाई अव जेसी 727856एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस एच जी टी गोकुला जो राव (6920747एक्स अव जेसी 727857के) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस एच जी टी रंजी सुनी मान सिंह (6920980एक्स अव जेसी 727858एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस एच जी टी वेत नागमन सिंह (6921276एच अव जेसी 727859पी) 01 अप्रैल 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस एच जी टी पवन लक्ष्मण (6921433एक्स अव जेसी 727860के) 01 मार्च 2008

हवलदार कर्तक जी टी राजेंद्र सिंह यादव (6922025एच अव जेसी 727861एच) 01 मई 2008

हवलदार कर्तक जी टी जी नंद (6922181एक्स अव जेसी 727862पी) 01 मई 2008

हवलदार अय्युनिथन कर्तक/अय्युनिथन काना राम गवला (6929566एक्स अव जेसी 727863एक्स) 16 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार कर्तक एस के जी टी दिव्य कुमार सिंह (6920831एक्स अव जेसी 727864एच) 08 मार्च 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार कर्तक एस के जी टी दिव्य कुमार गैंग (6920849एक्स अव जेसी 727865एच) 01 मार्च 2008

हवलदार कर्तक जी टी जयपाल राव (6921016ए अव जेसी 727866एच) 01 मार्च 2008

हवलदार कर्तक जी टी जी गंगा प्रकाश (6943305पी अव जेसी 727867एच) 17 अप्रैल 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 21 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी विमानन वीरेंद्र सिंह (6921997पी अव जेसी 727868इक्स) 25 फरवरी 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस के टी एन टी राज सिंह (6922089वाई अव जेसी 727869वाई) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस के टी विमान अमन सिंह (6922092वाई अव जेसी 727870एच) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एस एच टी कलार सिंह (6919241इक्स अव जेसी 727871इक्स) 23 अप्रैल 2008 \*

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योखता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी

हवलदार एस एच जी टी रंजी सुनी मान सिंह (6921449एक्स अव जेसी 727872वाई) 01 मई 2008

हवलदार इन्वर्टर एस टी नारायण (6920745इक्स अव जेसी 727873एक्स) 01 मई 2008

हवलदार अय्युनिथन कर्तक/अय्युनिथन मीरु नोशन चौधरी (6925157ए अव जेसी 727874एक्स) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एसकेटीएमटी सधान कुमार साहा (6922059 एफ अब जेसी 728947 एल) 12 अप्रैल 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटी वेपन बेगि सत्यनारायण (6922093 एफ अब जेसी 727948 एन) 27 अप्रैल 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटी वेपन उमा शंकर (6922111 वाई अब जेसी 727949 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2008

हवलदार एसकेटीएमटी बिध्या सागर (6922147 एक्स अब जेसी 727950 एल) 02 मई 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटीएमटी बीरेन दास (6922187 वाई अब जेसी 727951 एन) 28 मई 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटीएमटी सुरेश कुमार (6922191 एफ अब जेसी 727952 डब्ल्यू) 01 मई 2008

हवलदार एसकेटीएमटी गोपीराम (6922193 एम अब जेसी 727953 वाई) 01 मई 2008

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी राम सिंह (6922195 एक्स अब जेसी 727954 वाई) 01 मई 2008

हवलदार एसकेटीएमटी गिरांज प्रसाद अग्रवाल (6922198 एल अब जेसी 727955के) 01 मई 2008

हवलदार एसकेटीएमटी नरेश कुमार (6922202 एच अब जेसी 727956 एम) 01 मई 2008

हवलदार एसकेटी वेपन देवनाथ (6922204 एन अब जेसी 727957 पी) 29 मई 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटीएमटी जग राम (6922206 वाई अब जेसी 727958 एक्स) 16 मई 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी जगपाल सिंह (6922208 के अब जेसी 727959 ए) 01 मई 2008

हवलदार एसकेटीएमटी धर्मेन्द्र कुमार कौशल (6922209 एम अब जेसी 727960 पी) 02 जून 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटीएमटी रनवीर सिंह (6922211 के अब जेसी 727961 एक्स) 01 जून 2008

हवलदार एसकेटीएमटी प्रेमिल कुमार सिंघा (6922212 एम अब जेसी 727962 ए) 01 जून 2008

हवलदार एसकेटीएमटी त्रिजेंदर सिंह (6922213 पी अब जेसी 727963 एच) 02 जून 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटीएमटी रमेश चंद (6922216 एच अब जेसी 727964 एल) 01 जून 2008

हवलदार एसकेटीएमटी सूरज भान (6922217 एल अब जेसी 727965एफ) 01 जून 2008

हवलदार एसकेटी वेपन जैप्रकाश सिंह (6922239 एच अब जेसी 727966डब्ल्यू) 01 जून 2008

हवलदार एसकेटी वेपन जैप्रकाश सिंह (6922239 के अब जेसी 727967 वाई) 01 जून 2008

हवलदार एसकेटीएमटी सुरेन्द्र सिंह (3383830 एन अब जेसी 727968एफ) 30 मई 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसकेटीएमटी राम सिंह (6920163 डब्ल्यू अब जेसी 727969 के) 02 मई 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी

हवलदार ड्राइवर एम टी जाधव दिलीप शिवमूर्ती (6921148 एन अब जेसी 727970 वाई) 01 जून 2008

हवलदार एसएचटी राम सनेही (6919400 एच अब जेसी 727971 एफ) 01 मई 2008

हवलदार पेंटर हरी शंकर (6919498 एफ अब जेसी 727972 के) 01 मई 2008

हवलदार एसएचटी परमजीत सिंह (6919914 ए अब जेसी 727973 एम) 02 जून 2008

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसएचजीडी एसएच दानडेकर (69216673 वाई अब जेसी 727974 पी) 01 जून 2008

हवलदार एसएचजीडी क्रिशन लाल (69219389 पी अब जेसी 727975 एक्स) 01 जून 2008

हवलदार एसएचजीडी कोमा राम राय (6921343 एन अव जेसी-727976 ए) 07 मई 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने वाला नियन्त्रण 01 मई 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसएचजीडी देवीशाल प्रसाद (6921458 एन अव जेसी-727977 एच) 01 मई 2008

हवलदार एसएचजीडी वीरेंद्र कुमार (6921559 ए अव जेसी-727978 एल) 01 मई 2008

हवलदार एसएचजीडी कामला प्रसाद (6921576 एन अव जेसी-727979 एन) 29 मई 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने वाला नियन्त्रण 01 मई 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसएचजीडी हरी सिंह खेदार (6921577 पी एन जेसी-727980 एच) 29 मई 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने वाला नियन्त्रण 01 मई 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसएचजीडी गिरंद निह (6921780 एन अव जेसी-727981 एल) 31 मई 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने वाला नियन्त्रण 01 मई 2008 से दी जायेगी

हवलदार एसएचजीडी भवेंद्र कुमार पांडे (6921894 डब्ल्यू अव जेसी-727982 एन) 01 जून 2008

हवलदार एसएचजीडी संजय खरि (6938680 डब्ल्यू अव जेसी-727983 डब्ल्यू) 01 मई 2008

हरबंस लाल (14612102 डब्ल्यू अव जेसी-762296 बार्ड) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

ओम प्रकाश तोगसिया (14610209 एम अव जेसी-762298 एच) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

प्रवीन मन्डल (14609679 एन अव जेसी-762294 एन) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

राम चंदर (14612499 एन अव जेसी-762203 बार्ड) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

हवलदार से नायब सुबेदार टैक आरम्भ के रैंक में

आनसूयी मर्दाना (14611492 डब्ल्यू अव जेसी-762264 डब्ल्यू) 15 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

बी जीर्णु राय (14611127 डब्ल्यू अव जेसी-762259 डब्ल्यू) 03 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

गजराज (14613746 एन अव जेसी-762266 एन) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

गीतम पोलै (14610447 एन अव जेसी-762272 पी) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

हर्षवर्धन सिंह नेगी (14609095 ए अव जेसी-762244 एच) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

हयत सिंह खाली (14610634 एन अव जेसी-762248 बार्ड) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

जै देव सायान (14613813 एन अव जेसी-762267 के) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

मोहम्मद कलामुद्दीन (14609107 के अव जेसी-762245 एल) 03 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

मनोज कुमार (14610524 के अव जेसी-762249 एफ) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

मनोरन्जन चौधरी (14613336 एम अव जेसी-762261 एच) 03 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

प्रदीप कुमार (14612713 एन अव जेसी-762265 बार्ड) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

परितोश बिस्वास (14613482 एन अव जेसी-762263 एन) 03 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

प्रभाकरन नायर मो (14613319 ए अव जेसी-762274 ए) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

पुष्कर सिंह (1461333, एन अव जेसी-762260 ए) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

आर रामशाम (14612241 ए अव जेसी-762252 एफ) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

राज कुमार सिंह (14608854 एन अव जेसी-762269 के) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

राजेन्द्र सिंह कुसाव (14611987 के अव जेसी-762273 एन) 03 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

राज्यीवन शर्मा (14612990 डब्ल्यू अव जेसी-762255पी) 12 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

राम लाल मुद्गवत (14610308 पी अव जेसी-762247 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

रन्जीत सिंह (14613176 एन अव जेसी-762254 एम) 14 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

रन्वीर सिंह नगाँव (14609118 एन अव जेसी-762270 के) 01 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

रोहित लाल (14613157 एन अव जेसी-762258 एच) 14 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

सालिक राम (146089115 एन अव जेसी-762246 एन) 12 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008\*

शिव प्रताप सिंह (14613661 एम अब जेसी-762262 एल) 03 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

श्री शिव प्रताप सिंह (14613661 एम अब जेसी-762246 एन) 12 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

श्री राज कुमार (14609048 एच अब जेसी-762243 ए) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

श्रीधर जो (14613201 एल अब जेसी-762257 ए) 03 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

सुधीर कुमार (14611598 के अब जेसी-762251 वाई) 02 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

सुनील कुमार (14613312 एच अब जेसी-762259 एल) 05 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

उमा शंकर मिश्रा (14609588 एफ अब जेसी-762271 एम) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

उत्तम कुमार पाल (14612993 के अब जेसी-762256 एक्स) 03 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

हवलदार से नायब सुबेदार टेक जो सी ई के रैंक में

ए सी जयप्रकाश (14619767 पी अब जेसी-762277 एन) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

दादासो अप्पासो खोम्बारे (14619440 डब्ल्यू अब जेसी-762278 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

लक्ष्मण सिंह बिस्ट (14620532 पी अब जेसी-762280 एन) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

महेश कुमार (14620570 एल अब जेसी-762281 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

आर पूष्पा (14619355 एन अब जेसी-762275 एच) 25 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

सन्तोष कुमार मिश्रा (14620436 ए अब जेसी-762279 वाई) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

सुन्दर लाल शर्मा (14619365 एक्स अब जेसी-762276 एल) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

उत्तम कुमार सिंह (14621227 पी अब जेसी-762282 वाई) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

हवलदार से नायब सुबेदार टेक गन के रैंक में

सुभाष राय (14621844 एक्स अब जेसी-762383 एम) 05 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

हवलदार से नायब सुबेदार टेक इनस्ट्रुमेन्ट के रैंक में

भास्करन एस (14615274 ए अब जेसी-762507 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

वृजराज चौधरी (14614993 एच अब जेसी-762504 एच) 29 अप्रैल 2008/ 01 फरवरी 2008\*

एन के अनिल कुमार (14615272 एल अब जेसी-762506 एन) 31 मार्च 2008/ 01 मार्च 2008\*

शारदा प्रसाद शुक्ला (14615181 एफ अब जेसी-762505 एल) 07 अप्रैल 2008/ 01 मार्च 2008\*

हवलदार से नायब सुबेदार टेक लाईन के रैंक में

ए मुरलीधरन (14616087 के अब जेसी-762304 एम) 17 अप्रैल 2008/ 01 मार्च 2008\*

अभय शंकर मिश्रा (14618025 एल अब जेसी-762332 वाई) 01 मई 2008/ 01 अप्रैल 2008\*

अमरजीत सिंह (14617516 एम अब जेसी-762306 एक्स) 08 अप्रैल 2008/ 01 मार्च 2008\*

अरिखलागन ओ (14615725 एल अब जेसी-762323 एक्स) 01 मई 2008/ 01 मई 2008\*

हवलदार से नायब सुबेदार टेक लाईन के रैंक में लगातार

अर्जुन प्रसाद (14617613 के अब जेसी -762329) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

अशोक कुमार त्रिपाठी (14617606 एल अब जेसी -762327 एन) 10 मई 2008, 01 मई 2008\*

शैलू सिंह राठौर (14620731 एच अब जेसी -762342 एच) 10 मई 2008, 01 मई 2008\*

चवनहेमन्त कुमार वाई (14618695 के अब जेसी -762313 एन) 13 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

देवेन्द्र सिंह (14617519 ए अब जेसी -762307 ए) 10 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

धनन्जय कुमार उपाध्याय (14618849 एल अब जेसी -762317) 04 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

दिग्विजय (14618007 ए अब जेसी -762309 एल) 11 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

करान्दे सुरेश दत्तात्रया (14617558 वाई अब जेसी -762326), 08 मई 2008, 01 मई 2008\*

कर्मवीर यादव (146120693 एक्स अब जेसी -762322 पी) 04 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

महेन्द्र सिंह (14618830 एम अब जेसी -762315 वाई), 03 अप्रैल 2008/ 10 मार्च 2008\*

माने हनुमंत दादा (14619050 एन अब जेसी -762339 एच) 10 मई 2008, 01 मई 2008\*

एन अशोकन (14620496 पी अब जेसी -762321 एम) 19 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

आम प्रकाश सिंह चौहान (14617622 एल अय जेसी -762331डब्ल्यू) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

पी सुंझ (14616152 आई अय जेसी -762305ए) 11 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

पारिल किशोर अमरगुहेव (14618150 एम अय जेसी -762310ए) 16 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

प्राणकृष्ण सक्सेरा (14618198 एडवजेसी -762312एल) 09 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

हवलदार से नायक मुखेदार टैक लाइन के रैंक में हस्तांतर

राज किशोर मिश्रा (14617630 ए अय जेसी -762328एडवजे) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

राजीव आर गाय (14618578 आई अय जेसी -762335एडवजे) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

रामचन्द्रन के (14618840 डब्ल्यू अय जेसी -762316एल) 09 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

रामकृष्ण राय केरगाम (14619336 एच अय जेसी -762319ए) 07 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

राणा सन्त कुमार सिंह (14620715 एल अय जेसी -762334ए) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

सैलीम समन्ता (14616380 एक्स अय जेसी -762303के) 21 अप्रैल 2008, 01 अक्टूबर 2007\*

सन्वय कुमार (14618842 एल अय जेसी -762337एडवजे) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

सन्वय कुमार (14619019 पी अय जेसी -7623378ए) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

संतोष कुमार त्रि (14618101 डब्ल्यू अय जेसी -762310एडवजे) 05 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

सरत चंद नरहन्ता (14619051 डब्ल्यू अय जेसी -762310एक्स) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

शिवसांकर सिंह यादव (14617612 एल अय जेसी -762308एच) 16 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

स्मिक्लिन डी एस (14618797 एल अय जेसी -762324डब्ल्यू) 17 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

सुजता दास (14617621 एच अय जेसी -762330एल) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

तुम्पला श्री के एस दिवांग कुमार (14616063 ए अय जेसी -762324ए) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

उद्यम सिंह (14618718 एल अय जेसी -762336पी) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

वी एम प्रमोद कुमार (14618573 ए अय जेसी -762324के) 01 मई 2008, 01 मई 2008\*

वेद प्रकाश (14620417 पीअयजेसी -762329के) 08 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

राजेश कुमार (14618848 पी अय जेसी -762318एम) 07 अप्रैल 2008, 01 मार्च 2008\*

हवलदार से नायक मुखेदार टैक आर ओ के रैंक में

वीरले सुनील रामचंद्र (14618477 एल अय जेसी -762293एल) 31 मार्च 2008, 10 फरवरी 2008\*

एम नारा सिन्धुलु (14616415 एम अय जेसी -762292एच) 24 मार्च 2008, 10 फरवरी 2008\*

वी मनो वन्तन (14616966 एक्स अय जेसी -762291ए) 25 अप्रैल 2008, 01 दिसम्बर 2007\*

\* पिछले तारीख से वन्तला दी जाती है।

हवलदार से नायक मुखेदार टैक जी सी ई के रैंक में

चन्द किशोर साहु (14618301 पी अय जेसी -761921ए) 01 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

इश्वर सिंह (1461577 एम अय जेसी -761915पी) 19 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

जगजीत सिंह (14617004 ए अय जेसी -761917) 11 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

जानकी प्रसाद दुबे (14599368 ए अय जेसी -761914एम) 17 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

जयचन्दर सिंह (14617257 पी अय जेसी -761919एल) 09 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

जोषी जॉन (14617316 एल अय जेसी -761913के) 10 जनवरी 2008, 01 अक्टूबर 2007\*

कृष्ण कुमार पाण्डे (14615819 एल अय जेसी -761916एक्स) 12 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

मनोज कुमार वर्मा (14615742 डब्ल्यू अय जेसी -761923 एल) 24 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

मुरली धरत कुलकर्णी (14617050 पी अय जेसी -761918) 14 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

पदमा नाभा भान्डा (14618381 एच अय जेसी -761922एल) 10 जनवरी 2008, 01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायक मुखेदार टैक जी सी ई के रैंक में हस्तांतर

आर विजयवेल (14617281 एल अय जेसी -761920ए) 21 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

उत्तम कुमार घोष (14618701 एम अय जेसी -761924डब्ल्यू) 15 जनवरी 2008, 01 जनवरी 2008\*

हवलदार से नायक मुखेदार टैक गल के रैंक में

अन्यप्पा बी एन (14618005 एल अय जेसी -761904एच) 29 जनवरी 2008, 01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार (जी डी) रामनाथ माहोर (सं. 1569435एम अब जे सी-350851एफ), 13 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) मोहिंदर सिंह (सं. 1570097एम अब जे सी-350855एक्स), 08 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) पोल शिवाजी अक्रम (सं. 1572411एन अब जे सी-350856ए), 05 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) सुखविंदर सिंह (सं. 1571392एफ अब जे सी-350857एच), 08 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) सिरपौर सिंह (सं. 1571456एफ अब जे सी-350858एल), 21 मई 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) अमरजीत सिंह (सं. 1568464पी अब जे सी-350865एफ), 05 जून 2008

हवलदार (जी डी) गणपत प्रभात मोरे (सं. 1567511वी अब जे सी-350866के), 04 जून 2008

हवलदार (जी डी) जगतार सिंह (सं. 1569795 एच अब जे सी-350867एम), 04 जून 2008

हवलदार (जी डी) अनंत बहादुर सिंह (सं. 1571050 एन अब जे सी-350868पी), 04 जून 2008

हवलदार (जी डी) मोहम्मद झफर (सं. 1570624 एक्स अब जे सी-350870), 01 जून 2008

हवलदार (जी डी) मुबारक अनसारी (सं. 1571026 एक्स अब जे सी-350871एम), 03 जून 2008

हवलदार (जी डी) हंसा सिंह (सं. 1571431वी अब जे सी-350871 पी), 04 जून 2008

हवलदार (जी डी) मनजीत सिंह (सं. 1571544एक्स अब जे सी-350872एक्स), 14 जून 2008

हवलदार (जी डी) शिंगारे सुरेश दामोदर राव (सं. 1571549डब्ल्यू अब जे सी-350873ए), 03 जून 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) पाटील चंद्रकांत मारुती (सं. 1571816एम अब जे सी-350877डब्ल्यू), 03 जून 2008

हवलदार (जी डी) पाटील गणपती विठल (सं. 1571886एल अब जे सी-350878वाई), 02 जून 2008

हवलदार (जी डी) श्री चंद यादव (सं. 1571999एन अब जे सी-350879एफ), 09 जून 2008

हवलदार (जी डी) नईगडे सुरेश बाजीराव (सं. 1571962एम अब जे सी-350880डब्ल्यू), 05 जून 2008

हवलदार (जी डी) मेहर दीन (सं. 1572049एल अब जे सी-350881वाई), 09 जून 2008

हवलदार (जी डी) डैनियर (सं. 1572076पी अब जे सी-350882एफ), 10 जून 2008

हवलदार (जी डी) दया शंकर राम (सं. 1567626एच अब जे सी-350883के), 04 जून 2008

हवलदार (जी डी) श्री भगवान दीन शर्मा (सं. 1569157के अब जे सी-350884एम), 14 जून 2008

हवलदार (जी डी) अतमजीत सिंह (सं. 1570257एफ अब जे सी-350885पी), 04 जून 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) महादेव कृष्णा चव्हाण (सं. 1568141एम अब जे सी-350782डब्ल्यू), 22 मार्च 2008

हवलदार (जी डी) परते प्रकाश सहदेव (सं. 1570272डब्ल्यू अब जे सी-350783वाई), 25 मार्च 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) गरूड शिवाजी विष्णु (सं. 1585784ए अब जे सी-350784एफ), 17 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) मोरे कैलास वामन (सं. 1570763एम अब जे सी-350785के), 28 फरवरी 2008

हवलदार (जी डी) विरेंद्र सिंह (सं. 1571744 एन अब जे सी-350786एम), 28 फरवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) सतनाम सिंह (सं. 1567216 एम अब जे सी-350797वाई) 21 मार्च 2008

हवलदार (जी डी) विजय सोताराम चव्हाण (सं. 1568809एल अब जे सी-350798एफ), 27 मार्च 2008

हवलदार (जी डी) पाटील श्रीकांत शिवाजी (सं. 1570237एन अब जे सी-350799के), 15 अप्रैल 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) राज कुमार (सं. 1569388ए अब जे सी-350806पी), 30 मार्च 2008

हवलदार (जी डी) धर्म सिंह (सं. 1569862एच अब जे सी-350807एक्स), 01 अप्रैल 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव वाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

हवलदार (जी सी) विरोद्र प्रसाद (सं. 1570173एम अथ जे सी-350813एल), 07 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) जगदेव सिंह (सं. 1570344 सी अथ जे सी-350814एन), 12 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) मोतो लाल सहा (सं. 1570402एम अथ जे सी-350815 डब्ल्यू), 12 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) मोहम्मद हुवीव (सं. 1570609एम अथ जे सी-350816वाई), 07 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) कोवल सिंह (सं. 1570777एम अथ जे सी-350817एफ), 07 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) हनीफ मोहम्मद (सं. 157078एम अथ जे सी-350818के), 08 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) मलामतउल्ला (सं. 1570807आर अथ जे सी-350819), 07 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) गलती लालुगल सोपानराव (सं. 157085एम अथ जे सी-350820एफ), 09 अप्रैल 2008

(नायब सुबेदार के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्योद्धा 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार (जी डी) कृष्णदीप सिंह (सं. 1571048डब्ल्यू अथ जे सी 350821के), 07 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) साहिब सिंह (सं. 1571198एम अथ जे सी 350822एम), 07 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) नृदेव सिंह (सं. 1571785 एक्स अथ जे सी 350823पी), 09 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) सखरन सिंह (सं. 1570049एम अथ जे सी 350824एक्स), 26 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) जदम कुमार नापदेव (सं. 1571283एम अथ जे सी 350825ए), 03 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) आंगश कुमार (सं. 1572896एम अथ जे सी 350826एच), 09 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) अयुब खान (सं. 1571005एफ अथ जे सी 350827), 21 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) यलकार सिंह (सं. 1571251एम अथ जे सी 350828एन), 10 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) जितेंद्र कुमार (सं. 1571303एक्स अथ जे सी 350829डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2008

हवलदार (जी डी) लाला सिंह (सं. 1571315एफ अथ जे सी 350830एल), 26 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्योद्धा 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी

नायब सुबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) विनीत कुमार (सं. 1574330एम अथ जे सी 350781एन), 16 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्योद्धा 01 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) मनवीर सिंह (सं. 1577132एम अथ जे सी 350787पी), 18 मार्च 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) बंसीकर सुनील (सं. 1576113पी अथ जे सी 350788एक्स), 08 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) रणधीर सिंह (सं. 1579032ए अथ जे सी 350789ए), 07 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) महेफन जे (सं. 1579233वाई अथ जे सी 350790पी), 29 मार्च 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) राजेन्द्र कुमार चौहान (सं. 1579429एम अथ जे सी 350791एक्स), 21 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) जगेंद्र दीक्षित (सं. 1574010एक्स अथ जे सी 350792ए), 03 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) गिरीश कुमार (सं. 1575923एल अथ जे सी 350793एच), 09 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) सत्यवान सिंह (सं. 1578414एक्स अथ जे सी 350794एल), 21 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्योद्धा 26 जनवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) पृथ्वी अप्पासाहेब सत्यप्पा (सं. 1579417एक्स अथ जे सी 350795एन), 28 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) राजरेत्नम एस (सं. 1579760ए अथ जे सी 350796डब्ल्यू), 20 मार्च 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्योद्धा 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) देववीर सिंह (सं. 158012के अथ जे सी 350800एन), 22 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्योद्धा 23 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) जगेश कुमार चणवड़ा (सं. 1580124वाई अथ जे सी 350801डब्ल्यू), 15 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) समर मल यादव (सं. 1580216एल अथ जे सी 350802वाई), 22 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) विजय बहादुर पाल (सं. 1580219वाई अथ जे सी 350803एफ), 26 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) गजेश कुमार श्री (सं. 1580309ए अथ जे सी 350804के), 22 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) रमैंद कुमार सैनी (सं. 1580348वाई अथ जे सी 350805एम), 03 मई 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वृत्तन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्योद्धा 01 मार्च 2008 से दी जाएगी



हवलदार (क्लर्क जी डी) राठोड राजु सुर्यभान (सं० 1574388के अब जे सी 350809एम), 16 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) राम कल्याण शर्मा (सं० 1580470पी अब जे सी 350810एक्स), 25 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) शिव राज (सं० 1580479के अब जे सी 350811ए), 26 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) अवदेश कुमार (सं० 1580494वाई अब जे सी 350812एच), 22 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) रंजन बकुंडी (सं० 1580503पी अब जे सी 350831एन), 01 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) संजीव कुमार (सं० 1580522ए अब जे सी 350832डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) रमेश कुमार गुरुंग (सं० 1580562एफ अब जे सी 350833वाई), 01 मई 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) रणवीर सिंह (सं० 1571441वाई अब जे सी 350835के), 10 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) संतोष कुमार पाल (सं० 1571615एन अब जे सी 350836एम), 20 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) रमेश सिंह (सं० 1579444एफ अब जे सी 350837पी), 03 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) अनिल कुमार (सं० 1579452ए अब जे सी 350838एक्स), 25 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) अरविंद महतो (सं० 1578758डब्ल्यू अब जे सी 350839ए), 22 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) शिनालकर पांडुरंग धोंडोचा (सं० 1578940डब्ल्यू अब जे सी 350840पी), 16 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) काकडे रामचंद्र तुकाराम (सं० 1578941वाई अब जे सी 350841एक्स), 12 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) टी कल्याण कुमार (सं० 1579216वाई अब जे सी 350842ए), 30 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) विस्वनाथ प्रधान (सं० 1579788ए अब जे सी 350845एन), 29 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) अकोर गांधुजी प्रह्लादजी (सं० 1579422एच अब जे सी 350846डब्ल्यू), 30 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) माणिक देवनाथ (सं० 1579962एफ अब जे सी 350847वाई), 07 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) निरंजन दास (सं० 1579964एम अब जे सी 350848एफ), 19 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) राम सुमरिन पटेल (सं० 1580091वाई अब जे सी 350849के), 05 मई 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 फरवरी 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) नंद कुमार साहु (सं० 1580345एल अब जे सी 350850वाई), 30 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) जगदीश सिंह डाकर (सं० 1576305एम अब जे सी 350852के), 16 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) तारा दत्त पाठक (सं० 158760एन अब जे सी 350853एम), 12 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) सिवान पिल्ले एन (सं० 1579227एल अब जे सी 350854पी), 22 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) ब्रिजेन्द्र कुमार चौधरी (सं० 1580010एन अब जे सी 350859एन), 22 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) कृष्णा कुमार अमबाली (सं० 1580505ए अब जे सी 350860एच), 30 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) एस के माजाहरून हक (सं० 1580759एक्स अब जे सी 350861एल), 01 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) सुजता कुमार मैती (सं० 1580763ए अब जे सी 350862एन), 15 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) रविंद्र कुमार वतरो (सं० 1580798 डब्ल्यू अब जे सी 350863डब्ल्यू), 19 मई 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) बाबु राम (सं० 15808994एल अब जे सी 350864वाई), 01 मई 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी

हवलदार (क्लर्क जी डी) सतीश चंद्र गौर (सं० 1580970एम अब जे सी 350874एच), 03 जून 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) अनिल कुमार (सं० 1580971पी अब जे सी 350875एल), 18 जून 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) आनंद पाल सिंह (सं० 1580972एक्स अब जे सी 350876एन), 06 जून 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेंचन और भनों पर प्रभाव डालने विना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी

नायब सुबेदार (एस के टी) के रैंक में

इबलदार (एस के टी) लालु राम डाँकर (से-158664) ज्येष्ठता से 350808 रु., 07 अप्रैल 2008

\*नायब सुबेदार के रैंक में वेंचन और भनों पर प्रभाव डालने विना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाएगी।

अनका जोशो

अनका ज्येष्ठता

मंजु शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सें 526 सेवा शाखा दिनांक 14 अक्टूबर 08—राष्ट्रपति महोदय से से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को से से मु सिविल नियम 2001 के नियम 7 (8) के अन्तर्गत उनके नामों के आगे अङ्कित सहायक समयावधि तक अवका निम्नलिखित पदधारी मिलने तक अनुभाग अधिकारी के पद में नियुक्तन रु-62000-2000-10500 में नियमित करने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करने है:-

नाम	वर्ग क्रम	नियुक्ति का दिनांक	से	से
श्री सुनील कुमार शर्मा	10 दिनांक 1971	21 अप्रैल 2008	से	से 2008
श्री ओम प्रकाश शर्मा	10 दिनांक 1949	12 अक्टूबर 2008	से	से 2008

नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाय आधार पर है प्रशासनिक कार्यों में अथवा निर्वाचित पदधारी नियमों पर विना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

संसेन्सु सिविल सेवा नियम 7 (8) के अन्तर्गत पदोन्नति नियुक्ति के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा और न ही नियम 7 (8) अन्तर्गत आनयन अनुभाग अधिकारी के रूप में को से से सेवा को उन्नत गड में नियुक्ति के लिए माना जाएगा।

अनुभाग अधिकारियों के वांछितता या अनुमोदित

मंजुरी

से मुख्य प्रशा अधिकारी

संख्या 527 सेवा दिनांक 15 अक्टूबर 08—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित मूल पदोन्नति करने है:-

भारतीय वायु सेना

विंग कमांडर से मुख्य कौपटन (टाइम स्कूल) के मूल रैंक में संचारिकों शाखा

एस के कार्पाथी (145563) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

विंग कमांडर (टाइम स्कूल) से विंग कमांडर के मूल रैंक में संचारिकों शाखा

पी के चंडोल (174977), ए एस शर्मा (175003) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

स्कवाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में ए इ एल शाखा

जे चटर्जी (190153), आर एस कुमार (190377), एस के पाठमिथ (190588), डी भन (191100), एस कुमार (190660), वी फिलिप (19029), एल वा एस रमेश (19626), जी रवि (19629), एस त्यागाराजन (19630), ए वी दानो (19641), यु के गौरी (19682), एस शर्मा (19736), एन एस मनीषा (20039), ए के बी (20042), पी के राखत (20565), पी के समन्ता (20809), एस राखत (20266), ए पी कंचन (20304), डी मन्नुसा (20246), एन बी (20293), पी कुमार (20696), के नन्दा (20703), वी सेन (20861), डी शर्मा (20826), जे वी सुनील कुमार (20838), आर के दया (20817), वी सी नन्द (20845), ए एस के नायडू (20869), जे सिंह (20829), आर श्रीवास्तव (21112), डी एल गवन्कर (21425), एस दयाल (21401), एन भरत (22029), एस शर्मा (22041), एस राजगोपाल (22030), डी एस सी एन एल को प्रसन्न (22055), एस प्रभाकर (22064), आर रवि कुमार (22058), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

जे ए मलिक (22402) 04 अप्रैल 2005 से प्रभावी।

ए इ एस शाखा

पी एस मर्तन (19073), एस वी पेंडशवनकर (19113), एस जैन (19078), एस जी पुरमेश्वर (19115), एस अखतर (19083), ए अरीफ (19077), चार्ल्स एन (19413), आर यशदुर (19423), एस कुमार (19712), ए गौतम (19702), पी ए सी (19608), के रमाकृष्ण (19725), एस प्रभु (20125), एस देवकीकृति (20363), एस एस मशिरकर (20179), एन वी जय नर (20365), वी एस भट्टा (20374), पी एस नरम (20652), वी गौतम (20699), डी पी जोसेफ (20660), एस नाथ (20893), ए कुमार (21197), आर आर पन्त (21085), वी दिवाकर (21083), वी के शर्मा (21478) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी। राजेन्द्र सिंह (21670) 01 फरवरी 2005 से प्रभावी।

इंडियन (पायलट) शाखा

ए वी एस चौधरी (21119), एस राय (22119), 19 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

पी सी शर्मा (21696) 01 फरवरी 2005 से प्रभावी।

आर एस तिवारी (17853), एल पण्ड (19933), एस महापात्रा (17499), वी के चौधरी (19259), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

संचारिकों शाखा

ए कुमार (22231) 19 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

एस सुदेशन (20095), आर दूग्या मोहन (20219), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्कवाड्रन लीडर के मूल रैंक में इंडियन (पायलट) शाखा

ए त्रिपाठी (23637) 01 जून 2005

पी ए अर्य (23779), जे ए वन्दन (23191), एस सिंह (23184), आर सी नायर (23189), पी पित्तल (23166), वी हिन्दवान (23167),

ए एस पन्नु (23178), ए पैव (23516), ए पी सिंह (23172), टी एच ए शोख (23527), जी विनोद (23722), एन वेल्ले (23193), आर ठाकुर (23177), एम राय (23181), आर त्यागी (23194), एस यादव (23169), के जे सिंह (23175), एस सेठ (23196), ए के चौधरी (23214), आर मिश्रा (23199), एस मल्लोत्रा (23212), ए एम खेदिकर (23218), डी सिंह (23163), ए दत्ता (24016) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### उड़ान (नवीगेटर) शाखा

जे वर्गस (23223), एस सेठी (23232), डी कुमार (23225), एस कुमार (23577), पी एस आर कृष्णा (23235), ए एस के शर्मा (23233), पी त्रिपाठी (23231), जे पी यादव (23221), आर एस कटोच (23234), आई मलिक (23222), वी आर मनोहर (23228), एस के महापात्रा (23227), डी के लाप्पा (23224) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### प्रशासनिक शाखा

ए सी पैथू (22893), जी एस रैर (22895), आर सिंह (22897), ए एस रेड्डी (23242), जे एस सूडान (23247), एच ए एस जोसेफ (23245), एस एम मनोहरन (23250), डी धर (23302), ए सक्सेना (23244) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### संभारिकी शाखा

डी चक्रवर्ती (24005), एम गुप्ता (23265), एस शर्मा (23263) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### लेखा शाखा

वाई एस गौर (23276), एस के घोष (23277), ए दूबे (23280) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### ए इ एम शाखा

एम वी श्रीधर (23864), जी एल नारोद (24372) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### ए इ एल शाखा

आर सिंह (24137), पी एस खूटेल (25771) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### उड़ान (पायलट) शाखा

(सुश्री) बिन्दू सेबसटियन (23283) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### प्रशासनिक शाखा

(श्रीमति) भमता त्रिपाठी (23291) (श्रीमति) मनिषा कृष्णात्री (23289) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### संभारिकी शाखा

#### लेखा शाखा

(श्रीमति) कल्पना चमोली (23294) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### लेखा शाखा

(सुश्री) रेखा अग्रवाल (23299) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### संभारिकी शाखा

पी प्रभाकर (23262) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

फ्लाईंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मूल रैंक में

#### प्रशासनिक शाखा

एम के सिंह (27244), एस चन्ना (27241), सी एम राव (27252) 21 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### संभारिकी शाखा

वी ठाकुर (27275) 21 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

एम यना (26776) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### शिक्षा शाखा

आर नेहरू (26798) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### लेखा शाखा

ओ एस राव (26603) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### अल्पकालीन सेवा कमीशन

#### संभारिकी शाखा

(सुश्री) मिनाक्षी ठाकुर (27291) 21 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

जे डी पी ओ.3 (ए)

#### सेना शाखा

सं० 528 दिनांक 15 अक्टूबर 08—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 10.01.2006 से सेना चिकित्सा/कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना आनुदेश 74/76 यथा संशोधन के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

#### कप्तान के पद पर

अर्जुन एम एन [एम एस 14621-के] [एम आर-08300-डब्ल्यू] ए एम सी 07-04-2003

[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15.04.2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।]

सं- दिनांक राष्ट्रपति विभागांकृत  
अधिकारियों की दिनांक 15-06-2006 से सेवा विविवेक। (अ) से  
अल्पकालीन सेवा कमिशन से मुक्ति होने की अनुमति प्रदान करने है। और  
अल सेना आनुदेश 74 76 थोड़ा संतोषन के अधीन उसी दिनांक से उन्हें  
स्थायी कमिशन प्रदान करने है।

नियमित सेवा

स्वार्थ कमिशन

सर्वोच्च न्यायालय के पद पर

के आर्थिक विनि [एम एम 14393-एन] [एम आर-08608-एच]  
[निवि-75796-एन] एम एम 18-02-2002 क्षेत्र और पदोन्नति के लिए  
वरिष्ठता 18-08-2001 से हो जाएगी। इसमें अस्वत्वात् निवृत्ति के लिए को  
गई 06 महीने की पूर्ववर्गता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के फंडर मिली  
जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। [भारत सरकार के राजपत्र  
के दिनांक 14 09 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के अधिगमन का  
संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जात है।]

जी रवीन्द्रनाथ

विने

उप महानिदेशक स से वि से (कार्मिक)

सेना शाखा

दिनांक 16 अक्टूबर 08

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं- 529--अभिवर्धित की आयु प्राप्त करने पर राष्ट्रपति मंत्रालय और  
विदेश विभाग, विदेश (भारत के राजपत्र) की 36 जून 2008 में जारी  
सेवा में सेवानिवृत्त करने है तथा उनका सम्पत्ति का इन्फॉर्म 2008 से पेंशन  
स्थापना की स्थानांतरित कर दिया गया है।

संकेत सिंह

नई दिल्ली दिनांक 16 अक्टूबर 08

सेना शाखा

स्वार्थ कमिशन (विशेष सूची)

शुद्धि पत्र

संख्या 530 - भारत के राजपत्र में रक्षा मंत्रालय की अधिमूचना संख्या  
617 दिनांक 04 दिसम्बर 2007 को 22 दिसम्बर 2007 प्रकाशित किया  
गया है के निम्नलिखित शीर्षक सेना के स्थायी आयोग (विशेष सूची)  
शुद्धि इस प्रकार की जाती है:

के स्थान पर

जेसी-1362077 के हस्ताक्षर गुजर अतुल नामदेव (एस एल 4923  
एच), इन्फैंट्री, आर ओ

पढ़ा जाए

1362077 के हस्ताक्षर गुजर अतुल नामदेव (एस एल 4923 एच),  
इन्फैंट्री, आर ओ

के स्थान पर

जेसी-4473885 पी हस्ताक्षर मनीषा चावला (एस एल 4928 एफ),  
इन्फैंट्री, आर ओ

पढ़ा जाए

4473885 पी हस्ताक्षर मनीषा चावला (एस एल 4928 एफ), इन्फैंट्री,  
आर ओ

नोदेश चौधरी

मंत्र एस एम 8 यी

MINISTRY OF DEFENCE  
INTEGRATED HQ OF MOD (ARMY)  
(MILITARY ENGINEER SERVICES)

New Delhi, the 1st November 2008

No 516 dated 6th October 2008—The President is pleased to appoint the following officers as the designation showed before their name from the date as mentioned against their name:—

MES No Name, Rank, Date

- 411088 J P Singh, ACE, 01 Apr 2008 (FN)  
181329 P C H Suryanarayana, EE, 10 Apr 2008  
419515 Krishan Gopal, EEE/M, 29 Feb 2008 (AN)  
439068 Pradeep Kumar, EE E/M, 15 Apr 2008 (FN)  
NYA Fakhruddin Ali Ahmad, AEE B/R, 21 Apr 2008 (FN)  
486820 Amit Anand Agrahari, AEE B/R, 24 Feb 2006 (FN)  
439181 Manish Kumar, AEE B/R, 14 Mar 2008  
486826 Ambrish Kumar Bajpai, AEE E/M, 19 Feb 2008 (FN)  
NYA Anuj Kumar Sinha, AEE B/R, 04 Mar 2008 (FN)  
186244 Rajendra Kumar Sharma, AEE E/M, 20 Feb 2008 (FN)  
186245 Mahesh Chandra Meena, AEE B/R, 28 Feb 2008 (FN)  
186246 Veer Singh Yadav, AEE B/R, 01 Mar 2008 (FN)  
186247 Anand Singh Chauhan, AEE, B/R, 08 Mar 2008 (FN)  
186248 Miss Archana Meena, AEE, B/R, 19 Mar 2008 (FN)  
NYA Narendra Kumar, AEE E/M, 03 Mar 2008 (FN)  
486827 Sudheer Kumar Srivastava, AEE E/M, 07 Mar 2008 (FN)  
486828 Chhotenarayan Dwivedi, AEE B/R, 26 Jun 2008 (FN)  
506469 Sat Paul, AE B/R, 11 Mar 2005 (FN)  
181396 V Chandrasekaran, AE E/M, 18 Feb 2008 (FN)  
114060 K Shreekumaran Thampi, AE E/M, 05 Feb 2008 (FN)  
313111 Vajinder Singh, AE E/M, 14 Feb 2008 (FN)  
461576 Satish Chandra Gupta, AE E/M, 25 Feb 2008 (FN)  
312867 Suresh Kumar Sharma, AE A/M, 25 Jan 2008  
154215 P S S Sastry, AE E/M, 11 Feb 2008 (FN)  
502846 Kamal Jeet Singh Nagi, AE E/M, 28 Jan 2008 (FN)  
312792 Bhagwan Singh, AE E/M, 21 Feb 2008 (AN)  
203065 Swapan Kumar Majumdar, AE E/M, 13 Feb 2008 (FN)  
505301 Bal Krishan Sharma, AE E/M, 25 Jan 2008 (FN)  
EX JC-197239 Gurdip Singh, AE E/M, 28 Jan 2008 (FN)  
124004 Madathumgal Joseph Verky, AE E/M, 29 Jan 2008 (FN)

EX JC-65798AD K Narendra Babu, AE E/M, 25 Feb 2008 (FN)

- 147031 P Ramani, AE E/M, 18 Feb 2008 (FN)  
601078 G Venkata Rao, AE E/M, 18 Feb 2008 (FN)  
454976 Suresh Chandra Tiwari, AE E/M, 24 Jan 2008 (FN)  
146965 Mukarla Sambasiva Rao, SAO, 31 Jul 2007 (FN)  
502599 Yogendra Kumar Sharma, SAO, 30 Jul 2007 (FN)  
169510 Damoder Prasad, TO, 12 Nov 2007 (FN)  
168601 Abhay Kumar Sharma, TO, 17 Oct 2007 (FN)  
190653 Shobha Balachandran, TO, 18 Jan 2008 (FN)  
192325 Ashok Kumar Sharma, TO, 12 Oct 2007 (FN)  
186104 Govind Prasad Sharma, TO, 12 Oct 2007 (FN)  
167696 Ram Kumar Sharma, TO, 12 Oct 2007 (FN)  
167482 Laxman Singh, TO, 17 Oct 2007 (FN)  
192326 Anil Kumar Sharma, TO, 22 Oct 2007  
186103 Suresh Chand Gupta, TO, 28 Dec 2007 (FN)  
167978 Kailash Chandra Gupta, TO, 28 Dec 2007 (FN)  
419701 Suresh Dattatraya Deshpande, To, 22 Nov 2007 (FN)  
188801 Pradeep B Savagave, TO, 09 Sep 2003  
191996 Prem Singh Tanwar, TO, 28 Jan 2008 (FN)  
169092 Chiman Kumar Chanchlani, TO, 28 Feb 2008 (FN)  
183322 Kurella Usha, TO, 21 Nov 2007 (FN)  
314458 Kamlesh Dev, TO, 29 Apr 2005 (FN)  
192755 C S Khan, AO-II, 25 Jul 2007 (FN)  
311071 Smt Charanjit Kaur, AO-II, 26 Jun 2008 (FN)  
439524 Sosamma Joseph, AO-II, 05 Jul 2008 (FN)  
315467 Jatinder Kumar, AE (civ), 25 Nov 2006 (FN)

ALKA JOSHI  
Under Secy

ARMY BRANCH

MUKHYA PRASHASANADIIKARI KA KARYALAYA

No 517 Dated 6th October 2008—The President is pleased to extend the appointment of Shri N K Vasisht, Principal Private Secretary of AFHQ Stenographic Service as Principal Private Secretary (Group 'A' Gazetted) under AFHQ Stenographer Service Rules with effect from 01 Jul 2008 to 31 Dec 2008 or till regular incumbents become available whichever is earlier.

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH  
Deputy Chief Administrative Officer

## ARMY BRANCH

No. 518 dated 7th November 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## (ARMY MEDICAL CORPS)

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

DS Pathan (MR-03927-M), 19 March 2008

Lt Col (& equivalent) to be Col (Selection)

RM Gupta (MR-04899-X) 30-05-08 with national seniority without effect on pay & pension from 01-02-07

MAJ GEN

Adtl Dir AF MS(P)

## (ARMY BRANCH)

No. 519 Dated 7th October 2008—The President is pleased to make the following promotions:

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (by time scale)

Lt Col Ns Subhana (lc-37629b) Aoe, 30 Apr 2008

Lt Col Ar Rane (lc-37873b) Engrs, 27 Apr 2008

Lt Col Hardeep Sharma (lc-37881f) Mech Inf, 27 Apr 2008

Lt Col Pd Kumar (lc-37887f) A&A, 27 Apr 2008

Lt Col K. Raja Vikaraman (lc-37899x) Sigs, 27 Apr 2008

Lt Col Muranna Ravi (lc-37900f) Inf, 27 Apr 2008

Lt Col Rs Dana (lc-37901k) Arty, 27 Apr 2008

Lt Col Ashok Kumar (lc-37905a) Aoe, 27 Apr 2008

Lt Col Ss Kushwaha (lc-37910f) Inf, 27 Apr 2008

Lt Col Ms Chhikara (lc-37920p) Inf, 27 Apr 2008

Lt Col Manjeet Singh (lc-37991k) Ac, 27 Apr 2008

Lt Col Shikher Mehra (lc038234f) Engrs, 16 Dec 2007

Lt Col Nr Naik (lc-39265A) Arty, 13 Dec 2006

Lt Col Py Yadav (lc-39529w) Inf, 13 Jun 2007

Lt Col Arvind Kant (lc-39925f) Inf, 19 Dec 2007

Lt Col Rajesh Sharma (lc-40026x) Inf, 19 Dec 2007

Lt Col Arun Kariothla (lc-40209a) Inf, 19 Dec 2007

Lt Col Sund Richard (lc-40256f) A&A, 19 Dec 2007

ADJY COL

By Dir

AFS & A

## ARMY BRANCH

No. 520 dated 8 October 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

IC NO Name Arm

62017 Navin Kumar, Inf

62234 Nishith Sharma, Aoe

62311 Lakshman Ne, Inf

62357 Vikram Sengul, Inf

—08 Jun 2008

64280 Paokholan Khongsai, EME

64300 Paranjit Singh, Arty

64386 Dhapade Bhupendra Chandrakishor Engrs

12 Jun 2008

JASWANT SINGH

Jr Dir

MS-8C

## ARMY BRANCH

No. 521 dated 8th October 2008—The President is pleased to make the promotion of the under mention AMC officer with effect from the date mentioned against him:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Surg Cdr

K Ananth Kji (MS-14395M) (MR-08616H) (Navy-75796N)

18 Aug 2005

(MoD notification published in the Gazette of India dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Capt

Capt Ramesh Dubey (MR-08547-X) 06 Feb 2008

Capt Ankur Kumar (MR-08552-H) 06 Feb 2008

Capt Vipin Rana (MR-08562-M) 14 Feb 2008

Amit Kumar (MR-08544-K) 06 Feb 2008

Gaurav Pandey (MR-08576-M) 06 Feb 2008

Manoj Aggarwal (MR-08578-X) 06 Feb 2008

Gurpreet Singh (MR-08579-A) 06 Feb 2008

Nayan Kumar Sharma (MR-08581-X) 06 Feb 2008

To be Surg Lt

Surg Lt Anoop Sharma (MR-08539-Y) Navy-75949-K  
06 Feb 2008

Surg Lt Parnika Chandola MR-08339-H, Navy-75918-W  
20 Feb 2007

G RAVINDRANATH  
Brig  
Dy DGAFMS (Prs)

#### ARMY BRANCH

No 522 dated 10th October 2008—The President is pleased to make the following promotion:—

#### REGULAR ARMY

#### CORPS OF MILITARY POLICE

To be Subedar Major (MP)

Sub Harpal Singh (JC-818561 Y) 1st Feb 2008

Sub PII Basna Singha (JC-818617A) 1st Feb 2008

Sub Dharampal Singh (JC-818619 L) 1st Feb 2008

Sub Jagat Ram (JC-818511 N) 1st May 2007

Sub Shishupal Singh (JC-818513 Y) 1st Jul 2007

Sub K. Gopal (JC-818517 P) 1st Aug 2007

Sub Kisana Ram Ramawat (JC-818522 A) 6th Sep 2007\*

Sub Rajendra Singh (JC-818671 N) 1st Sep 2007

Sub Patil Manik Rao Bhima Rao (JC-818622 L) 1st Nov 2007

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 1st Sep 2007 without effect on pay and allowances)

To be Subedar Major (Cik)

Sub Chandran TV (JC-818219 Y) 1st Aug 2007

Sub Joshi Vasant Kumar Ram Shanker (JC-818397 F)  
1st Sep 2007

Nb Sub Kamlesh Yadav (JC-818935K), 1st Jan 2008

Nb Sub Om Pal (JC-818936M), 1st Jan 2008

Nb Sub Radhey Shayam (JC-818937P), 1st Jan 2008

Nb Sub Siba Prasad Ray (JC-818941X), 1st Jan 2008

Nb Sub Umesh Chandra (JC-818942A) 1st Jan 2008

Nb Sub Jagpal Singh (JC-818943H), 1st Jan 2008

Nb Sub M. Murugesan (JC-818944L), 1st Jan 2008

Nb Sub Badri Narayan Jha (JC-818945N), 1st Jan 2008

Nb Sub Rajindra Singh (JC-818946W), 1st Jan 2008

Nb Sub Sant Ram Singh Kushwaha (JC-818947Y), 1st Jan 2008

Nb Sub Braham Pal Sharma (JC-818948F), 1st Feb 2008

Nb Sub Anu Ram Das (JC-818949K), 1st Feb 2008

Nb Sub Vadala Siddiah (JC-818950Y), 1st Feb 2008

Nb Sub Kiran Kumar Rahi (JC-818951F), 1st Feb 2008

Nb Sub Dhooora Ram (JC-818960H), 1st Feb 2008

Nb Sub Arjun Singh K. (JC-818962N), 26th Feb 2008\*

Nb Sub Jagdish Chander (JC-818963W), 1st Feb 2008

Nb Sub Krishna Moorthy P (JC-818965F), 1st Feb 2008

Nb Sub Ekadashi Prasad (JC-818966K), 1st Feb 2008

Nb Sub Md Shawkat Khan (JC-818967M), 1st Feb 2008

Nb Sub Ashim Majumdar (JC-818968P), 1st Feb 2008

Nb Sub Beera Ratna Raju (JC-818969X), 1st Feb 2008

Nb Sub Khitish Chandra Das (JC-818971P), 1st Feb 2008

Nb Sub Bhartendu Mishra (JC-818972X), 1st Feb 2008

Nb Sub Amrendra Mishra (JC-818973A), 1st Feb 2008q

Nb Sub Nar Singh Pal (JC-818974H), 1st Feb 2008

Nb Sub Raju G (JC-818975L), 1st May 2008

Nb Sub Vijay Kumar Dubey (JC-818978Y), 5th Feb 2008\*

Nb Sub Lakheshwar Dutta (JC-818979F), 17th Feb 2008\*

Nb Sub Skaria MK (JC-818981Y), 1st Mar 2008

Nb Sub Godhan Singh Bisht (JC-818982F), 1st Mar 2008

Nb Sub Barun Kumar (JC-818983K), 1st Mar 2008

Nb Sub Nandha Ballabh (JC-818984M), 3rd Mar 2008@

Nb Sub Ganga Ram (JC-818985P), 1st Mar 2008

Nb Sub T Basanto Singh (JC-818986X), 1st Mar 2008

Nb Sub Murari Singh Tanwar (JC-818987A), 1st Mar 2008

Nb Sub Ramprit Singh (JC-818988H), 3rd Mar 2008@

Nb Sub Pura Mal Saini (JC-818989L), 1st Mar 2008

Nb Sub Samala Dasu (JC-818990A), 9th Mar 2008

Nb Sub Ram singh (JC-818991H), 11th Mar 2008 @

Nb Sub Ashok Singh (JC-818992L), 1st Mar 2008

Nb Sub Torash Kumar (JC-818993N), 1st Mar 2008

Nb Sub Malleshappa (JC-818994W), 1st Mar 2008

Nb Sub Jasmeel Singh (JC-818995Y), 10th Mar 2008@

Nb Sub Virender Kumar Thakur (JC-818997K), 1st Apr 2008

Nb Sub Yashwant Singh (JC-818998M), 19th June 2008†

Nb Sub Binit Kumar (JC-818999P), 1st Apr 2008

Nb Sub Sunil Kumar Choubey (JC-819000W), 1st Apr 2008

Nb Sub Om Prakash (JC-819001Y), 1st Apr 2008	Nb Sub Rajvir Singh (JC-818900N), 1st Apr 2007
Nb Sub Ram Ashar Singh (JC-819002F), 1st Apr 2008	Nb Sub Rajendra Kumar (JC-818901W), 2nd Apr 2007*
Nb Sub Mungu Singh Bharti (JC-819005K), 1st Apr 2008	Nb Sub Babu Lal (JC-818902Y), 4th Apr 2007*
Nb Sub Sree Kumar PD (JC-819004M), 1st Apr 2008	Nb Sub Uday Sankar Majumdar (JC-818903F), 1st May 2007
Nb Sub Mohan Babu (JC-819005P), 1st May 2008	Nb Sub Gopal Chandra Sharma (JC-81904K), 1st May 2007
Nb Sub Kanchan Singh (JC-819007A), 1st May 2008	Nb Sub Badwinder Singh (JC-819046Y), 1st July 2007 <sup>a</sup>
Nb Sub Badri Nath (JC-81009L), 1st May 2008	Nb Sub Padmanabhan K (JC-8189017K), 1st July 2007
Nb Sub Bijender Singh (JC-819010A), 1st May 2008	Nb Sub Shish Ram Daria (JC-818905M), 1st Aug 2007 <sup>a</sup>
Nb Sub Nitaram Singh (JC-819011F), 1st May 2008	Nb Sub Shiv Sagar Pandey (JC-818906P), 1st Aug 2007
Nb Sub Laxman Oraon (JC-819012L), 15th May 2008	Nb Sub Sardar Singh (JC-818907X), 1st Aug 2007
Nb Sub Inaganu Nageswara Rao (JC-819013N), 1st May 2008	Nb Sub Baban Prasad (JC-818908A), 1st Aug 2007
Nb Sub P Raja Kumar (JC-81014W), 1st May 2008	Nb Sub Rushar Kanti Kundu (JC-818909H), 1st Sep 2007S
Nb Sub Raghubir Ch (JC-819015Y), 1st May 2008	Nb Sub Shiva Nand Kushwaha (JC-818910X), 1st Sep 2007
Nb Sub Ram Bhados Gaur (JC-819019P), 1st May 2008	Nb Sub S James Remy Jeyu (JC-818911A), 1st Sep 2007
Nb Sub Prasad Kumar Barman (JC-8190121M), 1st May 2008	Nb Sub Ardbendu Chowdhury (JC-818912H), 8th Sep 2007 <sup>b</sup>
Nb Sub Parshu Ram (JC-819024A), 1st May 2008	Nb Sub Ram Pal Singh (JC-818913L), 1st Oct 2007
Nb Sub Rajesh Chandra (JC-819025H), 5th July 2008 <sup>a</sup>	Nb Sub Kailash Chandra Meena (JC-818914N), 1st Oct 2007
Nb Sub Rameshwar Pradhan (JC-819026L), 25th June 2008 <sup>a</sup>	Nb Sub Maha Singh (JC-818915W), 1st Oct 2007
Nb Sub Udam Kumar Pal (JC-819029Y), 9th June 2008 <sup>a</sup>	Nb Sub R Radha Krishnan (JC-818916Y), 1st Oct 2007
Nb Sub Nara Gopal Biswas (JC-819030N), 4th June 2008 <sup>a</sup>	Nb Sub Bal Ram Prad (JC-818918K), 1st Nov 2007
Nb Sub Jaleb Ali (JC-819032Y), 23rd June 2008 <sup>a</sup>	Nb Sub Surendra Rai (JC-818919M), 1st Nov 2007
Nb Sub Dastagir Khan (JC-819033F), 26th June 2008 <sup>a</sup>	Nb Sub Brij Bihari Prasad (JC-818920F), 1 Nov 2007
Nb Sub Achappa AA (JC-819034K), 23rd June 2008 <sup>a</sup>	Nb Sub Dhruvdeo Singh (JC-818921K), 1st Nov 2007
Nb Sub Shyam Singh (JC-819035M), 1st July 2008 <sup>a</sup>	Nb Sub Tej Bali Singh (JC-818922M), 1st Nov 2007
Nb Sub Ved Prakash Yadav (JC-818743M), 1st Mar 2008	Nb Sub Manoj Kumar Nanda (JC-818925A), 1st Nov 2007
Nb Sub Ram Pratap (JC-818744P), 1st Mar 2008	Nb Sub S Thirunavukarasu (JC-818926H), 1st Nov 2007
Nb Sub Ramachandran KP (JC-818780A), 1st Mar 2008	Nb Sub Panner N. Ram M (JC-818927L), 1st Dec 2007
Nb Sub Purna Chandra Pati (JC-818800H), 1st May 2008	Nb Sub Ganadhar Mahata (JC-818928N), 1st Dec 2007
Nb Sub Kamal Hero (JC-818895N), 4th Apr 2007*	Nb Sub Hari Dasan M (JC-818929W), 1st Dec 2007
Nb Sub C Siva Raju (JC-818896W), 1st Apr 2007	Nb Sub Pijosh Goswami (JC-818930L), 1st Dec 2007
Nb Sub Surendra Nath Pandey (JC-818898I), 1st Apr 2007	Nb Sub Harinder Kumar (JC-818931N), 1st Dec 2007
Nb Sub Bharen Chandra Sinha (JC-818899K), 2nd Apr 2007*	Nb Sub Kartar Singh (JC-818958L), 1st Dec 2007

\* (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st Feb 2008 without effect on pay and allowances)

<sup>a</sup> (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st Mar 2008 without effect on pay and allowances)

<sup>b</sup> (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st Apr 2008 without effect on pay and allowances)

<sup>S</sup> (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st May 2008 without effect on pay and allowances)

<sup>a</sup> (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st June 2008 without effect on pay and allowances)



Nb Sub Raja Sekaran Nair P (JC-818933Y), 1st Dec 2007

Nb Sub Shyam Bihari Singh (JC-818934F), 1st Dec 2007

\* (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st Apr 2007 without effect on pay and allowances).

@ (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st May 2006 without effect on pay and allowances).

# (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st July 2007 without effect on pay and allowances).

\$ (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st Aug 2007 without effect on pay and allowances).

% (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 1st Sep 2007 without effect on pay and allowances).

#### To be Subedar (Clk)

Nb Sub Hari Chand (JC-818702H), 1st Apr 2007

Nb Sub Naresh Kumar (JC-818703L), 1st Aug 2007

Nb Sub Sunil Kumar (JC-818707E), 1st Sep 2007

Nb Sub Panna Lal Nayek (JC-818726M), 1st Dec 2007

#### To be Naib Subedar

Hav Dhiri Singh (7774256L now JC-819209F), 17th Apr 2007\*

Hav Ram Awadhesh Singh (7774277F now JC-819210W), 1st Apr 2007

Hav Ganga Pandit (7774281K now JC-819211Y), 4th Apr 2007\*

Hav Gaikwad Balu Keshao Rao (7774262Y now JC-819212E), 2nd Apr 2007\*

Hav Raj Mohan Pandey (7774271A now JC-819213K), 1st Apr 2007

Hav Bhupendra Singh Chauhan (7774372N now JC-819214M) 19th Apr 2007\* -

Hav Siya Ram Pandey (7774307N now JC-819215P), 1st Apr 2007\*

Hav Bheeka Ram Choudhary (7774317X now JC-819216X), 3rd Apr 2007\*

Hav Mahatab Singh Verma (7774324N now JC-819217A), 1st Apr 2007

Hav Naresh (7774338N now JC-819218H), 21st Apr 2007

Hav Kadam Sitaram Dadaso (7774343Y now JC-819219L), 1st May 2007

Hav Surander Kumar (7774344F now JC-819220A), 21st May 2007@

Hav Pramod Kumar (7774360Y now JC-819221H), 1st June 2007

Hav Chandra Kishore Kothari (7774364P now JC-819222L), 2nd July 2007&

Hav Prafulla Gayan (7773791Y now JC-819223N), 6th July 2007&

Hav Kakade Ramesh Shankar Rao (7774274N now JC-819225Y), 1st Aug 2007#

Hav Suresh Kumar MP (7773989X now JC-819226F), 1st Aug 2007

Hav Yoagandra Singh (7774258W), now JC-819227K), 1st Aug 2007

Hav Johnny KK (7774367H now JC-819228M), 1st Aug 2007

Hav Narayan Bhogan (7774260N now JC-819230K), 1st Sep 2007+

Hav Raphael Lakra (7774390W now JC-819231M), 1st Sep 2007

Hav Ajai Shankar Singh (7774392F now JC-819232P), 1st Sep 2007

Hav Jagon Basumatari (7774397A now JC-819233X), 18th Sept 2007%

Hav Ananda Ram Nath (7773746M now JC-819235H), 15th Oct 2007^

Hav Vankar Hira Bhai Babu Bhai (7774297P, now JC-819236L), 6th Oct 2007^

Hav Shri Narain (7774124X now JC-819237N), 11th Oct 2007^

Hav Santosh Kumar (7774176N now JC-819238W), 15th Oct 2007^

Hav Prasanta Hazarika (7774399L now JC-819239Y), 20th Nov 2007\$

Hav Balin Kumar Borah (7774401X now JC-819240N), 1st Nov 2007

Hav Bhaba Nanda Das (7774403H now JC-819241W), 1st Nov 2007

Hav Pirthi Chand (7774404L now JC-819242Y), 1st Nov 2007

Hav Sushil Kumar (7774423W now JC-819243F), 1st Nov 2007

\* (Granted seniority with effect from 1st Apr 2007 without effect on pay and allowances).

@ (Granted seniority with effect from 1st May 2007 without effect on pay and allowances).

& (Granted seniority with effect from 1st July 2007 without effect on pay and allowances).

# (Granted seniority with effect from 27th July 2007 without effect on pay and allowances).

+ (Granted seniority with effect from 1st Aug 2007 without effect on pay and allowances).

% (Granted seniority with effect from 1st Sep 2007 without effect on pay and allowances).

^ (Granted seniority with effect from 1st Oct 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Hira Ram Choudhary (7774424Y now JC-819244K), 1st Nov 2007

Hav Lok Pal Singh (7774426K now JC-819245M), 1st Nov 2007

Hav Thomas Mathew (7774056P now JC-819246P), 16th Nov 2007

Hav Kishor Kumar (7774132M now JC-819248A), 1st Dec 2007

Hav Jashubanta Sahoo (7774447A now JC-819249H), 1st Dec 2007

Hav Reghunath Singh (7773965N now JC-819250X), 1st Dec 2007

Hav Lone Prakash Nandoo (7773997W now JC-819251A), 1st Dec 2007

Hav Manghul Lal Yadav (7774232F now JC-819252H), 10th Dec 2007\*\*

Hav Kantesh Kumar (7774270X now JC-819253I), 1st Dec 2007

Hav Anjoli Kumar (7774279M now JC-819254N), 1st Dec 2007

Hav Janki Roy (7774298X now JC-819255W), 10th Dec 2007\*\*

Hav Mahipat Singh (7774339W now JC-819256Y), 15th Dec 2007\*\*

To be Subedar Ck (GD)

Hav Faruque Ahmed Chaudhary (7773112A now JC-819263Y), 1st Apr 2007

Hav Suryadeo Prasad (7773532M now JC-819264W), 3rd Aug 2007\*

Hav Tulsi Singh Yadav (7774243N now JC-819265P), 1st Sep 2007

Hav Ramadhar Singh Yadav (7774396X now JC-819264A), 18th Oct 2007\*

Hav Chhotu Lal Prasad (7774400P now JC-819267A), 1st Dec 2007

Hav Ashok Kumar Payra (7774350P now JC-819257I), 1st Jan 2008

Hav Rajendra A (7774358I now JC-819258K), 1st Jan 2008

Hav Hoshiyar Singh (7774379X now JC-819259M), 18th Jan 2008\*

Hav Shiv Naib Singh (7774412K now JC-819260A), 1st Jan 2008

Hav Tara Ram Bhargava (7774421I now JC-819261K), 1st Jan 2008

Hav Janardan Thakur (7774090P now JC-819262M), 1st Jan 2008

Hav Darade Mahadeo Dada Rao (7774213W now JC-819263P), 1st Jan 2008

Hav S Vairam (77741091I now JC-819264K), 1st Jan 2008

Hav Sidramagoud Pagad (7774116Y now JC-819265A), 12th Jan 2008\*

Hav Ram Bilas (7774133V now JC-819266H), 1st Jan 2008

Hav Kailash Prasad Yadav (7774033N now JC-819267L), 1st Jan 2008

Hav Vachan Singh Solanki (7774335A now JC-819268A), 1st Jan 2008

Hav Dilip Kumar Mishra (7774157H now JC-819269W), 4th Jan 2008\*

Hav Chandra Pal (7774181Y now JC-819270I), 1st Jan 2008

Hav Babu Lal Thakur (7774087P now JC-819271N), 7th Jan 2008\*

Hav Ravindra Kumar Shrinarayan Jadhao (7774168P now JC-819272W), 1st Jan 2008

Hav Dharan Pal Singh (7774180W now JC-819273Y), 7th Jan 2008\*

Hav Arun Kumar Singh (7774187A now JC-819274I), 1st Jan 2008

Hav Jagdish Singh Rajput (7774220M now JC-819275K), 1st Feb 2008\*

Hav Sanjay Kumar Singh (7773846X now JC-819276M), 1st Feb 2008

Hav Dinesh Kumar Dubey (7774409K now JC-819277P), 1st Feb 2008

Hav Atar Singh (77743221I now JC-819278X), 1st Feb 2008

Hav A Krishnan (7774471W now JC-819279A), 1st Feb 2008

Hav Ananda Pal (7774503N now JC-819280P), 2nd Feb 2008\*

Hav Lab Kumar Datta (7774508M now JC-819281X), 1st Feb 2008

Hav Hari Har Kalita (7774454P now JC-819282A), 2nd Feb 2008\*

Hav Suresh Kumar (7774461A now JC-8192831B), 1st Feb 2008

Hav Satyaveer (7774468W now JC-819284L), 1st Feb 2008

Hav Daroga Chaudhary (7774496H now JC-819285N), 1st Feb 2008

Hav Ram Dev Singh (7774521W Now JC-819286W), 1st Feb 2008

Hav Shankar Dayal Ram (7774474K now JC-819287Y), 1st Feb 2008

Hav C Ravichandran (7774478A now JC-819288F), 1st Feb 2008

Hav Sukhendu Sekhar Bera (7774486 now JC-819289K), 1st Feb 2008

Hav Puran Chandra Pandey (7774113L now JC-819290Y), 1st Feb 2008

Hav Dinesh Chandra Das (7774466L now JC-819291F), 1st Feb 2008

Hav Satya Narain (7774493P now JC-819292K), 1st Feb 2008

Hav Satpal Singh (7774517N now JC-819293M), 1st Feb 2008

Hav Yakub Ali Ansari (7773786N now JC-819297H), 1st Mar 2008

Hav Beta Kanaka Raju (7774522Y now JC-819298L), 1st Mar 2008

Hav Raja Ram (7774524K now JC-819299N), 1st Mar 2008

Hav Mahadeb Samadder (7774531A now JC-819300X), 12th Mar 2008#

Hav G Selvan (7774534N now JC-819301A), 1st Mar 2008

Hav Om Prakash (7774546H now JC-819302H), 1st Mar 2008

Hav M Govinda Rajan (7774572K now JC-819303L), 1st Mar 2008

Hav Ramesh Yadav (7774574P now JC-819304N), 1st Mar 2008

Hav Bisheshwar Ray (7773594W now JC-819305W), 1st Mar 2008

Hav Binay Kumar Yadav (7773727F now JC-819306Y), 1st Mar 2008

Hav Shinde Shivaji Jotiram (7773801X now JC-819307F), 1st Mar 2008

Hav Bajinath Mahato (7774128N now JC-819308K), 1st Mar 2008

Hav Harbir Singh (7774341N now JC-819309M), 1st Mar 2008

Hav Kunjilal Sen (7774432X now JC-819310F), 1st Mar 2008

Hav Kamleswar Singh (7774511M now JC-819311K), 1st Mar 2008

Hav Ranjit Singh (7773836N now JC-819312M), 1st Mar 2008

Hav Munim Singh (7774563H now JC-819313P), 1st Apr 2008#

Hav Abul Matin (7774532H now JC-819314X), 15th Apr 2008\$

Hav Krishna Murari Prasad (7774549W now JC-819315A), 1st Apr 2008

Hav Haneefa KK (7774575X now JC-819316H), 1st Apr 2008

Hav Sarwadanand Rai (7774163W now JC-819317N), 2nd Apr 2008\$

Hav Jagdish Prasad (7774327F now JC-819318N), 15th Apr 2008\$

Hav Bhujvir Singh (7774519Y now JC-819319W), 1st Mar 2008

Hav Shri Kant Parashar (7774542M Now JC-819320I), 1st Apr 2008

Hav Satyavir Singh (7774576A now JC-819323Y), 1st May 2008\$

Hav Vijay Pal Singh (7774706X now JC-819324F), 1st May 2008&

Hav Ramdhan Jat (7774586K now JC-819325K), 1st May 2008

Hav Chathukutty Thekkadavan (7774590M now JC-819326M), 1st May 2008

Hav Jay Narayan Joshi (7774593A now JC-819327P), 1st May 2008

Hav Ashok Kumar Singh (7774616W now JC-819328X), 1st May 2008

Hav Tone Sadashiv Baba (7774622K now JC-819329A), 1st May 2008

Hav Bijay Kumar Pandey (7774238H now JC-819330P), 1st May 2008

Hav G Thilagar (7774479I now JC-819331X), 1st May 2008

Hav Sheo Prasad Singh (7774530X now JC-819332A), 1st May 2008

Hav P Muthu Kannan (7774568F now JC-819333H), 1st May 2008

Hav Dinesh Mahato (7774581I now JC-819334L), 1st May 2008

@(Granted seniority with effect from 1st Feb 2008 without effect on pay and allowances).

#(Granted seniority with effect from 1st Mar 2008 without effect on pay and allowances).

\$(Granted seniority with effect from 1st Apr 2008 without effect on pay and allowances).

&(Granted seniority with effect from 2nd Apr 2008 without effect on pay and allowances).

Hav Rakesh Kumar Yadav (7774587M now JC-81933N), 1st May 2008

Hav Raj Kumar (7774640P now JC-819336W), 1st May 2008

Hav Gopal Chetty (7774402A now JC-819337Y), 28th May 2008\*

Hav Awadh Bihari Singh (7774513X now JC-819338J), 1st June 2008

Hav Amar Singh Negi (7774064N now JC-819339K), 1st June 2008

Hav Balbir Singh (7774640M now JC-819340Y), 1st June 2008

Hav Rajesh Kumar Yadav (7774643A now JC-819341J), 1st June 2008

Hav Hari Shankar Singh (7774661H now JC-819342K), 2nd June 2008\*\*

Hav Jyotirmoy Nanda (7774663N now JC-819343M), 1st June 2008

Hav Jetha Ram (7774645I now JC-819344P), 1st June 2008

Hav Bal Mukund (7774665Y now JC-819345X), 2nd June 2008\*\*

Hav Ram Swaroop Bagaria (7774648Y now JC-819346A), 2nd June 2008\*\*

Hav Ratan Chandra Daimary (7773421Y now JC-819294P), 1st Mar 2008

Hav Raj Mai (7773241W now JC-819295X), 1st Mar 2008

Hav Samarpal Singh (7776613F now JC-819296A), 1st Mar 2008

Hav Asit Kumar Singha (7773287W now JC-819297N), 1st May 2008

Hav Sunil Kumar Singh (7774415I now JC-819298W), 1st May 2008

#### SPECIAL LIST

##### 5GR (F)

To be Nb Sub (RT)

RT (Pandin) Madhum Dhip Tripathi (617815P now JC-17815P)

08th Sep 2007

SASIBRAE  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No 523 dated 13th October 2008. The President is pleased to make the following promotion/appointments:

##### REGULAR ARMY

##### CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (GJD)

Hav Surendra Kumar Tyagi (No 14266175H now JC-377415N), 2nd July 2007

Hav Mahtani (No 13889727Y now JC-377497I), 2nd July 2007

Hav DP Mishra (No 14253874P now JC-377621X), 1st Oct 2007

Hav Banku Ram (No 14266116W now JC-377650M), 1st Nov 2007

Hav Baij Nath (No 14253792M now JC-377652X), 1st Nov 2007

Hav Lakshmi Narayan (No 1426613K now JC-377653A), 1st Nov 2007

Hav Jagdish Narayan (No 14250420P now JC-377655L), 1st Nov 2007

Hav P K Nayak (No 14251504W now JC-377656N), 1st Nov 2007

Hav Pawan Kumar (No 14251634Y now JC-377657W), 1st Nov 2007

Hav T G Shankar (No 14254123A now JC-377658Y), 1st Nov 2007

Hav Suresh Kumar (No 14253933W now JC-377659F), 1st Nov 2007

Hav Har Bhagwan (No 14253946N now JC-377660W), 1st Nov 2007

Hav Madan Mohan Sahana (No 14254142I now JC-377661Y), 1st Nov 2007

Hav Om Prakash Pandey (No 14254047Y now JC-377662F), 1st Nov 2007

Hav Dayaram Yadav (No 14262287L now JC-377663K), 1st Nov 2007

Hav Ashok Kumar (No 14262362K now JC-377664M), 1st Nov 2007

Hav Ved Prakash (No 14262486Y now JC-377665A), 1st Nov 2007

Hav Patil Sunil PN (No 14262798P now JC-377666X), 1st Nov 2007

Hav B N Mohapatra (No 14251561H now JC-377667A), 1st Nov 2007

Hav Arjan Singh (No 3382633N now JC-377668I), 1st Nov 2007

Hav Kam Singh Shekhawat (No 14258045I now JC-377669L), 1st Nov 2007

Hav Tej Narayan Singh (No 14250544L now JC-377670A), 1st Nov 2007

Hav Bajrang Lal Meena (No 14250571P now JC-377671H), 1st Nov 2007

Hav Ram Niwas (No 14251192I now JC-377672L), 1st Nov 2007

Hav Perminder Singh (No 3382264M now JC-377674W),  
1st Nov 2007

Hav Jeewan Singh (No 14263597H now JC-377675Y),  
1st Nov 2007

Hav Nale Suresh Yashwant (No 14263634L now JC-  
377676F), 1st Nov 2007

Hav C S Shri Pal Zendu (No 14263537N now JC-377677F),  
1st Nov 2007

Hav Pabitra Kumar Das (No 14263611K now JC-377678M),  
1st Nov 2007

Hav Chander Pal (No 14263686F now JC-377679N), 1st Nov  
2007

Hav Saykul Islam (No 14248187P now JC-377678M),  
1st Nov 2007

Hav Vijai Singh (No 14251344F now JC-377681M), 1st Nov  
2007

Hav Ram Prasad (No 14251541F now JC-377682P), 1st Nov  
2007

Hav Anar Singh (No 14251457K now JC-377683X), 1st Nov  
2007

Hav S P S Meena (No 14251569K now JC-377684A),  
1st Nov 2007

Hav Pitamber Behera (No 14251630H now JC-377685H), 1st  
Nov 2007

Hav Ram Vilas Ram (No 14251700W now JC-377686L), 1st  
Nov 2007

Hav Siya Ram (No 14252071W now JC-377687N), 1st Nov  
2007

Hav Janeshwar Singh (No 14252093P now JC-377688W),  
1st Nov 2007

Hav Sanjay Kumar Singh (No 14252097L now JC-377689Y),  
1st Nov 2007

Hav M K Monikandan (No 14252182N now JC-377690N),  
1st Nov 2007

Hav Naresh Singh (No 14252221F now JC-377691W),  
1st Nov 2007

Hav Anil Kumar (No 14252509F now JC-377692Y), 1st Nov  
2007

Hav Jitender Shukul (No 14252473N now JC-377693F), 1st  
Nov 2007

Hav Dina Nath Singh (No 14252818K now JC-377732P), 1st  
Dec 2007

Hav Subash Chander (No 14253224F now JC-377733X), 1st  
Dec 2007

Hav Narwinder Singh (No 3382490K now JC-377734A), 1st  
Dec 2007

Hav Shyam Sundar Sharma (No 14258084K now JC-  
377735H), 1st Dec 2007

Hav Ram Nath (No 14258081W now JC-377736L), 1st Dec  
2007

### ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

No..... Dated ..... The President is pleased to make the  
following promotions:—

#### To be Naib Subedar (RT)

Sep Om Prakash Goswamy (14638319X Now JC-665380P)  
20 Mar 2008

#### To be Naib Subedar (MT)

Hav Lalan Singh (13890841H Now JC-665189N), 09 Apr  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without  
effect on pay & allowances.

Hav Moola Ram (13887190M Now JC-665268H), 31 Mar  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Gunjeshwar Chauhan (13887439N Now JC-665201K),  
26 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Mahi Pal (13891208P Now JC-665183M), 26 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Surender Singh (13887494K Now JC-665265P), 02 Apr  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without  
effect on pay & allowances.

Hav Mahipal Singh (13894026M Now JC-665050W), 28 Mar  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Oct 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Md Manudin Ansari (13891383K Now JC-665261Y),  
03 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Ram Bihari Thakur (13894239A Now JC-665267A), 03  
Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Dara Singh Rawat (13897042P Now JC-665117K), 15  
Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Ganesh Dutt (13897148H Now JC-665012A), 03 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Wahengbam Biswajit Singh (13897451H Now JC-665118M), 07 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Bhim Singh (13897595I Now JC-665190H), 24 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jagdish (13897520N Now JC-665269L), 21 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Shashi Bhushan Prasad (13897603Y Now JC-665266X), 03 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Chohke Lal (13895581W Now JC-665188I), 11 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Naresh Chandra Katara (13895400W Now JC-665184P), 20 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav K Srinivasulu (13895303Y Now JC-665182K), 20 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Brahm Prakash (13895566X Now JC-665185N), 08 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Suresh Chand (13897805A Now JC-665187H), 19 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jagdish Singh (13897833M Now JC-665191I), 20 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Netrapal Singh (13895821Y Now JC-665123P), 06 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Ram Prasad (13895853M Now JC-665193W), 22 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jag Ram Singh (13895879W Now JC-665073X), 28 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Vinod Kumar (13897985N Now JC-665202M), 26 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Rama Kant Singh (13897965A Now JC-6651251I), 17 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Sukhender Pal Singh (13895920I Now JC-665128W), 03 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Bhajan Singh Yadav (15351103M Now JC-665195F), 20 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Buddh Sen (15351192W Now JC-665197M), 18 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Suresh Singh (15351357K Now JC-665272L), 09 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Sant Kumar (13898005N Now JC-665199X), 26 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Balwant Singh Saini (15351665Y Now JC-665274W), 08 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Damodar Singh (13895957I Now JC-665200I), 20 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jayvir Singh (15353991L Now JC-665277K), 02 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Nanda Kumar TG (15354194M Now JC-665278M), 09 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jaewdhan Yadava (15354167H Now JC-665207L), 29 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Kapileshwar Ram (15354223W Now JC-665209W), 17 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Om Prakash (15354273 Now JC-665285I), 01 Apr 2008

Hav Pramod Kumar Bhushan (15354248H Now JC-665228F), 01 Apr 2008\*

Hav Ratan Singh (15355048Y Now JC-665213Y), 07 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Suresh Prasad Pandit (15355044H Now JC-665214F), 29 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Sunil Kumar Singh (15355714Y Now JC-665215L), 12 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Vargheese TP (15355688H Now JC-665280K), 11 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Prem Chandra (15355686X Now JC-665216M), 20 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Hari Singh (15355806L Now JC-665217P), 26 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Chittaranjan Bhunia (15356205M Now JC-665281M), 01 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Shajimon K (15356755P Now JC-665219A), 17 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Raju Michael (15356811H Now JC-665220P), 01 Apr 2008

Hav Jagat Singh (15356863Y Now JC-665221X), 01 Apr 2008

Hav Devendra Singh (15356884P Now JC-665222A), 01 Apr 2008

Hav Lakhan Ram Chaurasiya (15356888L Now JC-665284A), 03 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Mani Deo Kumar (15356894Y Now JC-665223H), 01 Apr 2008

Hav Hari Bhajan Singh (15356968H Now JC-665224L), 01 Apr 2008

Hav Darshan Singh Rawat (15357006L Now JC-665226W), 01 Apr 2008

Hav Bholenath Singh (15357103H Now JC-665225N), 01 Apr 2008

Hav Jaya Kumar K (15357657P Now JC-665298A), 08 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Ram Saran Singh (13890825L Now JC-665263K), 29 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Suresh Prasad (13890566N Now JC-665260W), 17 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Damar Raman (13890631H Now JC-665264M), 17 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Umesh Singh (13891226X Now JC-665262F), 01 Feb 2008

Hav Sudish Kumar Rai (13891259H Now JC-665317A), 06 May 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav V Kosavel (13887704Y Now JC-665227Y), 01 Apr 2008

Hav Jagannath Dash (13894050H Now JC-665354N), 12 May 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Ravi Shankar Dubey (1389424811 Now JC-665296P),  
15 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Jaswant Singh (13897629N Now JC-665359A), 16 May  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Mar 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Rajender Singh (13895567A Now JC-66527613), 19 Apr  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Ravi Kumar Yadav (13897965I, Now JC-665373N),  
12 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Feb 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Anang Pal Singh (13898864N Now JC-665270A),  
15 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Balwan Singh (13897956Y Now JC-665345W), 28 Feb  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav A Buchanah Goud (13897994P Now JC-665364Y),  
12 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Sharanappa (15351235A Now JC-665195A), 17 Mar  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Bipin Kumar Sharma (15351181K Now JC-6652711),  
01 May 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Ram Luxman Dhakur (15551888E Now JC-665286L),  
12 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Durga Dutt (15354218E, Now JC-665298N), 17 Mar  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Shoraj Singh Meena (15354458H Now JC-665212W),  
20 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Jhabhu Singh (15355049E Now JC-665315P), 17 Apr  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Birendra Kumar (15356354N Now JC-665279P), 01 May  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Jagdish Prasad (15356722K, Now JC-665283X),  
31 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Ramesh Chandra (15896126W Now JC-665348A),  
14 May 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Onkar Chand (13898080X Now JC-665350X), 15 May  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Ashis Das (178961711I Now JC-665351A), 10 May  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Sube Singh Yadav (13896458A Now JC-665346P),  
12 May 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Devendra Kumar (13898239X Now JC-6653531),  
15 May 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Hari Singh (13886292W Now JC-664967F), 01 Jan  
2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Ravi A (13886346M Now JC-664942P), 08 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Brij Nandan Prasad (13887023W Now JC-665048Y),  
18 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jul 2007 without  
effect on pay & allowances.

Hav Abhijit Ghosh (13887119Y Now JC-665069A),  
17 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.



Hav S. K. Ghosh (13887122Y Now JC-664998F), 21 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Ardhi Rama Rao (13887351K Now JC-664978N), 01 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Deepak Kumar (13887694A Now JC-664884W), 05 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Parmeswar Singh (13887728H Now JC-664945H), 17 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Chandra Shekher (13887812H Now JC-664966Y), 14 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Aswini Talukdar (13889667P Now JC-664936F), 31 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Abhi Manyu (13889737H Now JC-664973P), 29 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Hari Kumar P V (13890063H Now JC-664959H), 14 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Chandra Prakash Singh (13890602N Now JC-664815A), 08 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Baij Nath (13890887L Now JC-664929L), 01 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances.

Hav M Antony Daniel (13891160M Now JC-664969M), 07 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Kulaph Singh (13891313L Now JC-664816H), 10 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Kanjan Singh (13891412N Now JC-664932L), 18 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Rajendra Prasad Chaudhary (13891781L Now JC-664709F), 20 Oct 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Shyam Bihari Singh (13894240P Now JC-664971K), 05 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Pramod Kumar Patra (13894482X Now JC-664835N), 27 Nov 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Biyoy Prakash Pandey (13894541Y Now JC-664994I), 18 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Ram Pal Singh (13894787X Now JC-664880A), 27 Nov 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Shiv Balak Ram (13894944Y Now JC-664995N), 21 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Subodh Mishra (13894995M Now JC-665046N), 22 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Rameshwar Yadav (13895030F Now JC-664939P), 07 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Sanal Kumar P (13895051X Now JC-664996W), 18 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Satyandra Kumar Pandey (13895094M Now JC-665044H), 21 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Bapu Kashinath Yadav (13895449M Now JC-664879L), 01 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Suresh Singh Pal (13895614M Now JC-664947N), 24 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Saravanan D (13895757M Now JC-665074A),  
18 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Roop Kishore (13895795X Now JC-665075H),  
24 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without  
effect on pay & allowances.

Hav Mohan Kumar Yadav (13895799Y Now JC-665076L),  
18 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Devender Kumar Singh (13897282M Now JC-665099K),  
18 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Surrender Pal Singh (13897366A Now JC-664886F),  
08 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Md Nazraf Islam Talukdar (13897425N Now  
JC-664821N), 06 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Govind Singh (13897650W Now JC-664726A),  
01 Nov 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Shiv Lal (13897684K Now JC-664911N), 20 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Ashok Kumar Pandey (13897710A Now JC-664875K),  
10 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Mahipal Singh (13897747F Now JC-665011X),  
17 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Mahesh Singh Kumar (13897755A Now JC-664826M),  
04 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Deepak Kumar (13897804X Now JC-664872M),  
24 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Mahesh Kumar (13897807I Now JC-664882L),  
22 Nov 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Naval Kishore Chourasia (13897902X Now  
JC-665072P), 18 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Ram Prasad Singh (13897936I Now JC-665079V),  
18 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Gambhir Singh (13887261H Now JC-665008X),  
05 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Ram Avtar Prasad (13891789X Now JC-665131W),  
17 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Gaya Nath (13894063I Now JC-665000L), 18 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Damodar Datta Saini (13891840M Now JC-665002W),  
06 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Nand Kishore Pandit (13894204K Now JC-665058H),  
27 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Surinder Singh (13894145H Now JC-665115Y),  
16 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Ram Pravash Yadav (13894845W Now JC-665006M),  
02 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Sarat Chandra Mohanty (13894351M Now JC-  
665049F), 15 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Nov 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Mahendra Upadhyay (13897229F Now JC-665116F),  
15 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jul 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Amate Subhoj Ladateso (13894611M Now  
JC-665126A), 14 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jan 2008  
without effect on pay & allowances.

Hav Radha Rajan Rao (13894637F Now JC-665112I),  
18 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007  
without effect on pay & allowances.

Hav Jai Prakash Tiwari (13894847F Now JC-665065Y), 16 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Yusuf Ali (13897319H Now JC-665114W), 15 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Babaji Charan Rout (13897407Y Now JC-665055P), 03 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Manoj Kumar (13897458M Now JC-664962H), 18 Dec 2007\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Pratap Chandra Khandual (13895201H Now JC-665181F), 17 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Vinod Singh (13897602W Now JC-665051Y), 04 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Nov 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Ghan Shyam Yadav (13895326A Now JC-665045L), 03 Nov 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Yashpal Singh (13897674A Now JC-664937K), 07 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Raj Bahadur Sharma (13897682Y Now JC-665204X), 19 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Laxman Singh (13897743L Now JC-665063N), 21 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Subhash Singh (13895536A Now JC-665113N), 16 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav Hashrat Ali, (13897801K Now JC-665192N), 20 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Kaml Kishore (13897858Y Now JC-665144N), 29 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jaywant Topno (13895690Y Now JC-665066F), 05 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jaibir (13897895M Now JC-665071M), 11 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Suresh Babu P (13895745X Now JC-665119P), 16 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Deena Nath Mishra (13897915P Now JC-665120K), 03 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Khempal Singh (13895807M Now JC-665121M), 29 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Ruhi Das Mistry (13897953L Now JC-665080N), 28 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Shri Niwas Chopra (13895881N Now JC-665082), 29 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Shish Ram (13897951A Now JC-665081W), 15 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Subodh Kumar (13897958K Now JC-665146Y), 01 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jangal Dhari Sharma (13897961K Now JC-665123K), 1 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Upendra Kumar Ojha (13897982A Now JC-665126L), 28 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Surinder Singh (13897971N Now JC-665124A), 25 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Janardan Singh Yadav (13895898F Now JC-665127N), 16 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Jeta Ram (13895922M Now JC-665129Y), 08 Nov 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Kamlesh Sharma (13895924X Now JC-665130N), 27 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Guptheshwar Prasad, (13895947Y Now JC-665138P), 25 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Santosh Pattanaik (15352172P Now JC-665208P), 15 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Parmil Prasad Singh (15352273 Now JC-665205A), 15 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Mulayam Singh (15353888A Now JC-665206H), 19 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Suresh G. (15354279H Now JC-665211N), 15 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Hans Raj (15354283L Now JC-665210L), 14 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav Ram Kumar (1535862A Now JC-665059L), 06 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

P Rana Savitry  
Under Secretary

#### ARMY BRANCH

No. 524 Dated 13 October 2008—The President is pleased to make the following Promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY ORDNANCE CORPS

To be Nb Sub

Hav (Ski AMN) Rand Ram (6924910H Now JC-727103M), 05 Dec 2007\*

\*Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav (Ski WLP) Ravi Saran, (6921942L Now JC-727102P), 12 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Rajendra Singh Bhuat (6920387H Now JC-727703X), 09 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SHT) Anand Kumar (6917896K Now JC-727704A), 23 Jan 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (AT) Nity Anand Mishra (6929848W Now JC-727705H), 20 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (AT) Gurmali Singh (6929874X Now JC-727706L), 16 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (AT) Kailash Chander Joshi (6929881N Now JC-727707N), 01 Feb 2008\*

Hav (AT) Dheple Rama Manjaji (6929907X Now JC-727708W), 01 Feb 2008\*

Hav (AT) Ambarnish Pandey (6930773W Now JC-727709Y), 01 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (AT) Ram Kripal Singh (6932112P Now JC-727710N), 01 Feb 2008

Hav (Clk S PROV) Drav Vijay Singh (6920385L Now JC-727711W), 01 Jan 2008

Hav (Clk GD) Ram Prakash (6920412K Now JC-727713F), 25 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (AT) Mantu Nath Roy (6928184F Now JC-727714K), 18 Feb 2008\*

Hav (Clk GD) Virendra Kumar (6920426K Now JC-727715M), 18 Feb 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Krishna Chandra Sahu (6920450A Now JC-727716P), 01 Feb 2008

Hav (Clk S PROV) Ajit Kumar Das (6920486Y Now JC-727717X), 01 Feb 2008

Hav (Clk S PROV) Babbar Choubey (6920548N Now JC-727718A), 01 Feb 2008

Hav (Clk GD) Raghu Krishan Pillai (6920556M Now JC-727719H), 01 Feb 2008

Hav (Clk GD) Shiv Dhani Mishra (6920576A Now JC-727720X), 01 Feb 2008

Hav (Clk GD) Satya Pal Rantan (6920582N Now JC-727721A), 28 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Kedar Singh (6920647W Now JC-727722H), 01 Feb 2008

Hav (Clk GD) Virendra Narain Pathak (6920774L Now JC-727723L), 01 Mar 2008

Hav (Skt WEP) Varinder Singh (6921992W Now JC-727724N), 01 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt SIG) Dharm Vir Dwivedi (6921996M Now JC-727725W), 18 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt SIG) Satyendra Kumar (6921999A Now JC-727726Y), 14 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt SIG) Ajendra Singh Chauhan (692202M Now JC-727727F), 01 Feb 2008\*

Hav (Skt SIG) Uma Pratap Singh Tiwari (6922008N Now JC-727728K), 18 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt SIG) Krishna Kumar (6922009 Now JC-727729M), 01 Feb 2008

Hav (Skt SIG) Dhruv Narayan Tiwari (6922014F Now JC-727073F), 14 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Subash Chand Tanwar (6920931M Now JC-727731K), 01 Mar 2008\*

Hav (Clk GD) Rajan Singh (6920937N Now JC-727732M), 01 Mar 2008

Hav (Clk GD) Bhagwat Prasad Singh (6921038Y Now JC-727733P), 01 Mar 2008

Hav (Skt SIG) Omprakash (6922015K Now JC-727734X), 25 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt GS&C) Md. Riyazul Haque (6922019A Now JC-727735A), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS&C) Nagendra Kumar Dubey (6922021X Now JC-727736H), 04 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt MT) DK Dwivedi (6922031F Now JC-727737L), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS&C) Chunni Lal (6922035X Now JC-727738N), 18 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt GS&C) Shakil Khan (6922050 Now JC-727739W), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS&C) Yatindra Prasad (6922057M Now JC-727740L), 01 Mar 2008

Hav (DVR MT) Dhan Singh (6920191H Now JC-727741N), 25 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SHT) Sunder Raj (6918739K Now JC-727742W), 12 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SHT) Dilip Sinha (6918790K Now JC-727743Y), 11 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SH GD) Shiv Bachan Singh (691847 Now JC-727744F), 27 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SH GD) Thakur Dass (6921224P Now JC-727745K), 01 Feb 2008

Hav (SH GD) Umesh Prasad Singh (6921273X Now JC-727746M), 10 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SH GD) Prabhu Dayal (6921315Y Now JC-727747P), 21 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (AT) Hakim Singh (6921888H Now JC-727748X), 01 Mar 2008

Hav (Clk GD) Nareesh Singh Jadav (69220543M Now JC-727749A), 04 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Jagmohan Singh (69206011N Now JC-727750P), 20 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Ved Prakash (6920642X Now JC-727751X), 01 Feb 2008

Hav (Clk S PROV) Joginder Singh (6920669P Now JC-727752A), 01 Feb 2008

Hav (Clk GD) Mahendra Pal Singh (6920687X Now JC-727753H), 01 Mar 2008

Hav (Clk GD) Bhag Raj (6920688A Now JC-727754L), 01 Mar 2008

Hav (Clk S PROV) Anil Kumar (6920696X Now JC-727755N), 01 Mar 2008

Hav (Clk S CONY) Murad Khan Kayam Khan (6920833M Now JC-727756W), 01 Mar 2008

Hav (Skt GS & C) Durgaram Ghoswan (6922050H Now JC-727757Y), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS & C) Leewan Ram Navad (6922044V Now JC-727758H), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS&C) Sambhu Prasad Sahu (6922047M Now JC-727759K), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS&C) Dina Bandu Chowdhary (6922043D Now JC-727760Y), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS&C) Raghu R (6922053A Now JC-727761P), 27 Feb 2008

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt MF) Dworka Nath Barik (6922055L Now JC-727762K), 01 Feb 2008

Hav (Skt MF) Pradip Kumar Mandal (6922074W Now JC-727763M), 01 Mar 2008

Hav (DVR MF) Mugilipuri Lavanya Sahu (6919919Y Now JC-727764P), 22 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SHD) Premi Kumar Sahu (6919239Y Now JC-727765X), 01 Mar 2008

Hav (SH GD) Mangla Nand (6921229N Now JC-727766A), 15 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SH GD) Purshotam Chand (6921401K Now JC-727767H), 01 Mar 2008

Hav (SH GD) Gornail Singh (6921408N Now JC-727768L), 01 Mar 2008

Hav (PTR C) Chaitishwar Yadav (13955799C Now JC-727769N), 01 Feb 2008

Hav (SH GD) Bhavender TG (6921413Y Now JC-727770H), 01 Mar 2008

Hav (Clk GD) Jettan Kumar Samal (6921017H Now JC-727771L), 11 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 1st Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Ranka Nidhi Jena (6920461M Now JC-727772N), 01 Feb 2008

Hav (AT) Jagdish Chander (6925661M Now JC-727773W), 01 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (AT) Girraj Prasad Sharma (6928272X Now JC-727774Y), 01 Feb 2008

Hav (Clk S PROV) Ksharidilal (6920403H Now JC-727775L), 12 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk S PROV) Suresh Kumar A (6920469Y Now JC-727776K), 01 Feb 2008

Hav (Clk S PROV) Shambhu Prasad (6920521W Now JC-727777M), 12 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Rajbir Singh (6920525M Now JC-727778P), 08 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Nagender Kumar (6920537H Now JC-727779X), 01 Feb 2008

Hav (Clk GD) Rani Jas (6920612A Now JC-727780M), 01 Feb 2008

Hav (Skt SIG) Harbajan Lal (6922005A Now JC-727781P), 16 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt SIG) Vinender Sharma (6922013Y Now JC-727782X), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS&C) Panchappa Shivasabaran (6922018X Now JC-727783A), 01 Feb 2008

Hav (Skt GS&C) Beg Raj (6922024L Now JC-7277841t), 23 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt GS&C) Krishna Chandra Behra (6922036A Now JC-727785L), 20 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Skt GS&C) Sudarsan Sahu (6922039N Now JC-727786N), 04 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (DVR MT) Girish Chandra Das (6920632N Now JC-727787W), 01 Apr 2008

Hav (SH1) Bishnu Chettri (6918749N Now JC-727788Y), 13 Feb 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (SH GD) Narayan Lal Dass (6921271M Now JC-727789F), 01 Feb 2008

Hav (AT) Thimmappa Gouda (6930670X Now JC-727790W), 04 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk S CONT) Jaiprakash Singh (6920636K Now JC-727791Y), 15 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Sukhpal Singh (6920657A Now JC-727792F), 03 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk S PROV) Nabal Singh (6920677N Now JC-727793K), 01 Mar 2008

Hav (Clk S CONT) Rajbir Singh Yadav (6920690X Now JC-727794M), 01 Mar 2008

Hav (Clk S CONT) Hiralal Choubey (6920782K Now JC-727795P), 10 Mar 2008

Hav (Clk S PROV) Ashok Kumar Singh (6920792N Now JC-727796N), 10 Mar 2008\*

\*Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allowances.

Hav (Clk GD) Md Jumaddin (6920797M Now JC-727797A), 01 Mar 2008

Hav (Clk S CONT) Tapan Kumar Roy (692082311 Now JC-72779811) 07 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S CONT) Mukul Saha (6920837H Now JC-727799L) 09 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S CONT) Sidhnath Singh (6920959M Now JC-727800P) 18 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S CONT) Mohammad Halim (6920989K Now JC-727801X) 01 Mar 2008

Hav (SHGD) Jaipal Singh (6921316F Now JC-727802A) 01 Mar 2008

Hav (SHGD) Ram Surar (6921326L Now JC-727803H) 18 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SHGD) Sukhwinder Singh (6921382K Now JC-727804L) 01 Mar 2008

Hav (SKT AMN) Bijay Kumar (6921927W Now JC-727805N) 01 Feb 2008

Hav (SKT SIG) Madho Ram Kapoor (6922004X Now JC-727806W) 20 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) Bhawesh Thakur (6922020P Now JC-727807Y) 23 Feb 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) Bishwanath Padhy (6922041L Now JC-727808F) 07 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Mohan Lal Sarkar (6922056N Now JC-727809K) 04 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) Netra Needhi Das (6922062F Now JC-727810Y) 04 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Abhijit Chattopadhyay (692206811 Now JC-727811F) 01 Mar 2008

Hav (SKT MT) Bikash Chandrapal (6922069L Now JC-727812K) 01 Mar 2008

Hav (SKT MT) Pradip Kumar Parida (No. 69229721 Now JC-727813M) 21 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Ramakant Mallik (No. 6922973N Now JC-727814P) 01 Mar 2008

Hav (SKT GS&C) Dilip Roy (No. 6922976F Now JC-727815X) 01 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT AVN) Bishwanath Dey (No. 6922979P Now JC-727816A) 20 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVR MT) Ram Pware Ram (No. 692299A Now JC-727817H) 03 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SHT) C Dhakshina Moorthy (No. 6918883Y Now JC-727818L) 06 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SHT) Pakhar Singh (No. 6919085X Now JC-727819N) 02 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) Pramod Kumar Singh (No. 6928178P Now JC-727820H) 01 Feb 2008

Hav (CLK GD) Hriday Narayan Singh (No. 6920805P Now JC-727821J) 17 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Suraj Bhan Singh (No. 6920852P Now JC-727822N) 01 Mar 2008\*

Hav (CLK GD) Lal Singh (No. 6920932P Now JC-727823W) 28 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Ravendra Pal Singh (No. 6920934X Now JC-727824Y) 15 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Dip Narayan Singh (No. 6921983P Now JC-727825F) 01 Mar 2008\*

Hav (CLK S CONT) Raj Kumar (No. 6920958K Now JC-727826K) 07 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Rakesh Kumar Sharma (No. 6920980P Now JC-727827M) 01 Mar 2008

Hav (CLK GD) Jagdish Chandra Pathak (No. 6920992K Now JC-727828P) 18 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Biswajit Ray (No. 6921011F Now JC-727829X) 01 Mar 2008

Hav (CLK GD) Harekrishna Biswal (No. 6921012K Now JC-727830M) 01 Mar 2008

Hav (CLK S CONT) Ramesh Singh Chauhan (No. 6921035E Now JC-727831P) 01 Mar 2008

Hav (CLK S CONT) Madhusoodana Kurup (No. 6921040W Now JC-727832X) 01 Mar 2008

Hav (CLK S CONT) Dadhik Shan Ram (No. 6921062P Now JC-727833A) 09 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Devendra Singh (No. 6921069Y Now JC-727834H) 01 Apr 2008

Hav (CLK GD) Ramesh Chandra Pat (No. 6921074K Now JC-727835J) 07 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Sukh Man (No. 6921113X Now JC-727836N) 01 Apr 2008

Hav (CLK GD) Nanda Kumar G (No. 6921156M Now JC-727837W) 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Kuldeep Singh (No. 6921205K Now JC-727838Y) 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) A Mayan (No. 6921313H Now JC-727839P) 01 Apr 2008

Hav (CLK GD) Kader Uddin Laskar (No. 6921215N Now JC-727840W) 01 Apr 2008

Hav (CLK GD) Sukamoy Singh (No. 6921216W Now JC-727841Y) 01 Apr 2008

Hav (CLK GD) Narayan Datt (No. 6921318M Now JC-727842F) 01 Apr 2008

Hav (SKTSG) Aniruddha (No. 6922000F Now JC-727843K) 01 Jan 2008

Hav (SRJGS&C) Prahalad Swami (No. 6922043W Now JC-727844M) 16 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Dene Bandhu Nayak (No. 6922081M Now JC-727845P) 01 Apr 2008



Hav (SKT MT) Parimal Chakraborty (No. 6922080K Now JC-727846X) 18 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKTGS&C) Gufaran Ahamad (No. 6922082P Now JC-727847A) 01 Apr 2008

Hav (SKT GS&C) Bibhas Bhowmick (No. 6922083X Now JC-727848H) 01 Apr 2008

Hav (SKT MT) Dilip Kumar Mondal (No. 6922087N Now JC-727849L) 01 Apr 2008

Hav (SKT MT) Dharambir Kumar (No. 6922090N Now JC-727850A) 01 Apr 2008

Hav (SKT MT) Brij Bhushan Sharma (No. 6922091W Now JC-727851H) 01 Apr 2008

Hav (DVR MT) Kam Dev (No. 6920303X Now JC-727852L) 01 Mar 2008

Hav (DVR MT) Chandrama Singh (No. 6920703K Now JC-727853N) 08 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (DVR MT) Sewa Singh (No. 3383401M Now JC-727854W) 01 Apr 2008

Hav (SHT) Hamir Singh (No. 6919384W Now JC-727855Y) 24 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SHGD) Gyan Prakash Tripathi (No. 6920746Y Now JC-727856F) 01 Apr 2008

Hav (SHGD) Gorkala Joga Rao (No. 6920747F Now JC-727857H) 01 Apr 2008

Hav (SHGD) Indra Mani Mana Singh (No. 6920986W Now JC-727858M) 01 Apr 2008

Hav (SHGD) Net Narayan Singh (No. 6921276L Now JC-727859P) 09 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SH GD) Pawar Laxman (No. 6921433M Now JC-727860K) 01 Mar 2008

Hav (CLKGD) Rajender Singh Yadav (No. 6922025N Now JC-727861M) 01 May 2008

Hav (CLKGD) Hari Chand (No. 6922181X Now JC-727862P) 01 May 2008

Hav (AI) Kana Ram Gwala (No. 6929566X Now JC-727863X) 16 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb. 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK S CONT) Dilip Kumar Singh (No. 6920831F Now JC-727864A) 08 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK S CONT) Dilip Kumar Roy (No. 6920849X Now JC-727865H) 01 Mar 2008

Hav (CLKGD) Udayamal Sah (No. 6921016A Now JC-727866L) 01 Mar 2008

Hav (CLK GD) V Gnana Prakash (No. 6943305P Now JC-727867N) 17 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 21 Oct. 2007 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT SIG) Birendra Singh (No. 6921997P Now JC-727868W) 25 Feb 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Raj Singh (No. 6922089Y Now JC-727869Y) 01 Apr 2008

Hav (SKT WEP) Dharam Singh (No. 6922092Y Now JC-727870N) 01 Apr 2008

Hav (SHT) Kartar Singh (No. 6919241W Now JC-727871W) 23 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SHGD) T. Mundra (No. 6921449X Now JC-727872Y) 01 May 2008

Hav (DVR MT) Chander Bhan (No. 6920745W Now JC-727873F) 01 May 2008

Hav (AI) Surendra Mohan Chaudhary (No. 6925157M now JC-727874K), 01 Apr 2008

Hav (AI) C Murugan (No. 6928148W) now JC-727875M), 01 May 2008

Hav (CLK GD) Badrul Islam (No. 6921219K) now JC-727876P), 01 May 2008

Hav (CLK S CONY) Arvind Kumar (No. 6921321M now JC-727877X), 01 Apr. 2008

Hav (CLK S CONT) Dhirendra Kumar Singh (No. 6921379K) now (JC-727878A), 25 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr. 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Diwan Singh (No. 6921383M now JC-727879H), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Ambilli Kuttan PN (No. 6921473N now JC-727880X), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Govind Singh Rathore (No. 6921602H now JC-727881A), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Om Prakash Pandey (No 6921739P now JC7278821J), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Ashok Kumar Singh (No 6921755F now JC727883L), 01 Apr 2008

Hav (CLK GD) Ibrahim Khan Paltariy (No 6921758F now JC727884N), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Vidy Anand Singh (No 6921805M now JC727885W), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Lakshman Ram (No 6921806P now JC727886Y), 01 Apr 2008

Hav (CLK GD) Shik Shankar Singh Yadav (No 6921823P now JC727887Y), 01 May 2008

Hav (CLK GD) Sahendra Prasad Yadav (No 6921853M now JC727888K), 01 May 2008

Hav (CLK GD) Swami Prasad Singh Yadav (No 6921901F now JC727889M), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Chhanna Yadav (No 6921914Y now JC727890F), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Abdus Salam (No 6921982M now JC727891K), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Dake Mahadeo Sopan Rao (No 6922051P now JC727892M), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Binay Deb (No 6922077K now JC727893P), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Ujjwal Kumar Das (No 6922050X now JC727894X), 01 May 2008

Hav (CLK GD) P Raghik Gousakhada (No 6922225K now JC727895A), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) S Palani (No 6922232A now JC727896H), 01 May 2008

Hav (SKT MT) Madhab Chandra Roy (No 6922132P now JC727897J), 01 Apr 2008

Hav (SKT MT) Mahendra Singh Yadav (No 6922133X now JC727898N), 08 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Birender Singh (No 6922162M now JC727899W), 01 May 2008

Hav (SKT MT) Subash Chandra Pandey (No 6922168N now JC727900A), 01 May 2008

Hav (SKT MT) Subh Ram (No 6922177P now JC727901H), 01 May 2008

Hav (SKT MT) Rattan Singh (No 6922178A now JC727902L), 01 May 2008

Hav (DVR MT) Hardev Singh (No 6922179G now JC727903N), 01 May 2008

Hav (DVR MT) Brij Kishor Singh (No 6922177N now JC727904W), 01 May 2008

Hav (DVR MT) K M B Kamji Bhui (No 6920805P now JC727905Y), 01 May 2008

Hav (SHF) Balakrishna V (No 6919874K now JC727906F), 01 May 2008

Hav (SHGD) Tarkeshwar Singh (No 6921121W now JC727907K), 01 May 2008

Hav (SHGD) Parbhash Singha (No 6921507W now JC727908M), 01 May 2008

Hav (SHGD) Shyam Singh (No 6921570L now JC727909P), 01 May 2008

Hav (SHGD) Ram Singh (No 6919607H now JC727910K), 01 May 2008

Hav (SHGD) Dalip Kumar (No 6921624F now JC727911M), 01 May 2008

Hav (SHGD) Krishna Bihari (No 6921625Y now JC727912P), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Geyand Raj G (No 6921713A now JC727913X), 01 Apr 2008

Hav (AT) Krishna Kumar (No 6924900K now JC727914A), 01 May 2008

Hav (AT) Ratna Chandra Sahu (No 6929600Y now JC727915H), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Radhe Shyam Singh (No 6921242X now JC727916L), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Madan Mohan (No 6921354X now JC727917N), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Uma Shankar Rai (No 6921468H now JC727918W), 01 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK S CONT) Niranjan Mohanti (No 6921469L now JC727919Y), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Anil Prasad Singh (No 6921808A now JC727920N), 01 Apr 2008

Hav (CLK S CONT) Milan Chandra Saha (No 6921835K now JC727921W), 07 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK S CONT) Tejendra Kumar (No 6921852K now JC727922Y), 08 May 2008\*

(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK S CONT) Ai Savari Muthu (No 6922088W now JC727923F), 01 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of NB Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK GD) Ramdas Mistry (No 6922232P now JC727924K), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) B Jaya Prakash Rao (No.6922273K now JC727925M), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Ramawtar Singh (No.6922327A now JC727926P), 01 May 2008

Hav (CLK S CONT) Santosh Kumar (No.6922337K now JC727927X), 01 Jun 2008

Hav (CLK S GD) Gauri Shankar Saini (No.6922345H now JC727928A), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Sukhdev Lal (No.6922346I, now JC727929H), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Dalip Singh (No.6922369M now JC727930X), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Ajmer Singh (No.6922390 P now JC727931A), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Tika Ram (No.6922400N now JC727932H), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Kantilal Mistry (No.6922421K now JC727933L), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Ram Saroop Sharma (No.6922438X now JC727934N), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Krishan Lal (No.6922463W now JC727935W), 01 June 2008

Hav (CLK S CONT) Ravi Shankar (No.6922470M now JC727936Y), 17 Jun 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK S CONT) Johnson Mathew (No.6922474I now JC727937F), 09 Jun 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (CLK S CONT) Padmanabha Sahu (No.6922483K now JC727938K), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Sagar Mal Saini (No.6922505X now JC727939M), 01 Jun 2008

Hav (CLK S CONT) Chauh Mal Karnawat (No.6922511L now JC727940F), 01 Jun 2008

Hav (CLK S GD) Harwinder Singh (No.6929766N now JC727941K), 01 Jun 2008

Hav (CLK S GD) Surendra Tiwari (No.6929793X now JC727942M), 01 Jun 2008

Hav (CLK GD) Dayalu Ram (No.6929803W now JC727943P), 01 Jun 2008

Hav (CLK GD) Suresh Kumar (No.6929816N now JC727944X), 01 Jun 2008

Hav (SKT SIG) Anand Prakash (No.6921994F now JC727945A), 24 Mar 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) Ashok Kumar (No.6922034P now JC727946H), 01 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT MT) Sadhan Kumar Saha (No.6922059F now JC727947L), 12 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of NB Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT WEP), Vegi Satyanarayana (No.6922093F now JC727948N), 27 Apr 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT WEP) Uma Shankar (No.6922111Y now JC727949W), 01 Apr 2008

Hav (SKT MT) Vidya Sagar (No.6922147X now JC727950L), 02 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Mt) Biren Das (No.6922187Y now JC727951N), 28 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Mt) Suresh Kumar (No.6922191F now JC727952W), 01 May 2008

Hav (Skt Mt) Gopi Ram (No.6922193M now JC727953Y), 01 May 2008

Hav (Skt GS&c) Ram Singh (No.6922195X now JC727954F), 01 May 2008

Hav (Skt Mt) Girraj Prasad Aggarwal (No.6922198L now JC727955K), 01 May 2008

Hav (Skt Mt) Naresh Kumar (No.692202H now JC727956M), 01 May 2008

Hav (Skt Wep) Deo Nath (No.6922204N now JC727957P), 29 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Mt) Jag Ram (No.6922206Y now JC727958X), 16 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt GS&C) Jag Pal Singh (No.6922208K now JC727959A), 01 May 2008

Hav (Skt Mt) Dharmendra Kumar Kaushal (No.6922209M now JC727960P), 02 Jun 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Skt Mtr) Rupje Singh (No. 692221HK now JC 727961X), 01 Jun 2008

Hay (Skt Mtr) Pramil Kumar Singh (No. 692221J now JC 727962AY), 01 Jun 2008

Hay (Skt Mtr) Brigendra Singh (No. 692221K now JC 727963H), 02 Jun 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Skt Mtr) Ramesh Chandra (No. 692221L now JC 727964U), 01 Jun 2008

Hay (Skt Mtr) Sory Bhui (No. 692221ZL now JC 727965V), 01 Jun 2008

Hay (Skt Wep) Jai Prakash Singh (No. 69222131 now JC 727966W), 01 Jun 2008

Hay (Skt Wep) Prempal Singh (No. 6922217K now JC 727967Y), 01 Jun 2008

Hay (Dvr Mtr) Surendra Singh (No. 6922218X now JC 727968F), 30 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Dvr Mtr) Ram Singh (No. 6920163W now JC 727969K), 02 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Dvr Mtr) Lalay Dilip Shivam (No. 69211122 now JC 727970Y), 01 Jun 2008

Hay (Shr) Ravi Singh (No. 69194601H now JC 727971J), 01 May 2008

Hay [Pr (C)] Hari Shankar (No. 6919498E now JC 727972K), 01 May 2008

Hay (Shr) Pararaj Singh (No. 6919914A now JC 727973M), 02 Jun 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Shgd) Sangharsh Hanraj Dandekar (No. 6920805AY now JC 727974P), 01 Jun 2008

Hay (Shgd) Krishan Lal (No. 6919389P now JC 727975A), 01 Jun 2008

Hay (Shgd) Keshu Ram Nakh (No. 69217377 now JC 727976AL), 07 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Shgd) Exalt Prasad (No. 6921458Y now JC 727977H), 01 May 2008

Hay (Shgd) Vinendra Kumar (No. 69217378 now JC 7279781J), 01 May 2008

Hay (Shgd) Karam Prasad (No. 6921576M now JC 727979N), 29 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Shgd) Hari Singh Kledar (No. 6921577P now JC 727980H), 20 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Shgd) Girard Singh (No. 6921780L now JC 727981L), 31 May 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hay (Shgd) Satyendra Kumar Pandey (No. 6921894W now JC 727982N), 01 Jun 2008

Hay (Shgd) Sanjay Kumar (No. 6938680W now JC 727983W), 01 May 2008

#### CORPS OF ELECTRONIC AND MECHANICAL ENGINEERS

No. .... Dated: ..... The President is pleased to make the following Appointment/Promotion:-

Hay to be Nb Sub Tech (AFI)

Harbans Lal (No. 14617102W now JC-762296Y), 01 Apr 2008\* 01 Apr 2008\*

Omi Prakash Fogashia (No. 14610209M now JC-762295W), 01 Apr 2008-01 Apr 2008\*

Pravin Mandal (No. 14609679L now JC-762294N), 01 Apr 2008-01 Apr 2008\*

Ravi Chander (No. 14617499N now JC-762293Y), 02 Apr 2008-01 Apr 2008\*

Hay to be Nb Sub Tech Armr

Alamgir Mallik (No. 14613492W now JC-762292W), 15 Apr 2008-01 Apr 2008\*

B Lourdu Narayan (No. 14613137W now JC-762291W), 03 Apr 2008-01 Apr 2008\*

Gajraj (No. 14613746U now JC-762290U), 01 Apr 2008\* 01 Apr 2008\*

Goutam Polaj (No. 14610347Y now JC-762289Y), 01 Apr 2008-01 Apr 2008\*

Harsh Wardhan Singh Negi (No. 14609095A now JC-762288H), 10 Apr 2008-01 Apr 2008\*

Hayat Singh Kaur (No. 14610014X now JC-762287Y), 01 Apr 2008-01 Apr 2008\*

J Deva Sagayam (No. 14613138 now JC-762286K), 01 Apr 2008-01 Apr 2008\*

MD Kalamuddin (No. 14609107K now JC-762285L), 03 Apr 2008-01 Apr 2008\*

Manoj Kumar (No. 14610824K now JC-762249F), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Manoranjan Chowdhary (No. 14613336M now JC-762261H), 03 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Pardeep Kumar (No. 14613713X now JC-762265Y), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Paritosh Biswas (No. 14613487L now JC-762263N), 03 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Prabhakaran Nair C (No. 14612319A now JC-762274A), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Pushkar Singh (No. 14613331N now JC-762260A), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

R Ramthas (No. 14612241A now JC-762252F), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Raj Kumar Singh (No. 14608854H now JC-762269P), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Rajendra Singh Kushwah (No. 14611987K now JC-762273X), 03 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Rajjeewan Shama (No. 14612990W now JC-762255P), 12 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Ram Lal Suiwal (No. 14610308P now JC-762247W), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Ranjit Singh (No. 14613176X now JC-762254M), 14 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Ranvir Singh Naryal (No. 14609148N now JC-762270K), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Rohit Lal (No. 14613107F now JC-762258H), 14 Apr 2008, 01 Apr 2008\*

Salik Ram (No. 14609715L now JC-762246N), 12 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Shiv Pratap Singh (No. 14613661M now JC-762262L), 03 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Siyaram Singh Yadava (No. 14613441H now JC-762253K), 03 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Sri Raj Kumar (No. 14609048E now JC-762243A), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Sridhar G (No. 14613201L now JC-762257A), 03 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Sudhir Kumar (No. 14611598K now JC-762251Y), 02 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Sunil Kumar (No. 14613312H now JC-762259L), 05 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Uma Shankar Mishra (No. 14609588F now JC-762271M), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Utam Kumar Pal (No. 14612993K now JC-762256X), 03 Apr 2008/01 Apr 2008\*

#### Hav to be Nb Sub Tech GCE

AC Jayaprakash (No. 14619767P now JC-762277N), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Dadaso Appaso Khombare (No. 14619440W now JC-762278W), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Laxman Singh Bist (No. 14620532P now JC-762280N), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Mahesh Kumar (No. 14620570L now JC-762281W), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

R Poovaiah (No. 14619355N now JC-762275H), 25 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Santosh Kumar Mishra (No. 14620436A now JC-762279Y), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Sundar Lal Sharma (No. 14619365X now JC-762276L), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Uttar Kumar Singh (No. 14621227P now JC-762282Y), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

#### Hav to be Nb Sub Tech Gun

Subhash Roy (No. 14621844X now JC-762383M), 05 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Bhaskaran S (No. 14615274W now JC-762507W), 01 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Brijraj Chaudhary (No. 14614993H now JC-762504H), 29 Mar 2008/01 Feb 2008\*

N K Anil Kumar (No. 14615272L now JC-762506N), 31 Mar 2008/01 Mar 2008\*

Sharda Prasad Shukla (No. 14615181F now JC-762505L), 07 Apr 2008/01 Mar 2008\*

#### Hav to be Nb Sub Tech Line

A Muralidharan (No. 14616087K now JC-762304M), 17 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Abhay Shankar Mishra (No. 14618205L now JC-762332Y), 01 May 2008/01 May 2008\*

Amarjeet Singh (No. 14617516M now JC-762306X), 08 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Ariyalagan O (No. 14615725L now JC-762323X), 01 May 2008/01 May 2008\*

Arjun Prasad (No. 14617613K now JC-762329Y), 01 May 2008/01 May 2008\*

Ashok Kumar Tripathi (No. 14617606N now JC-762327N), 01 May 2008/01 May 2008\*

Bhairu Singh Rathore (No. 14620731H now JC-762342H), 01 May 2008/01 May 2008\*

Chuvanhemant Kumar Y (No. 14618695K now JC-762313N), 13 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Devendera Singh (No. 14617519A now JC-762307A), 10 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Dhananjay Kumar Upadhyay (No. 14618819I now JC-762317K), 01 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Digvijay (No. 14618007A now JC-762309L), 1 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Karande Suresh Dattatraya (No. 14617535Y now JC-7623261), 08 May 2008/01 May 2008\*

Karnaveer Yadav (No. 14620693X now JC-762322P), 04 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Mahender Singh (No. 14618830M now JC-762315Y), 03 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Mune Hanmant Dada (No. 14619050N now JC-762339H), 01 May 2008/01 May 2008\*

Nasokan (No. 14620496P now JC-762321M), 19 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Om Prakash Singh Chaudhan (No. 146176123 now JC-762331W), 01 May 2008/01 May 2008\*

P Suresh (No. 14616152Y now JC-762305P), 11 Apr 2008, 01 Mar 2008\*

Patral Kishor Appasheeb (No. 14618150M now JC-762310A), 16 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Prankrishna Sarkar (No. 14618198A now JC-762312L), 04 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Raj Kishor Mishra (No. 14617620A now JC-762328W), 01 May 2008/01 May 2008\*

Rajeev R Naik (No. 14618578Y now JC-762335M), 01 May 2008/01 May 2008\*

Ramachandran K (No. 14618850W now JC-762316P), 04 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Ramakrishna Rao Kengam (No. 14619376H now JC-762319P), 07 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Rana San Kumar Singh (No. 14620715L now JC-762341A), 01 May 2008/01 May 2008\*

Sailem Samanta (No. 14616580X now JC-762303K), 21 Apr 2008/01 Oct 2008\*

Sanjay Kumar (No. 14618842F now JC-762357X), 01 May 2008/01 May 2008\*

Sanjay Kumar (No. 14619019P now JC-762338A), 01 May 2008/01 May 2008\*

Samihosh Kumar V (No. 14618191W now JC-762311H), 05 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Sarat Chandra Mohanty (No. 14619051W now JC-762340X), 01 May 2008/01 May 2008\*

Shiv Shanker Singh Yadav (No. 14617612F now JC-762308H), 16 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Spikra D S (No. 14618707N now JC-762314W), 17 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Subrata Das (No. 14617621H now JC-762330N), 01 May 2008/01 May 2008\*

Tunmala Vys Dilip Kumar (No. 14616063A now JC-762324A), 01 May 2008/01 May 2008\*

Udham Singh (No. 14618715M now JC-762336P), 01 May 2008/01 May 2008\*

V M Pramod Kumar (No. 14618573A now JC-762331K), 01 May 2008/01 May 2008\*

Ved Prakash (No. 14620477P now JC-762320K), 08 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Rajesh Kumar (No. 14618886Y now JC-762318M), 07 Apr 2008/01 Mar 2008\*

Have to be Nb Sub Tech Radio

Dhoble Sunil Ramachandra (No. 14618477L now JC-762293L), 31 Mar 2008, 10 Feb 2008\*

M Nara Simhula (No. 14616415M now JC-762292H), 24 Mar 2008, 10 Feb 2008\*

V Mani Vannan (No. 14616966X now JC-762291A), 25 Apr 2008/01 Dec 2008\*

\*Gtd ante dated seniority

Have to be Nb Sub Tech GCE

Chandra Kishore Sahni (No. 14618361P now JC-761921H), 01 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Ishwar Singh (No. 14615717M now JC-761915P), 19 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Jagjeet Singh (No. 14617004A now JC-761917A), 11 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Janki Prasad Dubey (No. 14590368A now JC-761914M), 17 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Jaswinder Singh (No. 14617257P now JC-761919L), 09 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Joby John (No. 14617366I now JC-761913K), 10 Jan 2008/01 Oct 2008\*

Krishna Kumar Pandey (No. 14615819H now JC-761916X), 12 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Manoj Kumar Verma (No. 14618742W now JC-761923N), 24 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Muralee Dharan Kuttumkul (No. 14617050P now JC-761918H), 14 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Padma Nabha Pandey (No. 14618381H now JC-761922L), 10 Jan 2008/01 Jan 2008\*

R V Vijayavel (No. 14617581M now JC-761920A), 1 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Uttam Kumar Ghosh (No. 14618751X now JC-761924W), 15 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Aiyappa BN (No. 14618335N now JC-761904H), 29 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Akhilesh Kumar Singh (No. 14618599P now JC-761909F),  
21 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Arjun Kumar Jha (No. 14615613L now JC-761885H), 16 Jan  
2008/01 Dec 2007\*

Ashok Kumar Singh (No. 14617818Y now JC-761894K),  
18 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Badri Narayan Maurya (No. 14617087W now JC-761897X),  
07 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Devendra Kumar Shukla (No. 14617468X now JC-761899H),  
18 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Johnson TD (No. 14621746X now JC-761911Y), 12 Jan 2008/  
01 Dec 2007\*

K Srinivas Reddy (No. 14616263W now JC-761895M),  
19 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Lingaraja Patro (No. 14615786H now JC-761886L), 18 Jan  
2008/01 Dec 2007\*

M Ravindrachary (No. 14617641W now JC-761900M),  
19 Jan 2008/01 Dec 2007\*

M Sethurama Lingam (No. 14617116A now JC-761889Y),  
13 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Maheshwar Prasad Dubey (No. 14617496K now  
JC-761893F), 30 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Moti Ram (No. 14617081P now JC-761896P), 31 Jan 2008,  
01 Dec 2007\*

Naba Kishore Samantaray (No. 14606672W now  
JC-761880K), 14 Jan 2008, 07 Oct 2007\*

Nirmal Kumar Ghosh (No. 14602940X now JC-761882P),  
19 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Pradeep Kumar (No. 14617211M now JC-761898A), 18 Jan  
2008/01 Dec 2007\*

Prakash (No. 14617423X now JC-761892Y), 12 Jan 2008,  
01 Dec 2007\*

Rajani Kanth Mahapatra (No. 14618124L now JC-761902X),  
12 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Rakesh Kumar Singh (No. 14618431H now JC-761906N),  
12 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Ramesh Chandra (No. 14616630X now JC-761912F), 19 Jan  
2008, 06 May 2007\*

Ravindra Nath Gopal (No. 14597871A now JC-761881M),  
31 Jan 2008/01 Apr 2007\*

Sangama Nathan L.S. (No. 14618412X now JC-761907W),  
21 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Satya Pal Singh (No. 14602971X now JC-761883X), 12 Jan  
2008/01 Dec 2007\*

Shyam Narayan Singh (No. 14616264Y now JC-761888W),  
17 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Sujit Kumar Roy (No. 14618321N now JC-761903A), 21 Jan  
2008/01 Dec 2007\*

Surja Kanta Jana (No. 14605745L now JC-761884A), 15 Jan  
2008/01 Dec 2007\*

Urmender Pal Dixit (No. 14618416N now JC-761908Y),  
12 Jan 2008/01 Dec 2007\*

#### Hav to be Nb Sub Tech Radio

Ashok Kumar (No. 14618058N now JC-761878M), 15 Jan  
2008/01 Dec 2007\*

More Vijay Laxman (No. 14617277H now JC-761875Y),  
15 Jan 2008/01 Dec 2007\*

MV Ramana Murthy (No. 14616978M now JC-761873N),  
22 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Ramesh Jagathap D.V. (No. 14617362L now JC-761876F),  
15 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Tidake Bhagwan Laxman (No. 14604121M now  
JC-761868H), 01 Feb 2008/01 Dec 2007\*

#### Hav to bBe Nb Sub Tech Radio Contd

Wagh Dattatrya Nwruiti (No. 14618561L now JC-761879P),  
15 Jan 2008/01 Dec 2007\*

\*Gtd ante dated seniority

N K SHARMA

Under Secy

No 525 dated 14 October 2008—The president is pleased  
to make following promotions:—

#### REGULAR ARMY

#### CORPS OF ENGINEERS

#### BENGAL ENGINEER GROUP

(To be Nb Sub (GD))

Hav Akhilesh Kumar (1473778X Now JC- 338389F) 7 Dec.,  
2007#

Hav Ganesh Chandra (1476875 N Now JC- 338390W)  
27 May, 2008\$

Hav Mohan Singh (1470940M Now JC-338391Y)  
02 June, 2008\*

Hav Devki Nandan Upadhyay (1471468F Now JC- 338392F)  
01 Jan., 2008\*

Hav Dayal Ram (1471572P Now JC- 338393K) 01 June,  
2008\*

Hav Sohan Singh (1471899N Now JC-338394M)  
01 June, 2008\*

Hav. Bineshwar Singh (1472006F Now JC-338395P) 01 June, 2008\*

Hav Nandan Singh Kandan (1471977A Now JC-338396X) 02 June, 2008\*

Hav Garib Singh (1472217K Now JC-338397A) 02 June, 2008\*

Hav Jagat Singh (1472490 Y Now JC-3383981D) 01 June, 2008\*

Hav Kamun Shankar Sharma (1472597 N Now JC-338399L) 02 June, 2008

Hav Mani Shankar Dwivedi (1472650N Now JC-338400P) 02 June, 2008

Hav Chatar Singh Rana (1472651W Now JC-338401N) 03 June, 2008

Hav Amar Kumar Yadav (1472746W Now JC-338402A) 12 June, 2008

(To be No Sub Clk(GD))

Hav. Mool Chandra (1474375X Now JC-338403H) 23 May, 2008\*

Hav Girdhari Lal (1470959I Now JC-338405L) 31 May, 2008\*

Hav Prasanna Kumar Mohanty (1474473X Now JC-338405N) 29 May, 2008\*\*

Hav Birendra Kumar Rout (1474741W Now JC-338406W) 11 June 2008\*\*

Hav Ram Ashish Singh (1474750K Now JC-338407Y) 29 May 2008\*\*

Hav Chhaura Pal (1474781X Now JC-338408F) 17 June 2008\*\*

Hav Jawahar Prasad Choudhary (1474792P Now JC-338409K) 29 May 2008\*\*

Hav Bijoy Krishna Mahapatra (1474898A Now JC-338410Y) 31 May, 2008\*\*

Hav. Mani Ram Tiwari (1474729P Now JC-338411F) 29 May, 2008\*\*

Hav. Sahi Ram Maan (1474865L Now JC-338412K) 30 May, 2008\*\*

Hav. Sushir Daswas (1474913P Now JC-338413M) 30 May, 2008\*\*

Hav Ghanshyam Singh (1475012A Now JC-338414P) 20 June, 2008\*\*

Hav Balraj Singh (1475041P Now JC-338415S) 01 June, 2008\*

Hav Swarn Singh (1475097I Now JC-338416A) 02 June, 2008\*

Hav Nand Kishore Singh (1475094N Now JC-338417H) 02 June, 2008\*

Hav Hari Chandra (1475140X Now JC-338418L) 02 June, 2008\*

Hav. Tarlochan Singh (1475180Y Now JC-338419N) 06 June, 2008\*

Hav Surendra Kumar Pachauri (1475221X Now JC-338420H) 02 June, 2008\*

Hav. Pradip Ghosh (1475255I Now JC-338421L) 02 June, 2008\*

Hav. Raj Bahadur Sengupta (1475249X Now JC-338422N) 02 June, 2008\*

Hav Prabir Das (1475252X Now JC-338423W) 23 June, 2008\*

(To be No Sub SK+T)

Hav Shri Dhara (1481584H Now JC-338424Y) 30 June, 2008\*

Hav Arun Kumar Singh (1484934K Now JC-338425W) 31 May, 2008\*\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allowances).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay & allowances).

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2008 without effect on pay & allowances).

#### 1. BOMBAY ENGINEER GROUP

(To be No Sub GD)

Hav(GD) Jai Prakash (No 1571705P Now JC-350834H) 16 May, 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav(GD) Narendra Singh (No 1568187P Now JC-350843H) 16 May, 2008

Hav(GD) Ram Singh (No 1570150MX Now JC-350844L) 03 Apr, 2008

(Granted seniority in the rank of the Nb Sub wef 12 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav(GD) Ramnath Mishra (No 1569435M Now JC-350851F) 13 May, 2008

(Granted seniority in the rank of the Nb Sub wef 1st Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav(GD) Mohinder Singh (No 1570097M Now JC-350855X) 08 Apr., 2008



Hav(GD) Pol Shivaji Akaram (No 1572411N Now JC-350856A) 05 Apr, 2008

Hav(GD) Sukhwinder Singh (No 1571392F Now JC-350857H) 08 May, 2008

(Granted seniority in the rank of the Nb Sub wef 1 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav(GD) Sirmor Singh (No 1571456F Now JC-350958L) 21 May, 2008

(Granted seniority in the rank of the Nb Sub wef 14 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav(GD) Amarjit Singh (No 1568464P Now JC-350865F) 05 Jun, 2008

Hav(GD) Ganpat Prabhat More (No 1567511P Now JC-350866K) 04 Jun, 2008

Hav(GD) Jagtar Singh (No 1569795H Now JC-350867M) 04 Jun, 2008

Hav(GD) Anant Bahadur Singh (No 1571050N Now JC-350868P) 04 Jun, 2008

Hav(GD) Mohd Zafar (No 157062411 Now JC-350869X) 01 Jun 2008

Hav(GD) Mubarak Ansari (No 71026X Now JC-350870M) 03 Jun, 2008

Hav(GD) Hansa Singh (No 15711431P Now JC-350871P) 04 June, 2008

Hav(GD) Manjit Singh (No 1571544X Now JC-3508724X) 14 Jun, 2008

Hav(GD) Shingare Suresh Damodar Rao (No 1571549W) Now JC-350873A) 3 June, 2008

(Granted seniority in the rank of the Nb Sub wef 1 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Patil Chandrakant Maruti (No 1571816M Now JC-350877W) 3 Jun, 2008

Hav (GD) Patil Ganapati Vitthal (No 1571886L Now JC-350878Y) 2 Jun, 2008

Hav (GD) Shri Chand Yadav (No 1571999 N Now JC-35087F) 09 Jun, 2008

Hav (GD) Naigade Suresh Bajirao (No 1571962M Now JC-350880W) 5 Jun, 2008

Hav (GD) Mehar Din (No 1572049L Now JC-350881Y) 9 Jun, 2008

Hav (GD) Dattar (No 15720761P Now JC-350882F) 10 Jun, 2008

Hav (GD) Daya Shankar Ram (No 1567626H Now JC-350883K) 4 Jun, 2008

Hav (GD) Sri Bhagwan Din Sharma (No 1569157K Now JC-350884M) 14 Jun, 2008

Hav (GD) Atarnjit Singh (No 1570257F Now JC-350885P) 4 Jun, 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Mahadeo Krishna Chavan (No. 1568141M Now JC-350782W) 22nd Mar 2008

Hav (GD) Parte Prakash Sahadev (No. 1570272W Now JC-350783Y) 25th Mar 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2008 without effect on pay & allces)

Hav (GD) Garud Shivaji Vishnu (No. 1585784A Now JC-350784F) 17th Apr 2008

Hav (GD) More Kailas Waman (No. 1570763M Now JC-350785K) 28 Feb 2008

Hav (GD) Birender Singh (No. 1571744N Now JC-350786M) 28th Feb 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12th Jan 2008 without effect on pay & allces)

Hav (GD) Samam Singh (No. 1567216M Now JC-350797Y) 21st Mar 2008

Hav (GD) Vijay Sitaram Chavan (No. 1568809L Now JC-350798F) 27th Mar 2008

Hav (GD) Patil Shrikant Shivaji (No. 1570237N Now JC-350799K) 15th Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2008 without effect on pay & allces)

Hav (GD) Raj Kumar (No. 1569388A Now JC-350806P) 30th Mar 2008

Hav (GD) Dharam Singh (No. 1569862H Now JC-350807X) 1st Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2008 without effect on pay & allces)

Hav (GD) Birendra Prasad (No. 1570173N Now JC-350813L) 07th Apr 2008

Hav (GD) Jagdev Singh (No. 1570344P Now JC-350814N) 12th Apr 2008

Hav (GD) Moti Lal Sahu (No. 1570402N Now JC-350815W) 12th Apr 2008

Hav (GD) Mohammad Habib (No. 1570609N Now JC-350816Y) 7th Apr 2008

Hav (GD) Kewal Singh (No. 1570777M Now JC-350817F) 07th Apr 2008

Hav (GD) Hamid Mohammad (No. 1570781F Now JC-350818K) 8th Apr 2008

Hav (GD) Salamutulla (No. 1570807Y Now JC-350819M) 07th Apr 2008

Hav (GD) Gavalji Baburao Sopanna (No. 1570851N Now JC-350820F) 09th Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2008 without effect on pay & allowances)

Hav (GD) Kuddip Singh (No. 1571048W Now JC-350821K) 07th Apr 2008

Hav (GD) Sahib Singh (No. 1571198M Now JC-350822M) 07 Apr 2008

Hav (GD) Gurdev Singh (No. 1571785X Now JC-350823P) 09 Apr 2008

Hav (GD) Swaran Singh (No. 1570049M Now JC-350824X) 26th Apr 2008

Hav (GD) Kadam Kumar Samdeo (No. 1571285A Now JC-350825A) 03rd Apr 2008

Hav (GD) Anil Kumar (No. 1572896F Now JC-3508261) 09th Apr 2008

Hav (GD) Ayub Khan (No. 1571005F Now JC-350827L) 21st Apr 2008

Hav (GD) Balkar Singh (No. 1571251M Now JC-350828N) 10th Apr 2008

Hav (GD) Jitender Kumar (No. 1571303X Now JC-350829W) 21st Apr 2008

Hav (GD) Lala Singh (No. 1571375V Now JC-350830L) 26th Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2008 without effect on pay & allowances)

Hav (CLK GD) Vineet Kumar (No. 1574330M Now JC-350781N) 16th Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2007 without effect on pay & allowances)

Hav (CLK GD) Manjit Singh (No. 1577132M Now JC-350787P) 18th Mar 2008

Hav (CLK GD) Hongekar Sami (No. 1576013P Now JC-350788X) 08th Apr 2008

Hav (CLK GD) Randhir Singh (No. 1579032A Now JC-350789A) 07th Apr 2008

Hav (CLK GD) Stephen J (No. 1579233Y Now JC-350790P) 29th Mar 2008

Hav (CLK GD) Rajender Kumar Chaudhri (No. 1579029M Now JC-350791X) 21st Apr 2008

Hav (CLK GD) Gnanender Dixit (No. 1574010X Now JC-350792A) 3rd Apr 2008

Hav (CLK GD) Naresh Kumar (No. 1575923L Now JC-3507931) 09th Apr 2008

Hav (CLK GD) Satyapal Singh (No. 1578414X Now JC-350794L) 21st Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26th Jan 2008 without effect on pay & allowances)

Hav (CLK GD) Pappu Appasaheb Satyappa (No. 1579417X Now JC-350795N) 28th Apr 2008

Hav (CLK GD) Rajendram S (No. 1579760A Now JC-350796W) 20th Mar 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2008 without effect on pay & allowances)

Hav (CLK GD) Tajbir Singh (No. 1580112K Now JC-350800N) 22nd Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd Feb 2008 without effect on pay & allowances)

Hav (CLK GD) Kishor Kumar Chauda (No. 1580124Y Now JC-350801W) 15th Apr 2008

Hav (CLK GD) Sagar Mal Yadav (No. 1580216I Now JC-350802Y) 22nd Apr 2008

Hav (CLK GD) Bijay Bahadur Pal (No. 1580219Y Now JC-350803P) 26th Apr 2008

Hav (CLK GD) Rajesh Kumar Puri (No. 1580309A Now JC-350804K) 22nd Apr 2008

Hav (CLK GD) Mahender Kumar Sahni (No. 15180348Y Now JC-350805M) 3rd May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2008 without effect on pay & allowances)

Hav (CLK GD) Rathod Raja Suryabhan (No. 1574388K Now JC-3508091) 16th Apr 2008

Hav (CLK GD) Ram Kalyan Sharma (No. 1580470P Now JC-350810X) 25th Apr 2008

Hav (CLK GD) Shiv Raj (No. 1580479K Now JC-350811A) 25th Apr 2008

Hav (CLK GD) Awadhesh Kumar (No. 1580494Y Now JC-350812H) 22nd Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2008 without effect on pay & allowances)

Hav (CLK GD) Rajan Bakundi (No. 1580503P Now JC-350831N) 1st May 2008

Hav (CLK GD) Sanjit Kumar (No. 1580522A Now JC-350832W) 1st May 2008

Hav (Clk GD) Ramesh Kumar Gurung (No. 1580562F Now JC-350833Y), 1st May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 2008 without effect on pay & allowances)

Hav (Clk GD) Ranvir Singh (No. 1571441Y Now JC-350835K), 10th Apr 2008

Hav (Clk GD) Santosh Kumar Pal (No. 1571615N Now JC-350836M), 20th May 2008

Hav (Clk GD) Ramesh Singh (No. 1579444F Now JC-350837P), 03rd Apr 2008

Hav (Clk GD) Anil Kumar (No. 1579452A Now JC-350838X), 25th May 2008

Hav (Clk GD) Arvind Mehta (No. 1578758W Now JC-350839A), 22nd May 2008

Hav (Clk GD) Shinalkar Pandurang Dhondiba (No. 1578940W Now JC-350840P), 16th May 2008

Hav (Clk GD) Kakade Ramchandra Tukaram (No. 1578941Y Now JC-350841X), 12th May 2008

Hav (Clk GD) T. Kalyan Kumar (No. 1579216Y Now JC-350842A), 30th Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 26th Jan without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Biswanath Pradhan (No. 1579788A Now JC-350845N), 29th Apr 2008

Hav (Clk GD) Thankor Gabhuji Prahaladji (No. 1579422H Now JC-350846W), 30th May 2008

Hav (Clk GD) Manik Debnath (No. 1579962F Now JC-350847Y), 07th May 2008

Hav (Clk GD) Niranjan Das (No. 1579964M Now JC-350848P), 19th May 2008

Hav (Clk GD) Ram Sumiran Patel (No. 1580091Y Now JC-350849K), 05th May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Nand Kumar Sahu (No. 1580345L Now JC-350850Y), 30th Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Jagdish Singh Dhakar (No. 1576305M Now JC-350852K), 16th May 2008

Hav (Clk GD) Tara Dutt Pathak (No. 1578760N Now JC-350853M), 12th May 2008

Hav (Clk GD) Sivan Pillai N. (No. 1579227L Now JC-350854P), 22nd Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr. 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Brijendra Kumar Choudhary (No. 1580010N Now JC-350859N), 22nd May 2008

Hav (Clk GD) Krishna Kumar Ambali (No. 1580505A Now JC-350860H), 30th May 2008

Hav (Clk GD) SK Majaharun Haque (No. 1580759X Now JC-350861L), 01st May 2008

Hav (Clk GD) Subrata Kumar Maiti (No. 1580763A Now JC-350862N), 15th May 2008

Hav (Clk GD) Rabindra Kumar Patro (No. 1580798W Now JC-350863W), 19th May 2008

Hav (Clk GD) Babu Ram (No. 1580894L Now JC-350864Y), 01st May 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Satish Chandra Gaur (No. 1580970M Now JC-350874H), 03rd Jun 2008

Hav (Clk GD) Anil Kumar (No. 1580971P Now JC-350875L), 18th Jun 2008

Hav (Clk GD) Anand Pal Singh (No. 1580972X Now JC-350876N), 06th Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st June 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt) Lalu Ram Dhakar (No. 1586643X Now JC-350808A), 7th Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 2008 without effect on pay and allowances)

ALKA JOSHI  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

#### MUKHYA PRASHASHANADHIKARI KA KARYALAYA

No 526 dated 14 October 2008—The President is pleased to promote following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Services as Section Officer (Group 'B' Gazetted) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 with effect from the date mentioned against their respective names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier:—

Name	Date of birth	Period	
		from	to
Shri sanjeev Kumar Verma	10.12.1971	23 Jun 2008	23 Aug 2008
Shri OP Choudhary	26.12.1949	12 Aug 2008	23 Aug 2008

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents

There will be no claim for regular promotion appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001. The seniority in this Grade will be contra towards his regular appointment i.e Assistant

SHANEAK SINGH  
Deputy Chief Administrative Officer

No 527 dated 15 October 2008—The president is pleased to make following promotions :

#### INDIAN AIR FORCE

WG CDR TO BE SUBSTANTIVE GPCAPT (TIME SCALED)

##### IGS BRANCH

SK KAJJA (14516) wef

16th Dec 2004

WG CDR (TIME SCALED) TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

##### ADM BRANCH

PK CHANDOLA (17497), AM SHARMA (175060) wef

16th Dec 2004

SON LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

##### AE(L) BRANCH

J Chatterjee (19015), RS Kumar (19037), SK Pattnaik (19058), D Bhan (19110), S Kumar (19600), B Philip (19029), N's Ramesh (19626), G Ravi (19629), M thyaganarajan (19080), A's Waniere (19641), U K Goram (19682), S Sharma (19736), HS Maniani (20039), AK Ghosh (20042), PK Routa (20565), PK Samanta (20809), S Pathak (20266), AP Kannan (20304), D Sengupta (20246), N Inse (20293), P Kumar (20696), K Nambhoorthi (20703), B Sen (20861), D Sharma (20826), JV Sanjay Kumar (20838), RK Dash (20817), VC Nabad (20845), AMK Naidu (20869), J Singh (20829), R Shrivastava (21121), JS Govankar (21425), M Dayal (21401), N Bharad (22029), S Sharma (22041), M Rajagopal (22039), Isenly Prasad (22055), M Prabhakar (22064), R Ravi Kumar (22058), wef

16th Dec 2004

JAMALIK (22402) wef

13th Apr 2005

##### AE(M) BRANCH

PS Sareen (19073), SV Pedgaonkar (19112), S Jais (19078), MG Panik (19115), S Akhtar (19083), A Arora (1977), Charles Andrews (19413), R Bahadur (19473), S Kumar (19772), A Goel (19703), CA Somnich (19698), K Ramakrishna (19775), M Prabhu (20225), S Deokuliar (20363), SS Shiralkar (20370), NV J. Tare

(20365), GS Bhatia (20374), PS Nair (20652), V Goel (20699), JP Joseph (20660), S Naik (20893), A Kumar (21197), RR Puri (21085), V Deivara (21083), VK Sharma (21478) wef

16th Dec 2004

Rajender Singh (21670) wef

01 Feb 2005

##### FLYING (PILOT) BRANCH

ABS Chaudhary (22127), S Rai (22119) wef

19 Dec 2005

##### ADM BRANCH

PC Sharma (21696) wef

01 Feb 2005

RS Tewari (17883), S Panda (19933), M Mahapatra (17499), BK Chaudhary (18289) wef

16th Dec 2004

##### IGS BRANCH

A Kumar (22231) wef

19 Dec 2005

##### TDN BRANCH

S Sudharshanani (20098), R Duria Mohan (20214) wef

16 December 2004

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SON LDR

##### FLYING (PILOT) BRANCH

A Tripathi (25605) wef

19 Jun 2005

PA Iyer (23779), BS Bhadana (23191), M Singh (23184), RC Nair (23189), P Minda (23166), T Hindwan (23167), AS Pannu (23178), A Palva (23516), AP Singh (23172), HHA Shaikh (23527), G Vined (23722), N Welde (23193), R Thakur (23177), M Roy (23181), R Tyagi (23194), S Yadav (23169), KJ Singh (23175), S Sethi (23196), AK Chaudhary (23214), R Misra (23199), S Madhona (23212), AM Khediker (23218), D Singh (23163), A Datta (24016) wef

16 Dec 2004

##### FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

J Varghese (23223), S Sethi (23232), D Kumar (23225), S Kumar (23577), PSR Krishna (23235), ASK sharma (23233), P Tripathi (23231), JP Yadav (23221), RS Katoch (23234), J Malik (23222), VR Manohar (23228), SK Mahapatra (23227), DK Lamba (23234) wef

16 Dec 2004

##### ADM BRANCH

AC Mathews (22893), GS Riar (22895), R Singh (22897), AS Reddy (23242), JS Sadan (23247), Bas Joseph (23245), SM Manoharan (23250), D Dhar (23302), A Saxena (23244) wef

16 December 2004

## LGS BRANCH

D Chakrabarti (24005), M Gupta (23265), S Sharma (23263),  
wef 16 December 2004

## ACCTS BRANCH

YS Gaur (23276), SK Ghosh (23277), A Db (23280), wef 16  
December 2004

## AE(M) BRANCH

MV Sridhar (23864), GL Nagendra (24372) wef 16 December  
2004.

## AE(I.) BRANCH

R Singh (24137), PS Khutar (25771) wef 16 December 2004

## FLYING (PILOT) BRANCH

(MS) Bindu Sebasthan (23283) wef 16 December 2004

## ADM BRANCH

(MRS) Mamta Tripathi (23291), (MRS) Manisha Krishanatri  
(23289) wef 16 December 2004

## LGS BRANCH

(MRS) Kalpana Charnoli (23294) wef 16 December 2004

## ACCTS BRANCH

(MS) Rekha Agarwal (23299) wef 16 December 2004

## LGS BRANCH

P Prabhakar (23262), wef 16 December 2004

## FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLTLT

## ADM BRANCH

MK Singh (27244), S Chanana (27241), CM Rao (27252) wef  
21 December 2004

## LGS BRANCH

V. Thakur (27275), wef 21 December 2004

M Rana (26776) wef 16 December 2004

## EDN BRANCH

R Nehru (26798), wef 16 December 2004

## ACCTS BRANCH

OS Rao (26603), wef 16 December 2004

## SHORT SERVICE COMMISSION

## LGS BRANCH

(MS) Minakeshi Thakur (27291) wef 21 December 2004

## (ARMY BRANCH)

No. 528 dated 15.10.08—The president is pleased to permit  
the under mentioned officer relinquish his/her short service  
commission in the Army Medical Crops wef 10.01.2006 and to  
grant him/her permanent commission in the Army Medical  
crops wef the same date under A1 74/76 as amended:—

## (REGULAR ARMY)

## (PERMANENT COMMISSION)

## TO BE CAPT (ON PROB)

Arjun M N (MS-14621-K) (MR-08300-W), AMC with  
seniority for pay and promotion wef 07.04.2003. (MoD  
Notification published in the Gazette of India dated 15.04.2006  
in so far as it relates to officer is hereby cancelled)

The president is pleased to permit the under mentioned  
officer relinquish his/her short service commission in the Army  
Medical Crops wef 15 June 2006 and to grant him permanent  
commission in the Army Medical crops wef the same dated  
under A1 74/76 as amended:—

## (REGULAR ARMY)

## (PERMANENT COMMISSION)

## TO BE SURGLT (ON PROB)

KANANTH KINI (MS-14393-M) (MR-08616-H) (NAVY-  
75796-N), AMC 18-02-2002 with seniority for pay and  
promotion wef 18.08.2001 (This includes 06 months antedate  
for hospital appointment, which will count for pension not for  
gratuity) (MoD notification published in the Gazette of India  
dated 14 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby  
cancelled).

G. RAVINDRANATH

Brig

Dy DGAFMS (Pers)

## ARMY BRANCH

## MUKHYA PRASAHASANADHIKARI KA KARYALAYA

No. 529, dated 16th October 2008—On attaining the age of  
superannuation the President is pleased to retire Shri Trinath  
Panigrahy, Director from Government Service with effect from  
30 Jun 2008 and transferred to the Pension Establishment  
wef 01 Jul 2008.

Sd/-

SHANKAR SINGH

Deputy Chief Administrative Officer

Aug 2008

## ARMY BRANCH

## PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

## CORRIGENDUM

No 530, dated 16 October 2008—In the Gazette of India,  
Ministry of Defence Notification No 617 dated 04 Dec 2007  
published in the Gazette of India dated 22 Dec 2007 under the  
heading 'Permanent Commission (Special List), in the Regular  
Army is hereby amended as under:—

## FOR

1362077 K Hav Gujjar Atul Namdeo (SL-4923 H), INF, RO

## READ

1362077 K Hav Gujjar Atul Namdeo (SL-4923 H), INF, RO

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND